

कबीर के धार्मिक विश्वास

डा० धर्मपाल मैनी,
एम. ए., पी-एच. डो,
प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़ ।

वितरक
भारतेन्दु भवन,
सेकंटर - १५ ए, चंडीगढ़

प्रकाशक

डॉ० धर्मपाल मैनी
ई-१, ५२, सैकटर-१४,
चण्डीगढ़-३.

मूल्य : ₹ ७५

861-H
1257

सुद्रेक :

आर्थ प्रिटिंग प्रैस,
निक्लसन रोड, अम्बाला छावती ।

ਸਮਰ्पण

‘ਅੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾ।
ਕਥਲਾ ਨਾਉ ਰੈ।’
—ਧਰਮਪਾਲ

दो शब्द

आयुष्मान् डा० धर्मपाल मैनी को पुस्तक 'कबीर के धार्मिक विश्वास' कबीर साहित्य के अध्ययन का एक नवीन प्रयास है। डा० मैनी ने कबीर के धार्मिक विश्वासों को बहुत कुशलता के साथ स्पष्ट किया है और सहानुभूति के साथ मूल्यांकन किया है। कबीर भारतीय धर्म-साधना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। वे उन मार्गदर्शियों में हैं जिनके बारे में बार बार लिखा जायेगा, फिर भी लिखने को कुछ रह ही जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि डा० मैनी ने नये सिरे से उनके धार्मिक विश्वासों का मूल्यांकन किया है। आशा है धर्म-साधना के जिजासु इस पुस्तक का स्वागत करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना है कि वे डा० मैनी को दीर्घ आयु और पूर्ण स्वास्थ्य दें, ताकि वे इस क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य करते रहें और नये ग्रथ देते रहें।

चण्डीगढ़
६-१२-६४

हजारी प्रसाद द्विवेदी

परिचय

हिन्दी साहित्य में शील, शक्ति और सौन्दर्य की प्रतिष्ठा रखने वाले शुक्लजी कबीर से आत्मीयता न स्थापित कर सके, लेकिन जब से रवीन्द्र के कवि ने अपनी अनुभूति में कबीर की अनुभूति को साकाश पाया, तब से भारतीय साहित्य मनीषियों ने भी उसे पहिचानने का प्रयत्न किया। इस परिचय और पहिचान के प्रयत्न में बौद्धिक विश्लेषण-परक विद्वानों ने विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा अद्वैत या विशिष्टाद्वैत के पोषक और 'अक्खड़ शैलीकार' के रूप में उसका अनेकविद्य साहित्यिक मूल्यांकन किया। पर लगता है उसके केवल इस दार्शनिक या साहित्यिक मूल्यांकन से जन मानस 'सन्तुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इससे 'उसका वास्तविक स्वरूप 'स्पष्ट नहीं हुआ।

कबीर से परिचय बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा, कि उसकी अनुभूति मूलतः धर्म-परक है। ग्रन्ति अपने साहित्यिक मूल्य और मान्यताओं से उसका उचित मूल्यांकन तो क्या, परिचय भी नहीं हो सकता। उसे पहिचानने के प्रयत्न में हमें अपने आपको उसके अनुरूप ढालना होगा। एक अनुभूति को तो रबीन्द्रवत् किसी दूसरे की अनुभूति ही अनुभव कर सकती है। वह बहुत दूर की चीज़ है, यह किसी से छिपा नहीं। लेकिन आज के वैज्ञानिक कृतिम जगत् में

क्या नहीं उपलब्ध ? बौद्धिक कल्पना से अनुभूति का भी अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है। यहा उसकी अनुभूति नहीं, उसकी भी अभिव्यक्ति में उपलब्ध-निम्न साधन स्वरूप धार्मिक विश्वासो को समझने के प्रयत्न में विश्वास के माध्यम से बौद्धिक-सम्बद्धता के अतिरिक्त लेखक का अपना कुछ भी नहीं, और उसमें भी बौद्धिक पाठ्यक का श्वेहुत-सी असंगतियों से परिचय होगा, विश्वास-परायण की दृष्टि उन पर नहीं भी पैड सकती।

‘विश्व-सरकार’ के इस युग में एक ही ‘मानव-धर्म’ की भी आवश्यकता है। कवीर के माध्यम से इन सन्तों की सान्यताओं में—लगता है, इस ‘मानव-धर्म’ के तत्त्व ही संगृहीत हुए हैं। और सच पूछा जावे, तो ‘वसुधैव कुटुम्ब-कम्’ (सारा विश्व ही एक परिवार है) का उद्घोष करने वाली भारतीय सस्कृति की आत्मा का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले ये सन्त ही हैं, जिन्होंने धर्म, ग्रथ, कर्म और जाति के किसी भी वर्ग को स्वीकार किए बिना क्रियात्मक जीवन के माध्यम से अपना सन्देश प्रसरित किया है। आज विश्व को ऐसे ही आचरण-प्रधान, उदार, निश्चल और निष्कलुष व्यक्तियों की आवश्यकता है। शायद इनके धार्मिक विश्वास ऐसे व्यक्तियों के उद्भूत होने के लिए उपर्युक्त वातावरण की सृष्टि करने में कुछ सहायक हो सके।

भारतीय साहित्य में प्रधान रूप से और हिन्दी-साहित्य में प्रथम और प्रमुख रूप से कवीर के अनुभूति-परक व्यक्तित्व से सहज आत्मीयता अनुभव करने वाले गुरुवर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का ‘कवीर’ आज भी मुर्धन्य है और एक

छ

युग तक बना रहेगा। प्रत्यक्ष गुरु और उनकी कृति की प्रेरणा के बावजूद भी लेखक की अशक्त अभिव्यक्ति उसकी सीमित सामर्थ्य और शक्ति की पर्याप्ति है। फिर भी इस कृति की आवश्यकता क्यों? शायद इसलिए कि यह इस प्रकार के महान् साहित्य तक पहुँचने और उसे समझकर अपनाने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके और साधन भी बन सके। साहित्यिक जगत में लेखक का यह एक अन्य विश्वास-परायण पग-चिह्न है।

आर्य प्रैस, अम्बाला के सहयोग तथा भाषा-विभाग, पजाब के अनुदान को भी लेखक साभार स्वीकार करता है।

—¹⁵लेखक

सन्तों के धार्मिक विश्वास

भाग १

कबीर के धार्मिक विश्वास

१. कबीर :

व्यक्तित्व, ऐतिहासिक परिचय, जन्म-मृत्यु का समय
व स्थान, जाति, गुरु, परिवार, व्यवसाय, जीवन सघर्ष,
गुरु भाई व शिष्य पंरम्परा। १-१३

२ धर्म :

आवश्यक तत्त्व, लक्षण, परिभाषा, दोषका, (सिद्धान्त व
आचार), मानव धर्म, युग की पुकार, कबीर का धर्म
सामान्य विशेषताएँ। १४-१६

३. ब्रह्म-माहात्म्य-आविर्भाव :

गुण—नेति, अजन्मा, अनादि, अगम, अलंध्य, अथाह,
अनन्त, अनश्वर (अक्षर), अरेख, अरूप, असीम,
अननुमेय, असम, अनुपम, अत्याज्य, अभेद्य, अगोप्य,
अमूल्य, अघट (अशरीरी), अदृश्य (अगोचर), अवर्ण्य,
अपठ्य, अशब्द्य, अस्वाद्य, अलिख्य, अतः अतीन्द्रिय,
अकल्प्य, अचिन्त्य, अबोध्य, अज्ञेय, असाध्य, केवल
अनुभूतिगम्य।

/निरुण—निराकार, निरंकार, निरजन, निरबानी, निर्विकार, निर्मल, निर्दोष, निरन्तर (सदास्थायी) ।

सर्वव्यापक—सर्वान्तर्यामी, सर्वस्वामी, सर्वदानी, सर्वरूप सर्वकर्ता, सदा स्थायी, सदा एक रूप (समरूप) अतः सर्व श्रेष्ठ; एकमात्र सत्य ।

लौकिक गुण—कृपालु, रक्षक, भवतारक, ज्योति-प्रकाशक, अदृश्य, परन्तु अनुभूति गम्य ।

ब्रह्म की स्थिरता—एक देशीय न होकर सर्वव्यापक केवल अन्तर में प्राप्य ।

ब्रह्म का स्वरूप—अतीन्द्रिय, गुणातीत अत. निरुण, निराकार ।

ब्रह्म का सम्बन्ध—आत्मा से, अश होते हुए भी ऐक्य, जीव से, कबीर से, गुरु से सत एवं भक्त से, माया से, सृष्टि से ।

२०-४८

४. सुष्टि :

निर्माण, रचना-प्रक्रिया, अस्थिर, नश्वर ।

जीवस्त्वां—उत्पत्ति, ब्रह्म का अंश, स्थूल से सूक्ष्म का विकास, परवश जीव, क्षणिक देह, जीवन, सासारिक सम्बन्ध, योनि भ्रमण, गुरु, सन्त, भक्त ।

४६-६५

५. कबीर का साध्य :

माया से रक्षा, यम से रक्षा, भव-बन्धन का नाश-भव-पार-आवागमन रहित होना (मोक्ष प्राप्ति), भगपत्-प्राप्ति-ब्रह्मज्ञान ब्रह्मरसपान—ब्रह्मानुभूति, साध्य का

भी साध्य, तल्लीनता एवं पूर्ण ऐक्य (ब्रह्म से)
 सदायक शक्तियाँ—नाम की सार्थकता, भगवत्कृपा,
 सत्गुरु, नाम, जप, सिमरन, भक्ति, अनन्य, अनवरत व
 तीव्र-पूर्ण आत्म समर्पण ।
 निष्काम कर्मयज्ञ जीवन—ज्ञान, योग, पवित्रमन, सत्सगति,
 हरि सेवा ।

६६-१०३

६. अवरोधक शक्तियाँ :

ग्रारम्भ-माया-कचन कामिनी, विषय, इन्द्रिया, मन,
 अहंकार, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुःसगति ।

बाह्याधम्बर—आरम्भ, पूजा, स्नान, तीर्थ, व्रत, उपवास,
 श्राद्ध, माला, तिलक, शारीरिक साधना, वेदपाठ,
 पुस्तकी विद्या, जप, बाह्य भेष, वन, निवास, दिखावटी
 पवित्रता, मुख्ला, मस्जिद, बाग, वज्र, नमाज, तसवीह,
 इवादत रोज्जा, हज ।

सामाजिक एकता—द्वूश्राद्वूत का विरोध, जात-पात . का
 अभेद, मानव की एक ही जाति ।

१०४-१२७

७. सन्तों की सामान्य मान्यताएँ :

१२८-१४१

व्यक्तित्व

परम्परीण मान्यताओं में क्रान्ति उत्पन्न करने वाला व्यक्तित्व महान् होता है और कबीर ने भी अपने युग में यही किया था। उसका व्यक्तित्व ज्ञान, भक्ति और कर्म की सामग्री के उस अनुपात से तैयार हुआ था, जिसे उसके बाद सम्भवतः ब्रह्म भी भूल गया। उसका ज्ञान पढाई का नहीं, गुढाई का ज्ञान था, अन्तः ज्ञान था, स्वत उद्भूत ज्ञान था। चन्द्र की भाँति सूर्य को नो ज्यातित होने के लिए ज्योति की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः अग्नि-पिण्ड जो है। कबीर की भक्ति अनन्य और अनवरत थी, जिसका आधार थी उनकी अनुभूति। अनुभूति भी आज के रहस्यवादी कवियों जैसी काल्पनिक नहीं, अपितु अनुभूत अनुभूति। उनका कर्म था क्रियात्मक। निष्काम कर्मण्य-जीवन उनका आदर्श नहीं, उनका दैनिक व्यावहारिक जीवन था। यह कहना भूल है, कि कबीर ने उपदेश दिया था, उसने तो केवल सन्देश दिया था, अपनी आत्मा का—अनुभूति की अभिव्यक्ति के माध्यम से। वह ऐसा जुलाहा था, जैसा न हुआ है न होगा। उसने जो वस्त्र तैयार किया, वह भी उसके व्यक्तित्व की तरह अनश्वर है। उसकी वाणियों से सूतों से बुना हुआ यह मानव-धर्म सत्य, नित्य एव कल्याणकारी वह आकर्षक वस्त्र है, जिसे युग युग तक मानव-मात्र ओढ़ता रहे, पर सम्भवतः अपना न सके। कबीर के वस्त्रों को ओढ़ कर अपनाने वाले भी उसी की तरह अमर हो गये हैं और होते

रहेंगे। भारतीय मनीषाके क्षितिज पर रवीन्द्र, गान्धी और अरविंद ऐसी ही तीन विभूतियां अभी विलुप्त हुई हैं। जो हो, न हिन्दू न मुसलमान जात से मनुष्य, न योगा न भोगी—कर्म से कोरी, न राजा न शासक—समाज के नियन्ता, न ज्ञानी न भक्त—केवल सन्त, और सासार के लिए जो न जन्मे न मरे (क्योंकि किस्वदन्ती के अनुसार जन्म के बदले उहे लहरतारा तालाब के पास पाया गया था तथा मृत्यु के समय चादर के नीचे फूल ही मिले थे, जिन्हें हिन्दू और मुसलमानों ने आधा आधा बाट लिया था)। ऐतिहासिक भौतिक हृष्टि से तो यह सत्य ही है कि दैवीय आत्माएँ, युग की आवश्यतानुसार अवतरित होती हैं और समय की पुकार का समुचित उत्तर देकर तिरोहित हो जाती हैं। अपने कृत्यों व कृतियों के माध्यम से वे अमर होती हैं। जुलाहे का कपड़ा भी उतना ही मजबूत है, जितना विश्व के जुलाहे का। उसने भी सूर्य और चन्द्र की ढरकियों से विश्व-वस्त्र का निर्माण किया था।¹ कोरी ही कोरी की जान सकता है। कबीर की वाणी इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

हिन्दू सम्प्रकार और मुस्लिम प्रभाव में पोषित वयनजीवी वंश में कबीर उत्पन्न हुए थे, यह प्रायः सभी विद्वानों को मान्य है। यह बात और है, कि कुछ उन्हें हिन्दू परिवार की देन और मुस्लिम जुलाहा परिवार में पोषित समझते हैं, तथा दूसरे पूर्णतः मुस्लिम परिवार का ही रत्न मानते हैं।

(३)

इसी प्रकार उनके जन्म और मृत्यु के विषय में कई मत हैं और उपयुक्त प्रमाणों के अभाव में विद्वान् किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं ।

सम्वत् १४५५ कबीर की लोक-प्रगिद्ध जन्म-तिथि है । कुछ विद्वानों ने रामानन्द की मृत्यु-तिथि का अनुमान पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में किया है और उसका शिष्य होने के कारण कबीर की जन्म तिथि को भी वहां तक ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी प्रबल प्रमाण के अभाव में उनकी यह धारणा न तो विद्वानों में हो गयी तथा प्राप्त कर सकी और न ही साधारण पाठक को औचित्य-पूर्ण प्रतीत हुई । इस लिये कबीर की परम्परागत जन्म तिथि सम्वत् १४५५ ही अधिक मान्य है ।

उनकी मृत्यु तिथि के विषय में इससे भी अधिक मत-भेद है, जिसका ग्राहीर अन्यान्य अनुमान है । श्रद्धालु पथ अनुयायियों के अनुसार उन्होंने १२० वर्ष की आयु पाई थी और उनकी मृत्यु सम्वत् १५७५ में मगहर में हुई थी । इस विश्वास के ग्राहार-निम्न दोहे की प्रामाणिकता के विषय में अभी अनुसन्धान की विशेष ग्रावश्यकता है—

‘सवत पन्द्रह सौ पछतरा, कियो मगहर को गौन ।
माघ सुदो एकादसो, रलो पौन मे पौन ॥’

नवाब बिजली खां ने कबीर का स्मारक सम्वत् १५०५ में बनवाया था इस मत को मानने वालों ने उनका निधन-काल यही स्वीकार किया है । और संवत् १५५३ में गुरु नानक से उनकी भेट को प्रामाणिक मानकर कुछ विद्वानों

ने उनकी मृत्यु संवर्त् १५५३ में स्वीकार की है। इस समय उनकी आयु ६८ वर्ष की होगी। हो सकता है कि उनकी आयु १२० वर्ष की रही हो, परन्तु यह बहुत सम्भव नहीं। ६८ वर्ष की आयु भी कम नहीं होती। इस विषय में भी ऐसे प्रबल प्रमाण किसी पक्ष के पास नहीं हैं, कि सभी विद्वान् एक मत हो, उसे स्वीकार कर ले। ऐसी अवस्था में उनका ६८ वर्ष जीवित रहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

कबीर के जन्म-स्थान के विषय में भी ठीक २ कुछ नहीं कहा जा सकता। 'काशी मे हम प्रगट भये हैं, रामानन्द चिताए।' इसका तथा 'इसी प्रकार की उनकी अन्य उक्तियों का आश्रय लेकर विशेषत. जिनमें उन्होने अपने आप को 'काशी का जुलाहा' कहते हुए ब्राह्मणों को चुनौती दी है—बहुत से विद्वानों ने काशी को ही उनका जन्म-स्थान स्वीकार किया है। लेकिन

“पहले दरसन मगहर पायो, पुनि काशी बसे आई।”

को प्रामाणिक मानकर तथा 'मृत्यु के समय अपने जन्म-स्थान की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति' को महत्व पूर्ण बता कर कुछ विद्वानों ने मगहर को उनका जन्म-स्थान माना है। मगहर में आज भी जुलाहों की बस्ती का होना, उनके लिये एक अन्य प्रबल प्रमाण प्रतीत होता है। कुछ लोगों ने काशी के निकट ही 'लहर तारा' तालाब का अनुमान कर वही इनका जन्म स्थान स्वीकार किया है। नीरु जुलाहा दम्पति ने उसी तालाब के पास पड़ा हुआ इन्हें पाया था—इस किन्वदन्ती की सार्थकता भी इस मत से पुष्ट होती है। उनके

अन्य भी बहुत से पदों से उनका काशी-प्रेम प्रगट होता है और जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने काशी में ही बिताया है, 'बहुत बरस तप कीआ कासी ।' इस सबसे, अधिक सम्भावना यही है कि नगर काशी नहीं तो उसको परिधि में पड़ने वाले किसी निकट वर्ती ग्राम में हो । उनका जन्म हुआ था, इसी से जीवन का अधिक भाग भी उन्होंने वहीं बिताया, लेविन भग्ने के समय बाह्याडम्बरो के प्रचण्ड विरोधक कबीर को ब्राह्मणों की चुनौती का क्रियात्मक उत्तर देने के लिए मगहर जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इस चुनौती को सहज स्वीकार किया था—

‘सगल जनमु सिवपुरी गंवाइया,
मर्ती बार मगहर उठि धाइया ।’

मगहर में मर कर अपने इस विश्वास को उन्होंने सत्य सिद्ध कर दिया, कि सत्कर्मों का फल ही अच्छा होता है, न कि काशी में मर कर स्वर्ग प्राप्त किया जा 'सकता है ।

उनका प्रसिद्ध नाम कबीर ही है । यद्यपि पंथ में कबीर साहब उनका नाम प्रचलित हुआ है तथा बहुत से पदों में दास कबीर या कहीं कहीं कबीरदास भी देखने को मिलता है । बस्तुतः आडम्बरवादियों के प्रति उद्दण्ड कबीर भगवान् के प्रति सदैव श्रद्धावनत रहा है और 'दास' शब्द इसी का द्योतक है ।

यूं तो महान् व्यक्तियों की एक ही जाति होती है — मानव । और मध्यकालीन सन्तों ने

‘हरि को भजै सो हरि का होई’

कह कर 'भगवद्भक्त' नामक एक नई जाति का निर्माण कर लिया था, जिसके कबीर उज्ज्वलनम रहन थे। लेकिन हिन्दू और मुसलमान, कोरी तथा जुलाहा जातियों के चक्रकर में पड़ने वाले आधुनिक युग के बौद्धिकों ने उन्हें तर्क वितर्क के चक्रकर में फपा कर एक विशेष जाति के बधन में बाधने का प्रयत्न किया है।

'तू ब्राह्मन मैं कासी का जुलाहा बूझदृ मोर गिआना ।'

इसी प्रकार कई बार उन्होंने अपने जुलाहा कहने में ही गौरव अनुभव किया, और कही कही उन्होंने अपने को 'कोरी' भी कहा है। मूलत दोनो ही वयन-जीवी हैं। आज के बौद्धिक अनुसंधितमुओं ने यह भेद करने में देर नहीं लगाई; कि ये जुलाहे मुसलमान थे और कोरी हिन्दू। फिर भी कबीर दोनों में से किस वश में हुए यह झगड़ा बना ही रहा। स्वामी रामानन्द के आशीर्वाद से विघवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लेना तथा मुस्लिम नीरु जुलाहा दम्पति द्वारा उसका पोषित होना—दोनों ही प्रसिद्ध किवदन्तियाँ हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है—कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुश्त पहले की योगी जैसी किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलान हुई थी या अभी होने की राह में थी।¹ यह कह कर उन्होंने योगी या जुगी जाति को कोरी या जुलाहा से अधिक महत्व प्रदान किया है। मूलतः जो बात उन्होंने कही है वह यह है कि हिन्दू सर्कार नाथ पन्थियों के माध्यम से इन योगियों में

आये थे और उन सस्कारों के स्थान पर जिन योगियों में नाथ पन्थियों के विश्वास ही प्रबल हो गये थे या हो रहे थे, वे योगी ही धीरे धीरे मुस्लिम-धर्म ग्रहण कर रहे थे ऐसे ही वश में कबीर का पालन पोषण हुआ ।

कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर आँचते हैं कि कबीर का वंश एसा था, जिसमें बहुतायत से हिन्दू सस्कार जीवित थे, लेकिन उनके आचारों पर अधिक प्रभाव मुसलमानों का था । उनका क्रियात्मक जीवन वयनजीवियों का था, जिस पर इन दोनों से भी अधिक नाथ-पथी योगियों की छाप अकित प्रतीत होती है । वस्तुतः कबीर' ने अपने को हिन्दू और मुसलमान दोनों से अलग स्वीकार किया है, इसी लिए उनकी एक मात्र सर्वमान्य जाति थी—मानव और उनका व्यापक और उदार धर्म था—मानवता, बन्धन हीन, आडम्बर एवं आवरण हीन ।

इसके बावजूद भी कि कबीर ने गुरु को गोर्बिद से भी उच्च-पद प्रदान किया है, कुछ विद्वानों ने न जाने यह कैसे स्वीकार कर लिया, कि कबीर 'निगुरे' थे । यह बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । निम्न जाति का होने के कारण जब, कबीर सीधे-से रामानन्द का शिष्यत्व न पा सके, तो सीदियों पर लेट कर स्नान के लिए आते हुए स्वामी रामानन्द के चरण-स्पर्श में भी उन्होंने राम-नाम की दीक्षा ले ली । इस किंवदन्ती में कुछ तथ्य हो या न हो लेकिन राम से अनु-प्राणित कबीर के जीवन से इसमें से इस सत्य की गध अवश्य आता है, कि उन्होंने राम-नाम को दीक्षा अवश्य ली होगी और बहुत सम्भव है कि उनके दीक्षा-गुरु रामानन्द ही रहे

हों। यद्यपि कुड़ विद्वानों ने शेख तकी को भी उनका गुरु मानने का प्रयत्न किया है, लेकिन यह कल्पना बिलकुल भी संगत नहीं प्रतीत होती, सम्भवत् इसी लिए प्राय सभी विद्वानों ने इस मत को अग्राह्य घोषित किया और रामानन्द को ही उनका गुरु० स्वीकार किया है। यह ठीक है, कि सत्संग का उन्होंने कथनी और करनी में विशेष महत्त्व स्वीकार किया है और जीवन भर इसके माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान करते रहे, लेकिन उनके समग्र जीवन और देन का मूल्यांकन करते हुये हमें यह मानने में सकोच नहीं होना चाहिए कि उनके दीक्षां-गुरु रामानन्द ही हो सकते हैं ग्रन्थ कोई नहीं।

‘बूढ़ा बंस कबीर का, उपज्या पूत कमाल।
हरि का सुमरिन छाँडि के, घर ले आया माल ॥’

यदि यह पद प्रामाणिक है, तो कबीर के पुत्र अवश्य था और यदि पुत्र था, तो पत्नी भी अवश्यवशी—यह और बात है, कि एक ही थी या दो। जो एक के मरने के बाद आ गई होगी—वस्तुतः जैसे कबीर का जीवन सरल और स्पष्ट नहीं था, उसी प्रकार उनके जीवन-सम्बन्धी इतिवृत्त भी अस्पष्ट ही हैं।

कुछ विद्वानों का कहना है, कि लोई उनकी शिष्यामात्र थी। दूसरों का कहना है, कि वह उनकी पत्नी थी। तीसरों ने दोनों में बहुत अच्छा समझौता करवा दिया, यह कह कर, कि पहले या बाद में शिष्या भी रही होगो, पर पत्नी अवश्य थी। कहते हैं, दूर से आने वाले साधु अतिथि की सूचना पाकर वह कबीर से विशेष प्रभावित हुई थी, तभी से

उसके साथ रहने लगी । इस किम्बदन्ति का कुछ सत्य भी उनके इस सम्बन्ध में दिखाई देता है । एक जगह उन्होंने कहा है—

‘पहिली कर्षणी कुजाति कुलखनी ।

अब को सर्वपी सुजाति सुलखनी ॥’

इससे उनकी दो स्त्रियां होने का अनुमान लगाया गया है, जिनके रूप, गुण का भी वर्णन मिलता है । एक अन्य उद्धरण के आधार पर कुछ विद्वानों ने एक का नाम लोई और दूसरी का धनिया या राम जनिया बताया है । उन्होंने भी कहा है—‘मेरी बहुरिया का धनिया नाउ ।’ यह लगभग निश्चित प्रतीत होता है, कि उनकी एक पत्नी तो थी ही और कमाल नामक उनका एक पुत्र भी हो । कबीर की मां उससे बहुत नाराज रहती थी, क्योंकि वह भौतिक-समृद्धि की प्राप्ति के लिये तो अधिक उद्यम नहीं करता था—यद्यपि वह जीवन-भर ताना-बाना बुनता रहा, लेकिन अधिक सम्भावना यही है, कि वह गुजारे भर के लिये कमाता होगा और संग्रह की उसे कोई चिन्ता न होगी, इसी से उसकी मां को बराबर यह चिंता चनी रही, कि इसे ‘ताना बाना कच्छ न सूझे’ और यह ‘हरि हरि रसे लपटिओ ।’ मां ने उसे कई बार समझाया भी ‘हमारे कुल कड़ने रामु कहिओ’, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था, तब उसने खीझ कर कहा—

‘जबकि माला लई निपूते तब ते सुखु न भइओ ।’

भक्त का लौकिक परिवार सुखी रह भी कैसे सकता था । एक दो स्थानों पर उसने अपने पिता का उल्लेख भी किया है, पर उससे उनके किसी विशेष व्यवहार और गुणों पर

प्रकाश नहीं पड़ता। एक जगह उसने लिखा है—‘बापि दिलासा मेरो कीन्हा ।’ सम्भवतः यह तभी का उल्लेख हो, जब मा के क्रोधित होने पर कबीर रुठ गया हो। सक्षेपत कहा जा सकता है, कि कबीर भी सामान्य लौकिक गृहस्थ था। मा की फिड़किया, बाप का दिलासा, पत्नी के उलाहने, और कुपूत कमाल सभी उनके जीवन के वरदान थे। इस सामान्य गृहस्थ की महिमा इसी मे है, कि इसने इस बन्धन मे बध कर भी निर्लिप्त दष्टि से अपना मार्ग बनाए रखा—और निवृत्ति-परक प्रवृत्ति का मध्य-मार्ग चुनकर जन-जीवन को उन्नत पारिवारिक जीवन का क्रियात्मक स्नादेश दिया।

‘हम घर सूत तनहि नित ताना ।’

सूत के ताने-बाने में ही वे जीवन के ताने-बाने का सत्य ढूँढते रहे। आजीविका अर्जित करने के लिये उन्होंने वयन-जीवी बने रहना ही उपयुक्त समझा। उनकी वाणियो मे प्रयुक्त ताने-बाने के रूपको को ध्यान से देखने से पता चलता है, कि उन्हें अपने व्यवसाय का बड़ा सूक्ष्म ज्ञान था। बिश्व-स्तष्टा को कोरी कह कर उसने उससे अदभुत तादात्म्य स्थापित किया है। इसी में उनके लौकिक और पारलौकिक जीवन का अद्वितीय समन्वय और संतुलन देखने को मिलता है।

सत्संग को ही वे सर्वोत्तम तीर्थ-यात्रा समझते थे। इसीलिये उस युग के घुमक्कड़ संतों की तरह उपदेश देने या अपने विचारों का प्रचार करने बहुत इधर-उधर नहीं धूमे, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें अपने व्यवसाय से हाथ धोना पड़ता, जो उन्हें उपयुक्त न प्रतीत हुआ। इसीलिये उन्होंने बहुत

कम यात्राएं की । उनकी समाधियों तथा अन्य अनुमानों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है, कि वे रत्नपुर, जगन्नाथ पुरी तथा गुजरात भी गये थे । पर यह बहुत सम्भव नहीं प्रतीत होता, हां ! मगहर वे अवश्य गये थे और 'गोमती-तीर' आदि कुछ आस-पास के स्थानों पर भी कभी गये होंगे, इसमें सन्देह नहीं ।

उनका जीवन बड़े सघर्षों में व्यतीत हुआ था । बालपन से ही द्विविधाओं ने उनका साथ दिया था । जैसा कि किंवदन्ती के आधार पर प्रचलित है, कि विधवा के घर जन्म और जन्मते ही फैके जाना, पुनः नीर जुलाहे के पास पालन-पोषण-यह सब सामान्य जीवन का प्रवाह नहीं है । इसी प्रकार बड़े होकर मां की फिड़किया तथा और बड़े होकर पत्नों के उलाहने यह सब भी उनके लिये सरस-जीवन का गौरव नहीं बन सका । न केवल घर में ही यह हालत थी, बाहर तो और भी बुरी दशा थी । पांडे और पडित से तो उलझते ही रहते थे, काजी और मुल्ला से भी वैर लेने में उन्होंने कभी देर नहीं लगाई । बस एक अपनी ही धुन के पक्के थे । उन्हे जो गलत लगता था, उसे खुले मैदान में भी कहने में कभी न चूके थे, चाहे फिर भी दुश्मन क्यों न हो जावे और उसका कुछ भी दुष्परिणाम उन्हें क्यों न भुगतना पड़े । इस सौदे में वे ज्ञानी-अज्ञानी, छोटे बड़े, राजा-रक किसी से भी न डरे थे—इसीलिये उन्हें राजा ने क्रोधित हाथी के सामने 'भुजा बाध मिलाकर डारियो' लेकिन उस भगवत्-विश्वासी भक्त को न जाने भगवान् ने कैसे बचा लिया । पुनः गंगा में डुबाने के लिये जिस जंजीर से बाध कर फैका गया था, गंगा ने भी कबीर को डुबाने के स्थान पर

उस जंजीर को ही तोड़ कर डुबा दिया और उसे तो उबार दिया—अद्भुत है विधि का विधान और भक्त का विश्वास । इस अद्भुत विश्वास के सहारे ही युग २ से भगवद्भक्त जीवन बलिदान भी करते आये हैं । सम्भवतः इन विरोधों, पीड़ाओं और यातनाओं के कारण हो वे अधिक उद्दण्ड और प्रचण्ड हो गये थे । जहां भगवान् और उनके सच्चे भक्तों के प्रति उनमें अद्वा और नम्रता थी, वहां आडम्बरवादियों के प्रति उनमें आक्रोश था । अद्भुत था उनका जीवन और व्यक्तित्व, जिसमें विरोधी कार्यों और गुणों का विशिष्ट समाहार उपलब्ध है ।

सेन, पीपा, रैद्रास और धन्ना इनके गुरु-भाई प्रसिद्ध हैं । विद्वानों ने इस दृष्टि से इन सब का समय-निर्धारण तथा परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है । और जो हो या न लेकिन इनकी वाणियों का अध्ययन करने से इनकी विचार-धारा में अद्भुत साम्य अवश्य मिलता है । ये सब समकालीन रहे हो या न, हां ये एक परम्परा में अवश्य थे और विचारधारा की दृष्टि से यह परम्परा रामानन्द की परम्परा ही कहला सकती है । कबीर का व्यक्तित्व इन सब से प्रखर था, अतः रामानन्द के बाद वे युग-प्रवर्त्तक बन बैठे ।

कबीर ने बड़े व्यापक जन-समुदाय को प्रभावित किया था । उसमें वर्ग, व्यवसाय, जाति, अवस्था आदि का विचार त्याग कर सभी कोटि के व्यक्ति के । इतना होने पर भी नियमित शिष्य-परम्परा चलाने की दृष्टि से उन्होंने किसी विशेष शिष्य को ऐसे अधिकार न दिये थे । उन्होंने अपनी कृतियों में किसी शिष्य का उल्लेख भी नहीं किया । परन्तु

भवत्-परम्परा के आधार पर उनका रोजा बनने वाले बिजली खा, कबीर-पथ की छत्तीसगढ़ की शाखा के प्रवर्त्तक धर्मेदास तथा उनकी पंथ-परम्परा को काशी में चलाने वाले सुरतगोपाल का नाम उनकी शिष्य-परम्परा में सादर लिया जाता है। यह और बात है, कि जिस मूर्ति-पूजा और बाह्याङ्गमरों का विरोध करते २ उन्होंने जीवन बिता दिया, उनके शिष्यों द्वारा प्रचलित पथों की शाखाओं में उन्हीं की मूर्ति की पूजा होने लगी और सब आचारों का रूप भी निर्धारित कर दिया। विश्व के सभी धर्मों के उन्नायकों के विषय में यह सत्य प्रतीत होता है, कि ज्यों २ किसी धर्म की जीवत-शक्ति क्षण होती जाती है, त्यों २ वह भी आचार-प्रधान हो कर समुदाय के रूप में व्यापक तो हो जाता है, परन्तु आन्तरिक दृष्टि से प्रभाव और महत्व हीन भी होता जाता है। कबीर नहीं, उसके अनुयायियों द्वारा प्रवर्तित कबीर-पथ भी इसका अपवाद नहीं।

सत्य के प्रति आग्रह और असत्य पर आघात; भक्ति से आत्मीयता और मायावी से अलगाव; कथनी में शक्ति और करनी में विश्वास, निवृत्ति-परक होते हुए भी प्रवृत्ति-परक जीवन, सत होते हुए भी पूर्ण गृहस्थी, सधर्षभय जीवन बिताते हुये भी, स्वतः सरल, उपदेश देने वाले होकर भी स्वतः आचरणशील; सामान्य होकर भी असामान्य एवं अद्वितीय स्वभाव, कृतित्व एवं व्यक्तित्व रखने वाले युग-द्रष्टा कबीर युग-नायक भी थे। उनके इस व्यक्तित्व को महान् बनाने वाले धार्मिक विश्वासों का ही अध्ययन अगले पृष्ठों में किया गण है।

-२-

यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः^१

ऐहिक एव पारलौकिक सुख, शान्ति एव समृद्धि की ओर ले जाने वाला साधन धर्म है। सृष्टि के विकास-क्रम के साथ साथ बौद्धिक मानव मृत्यु के माध्यम से यम के सहारक प्रहार को न सह सका। सदा बने रहने की बलवती इच्छा ने उसमें एक अज्ञात शक्ति के प्रति भय उत्पन्न कर दिया। उस भय से ही मानव मे उस शक्ति के प्रति विश्वास, श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हुआ। यह भगवत्प्रेम ही धीरे धीरे कुछ बन्धनों के साथ मानव-धर्म मे परिणत हुआ।

यो तो 'धारणाद्धर्मइत्याह'^२ धारण करने से ही धर्म बन जाता है। इसीलिए अग्नि का धम दूहकता है। जो हो, धर्म के इन मूल तत्त्वों से जब मानव सम्बद्ध होता है, तब वे ही मानव-धर्म का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार मानव-धर्म के भो दो उद्देश्य हैं। जसा कि ऊपर बताया जा चुका है—ऐहिक एव पारलौकिक सुख, शाति व समृद्धि पाना। मूलतः ऐहिक समृद्धि अपने आप मे साध्य नहीं, वह तो केवल साधन रूप मे स्वीकार्य हो सकती है। ऋम से ऐहिक सुखो को ही मानव साध्य समझ बैठता है, वस्तुतः पारलौकिक उन्नति एव अविरल आनन्द मे तल्लीनता ही मानव-जीवन का साध्य है। और जो मानव जीवन का साध्य है, वही मानव-धर्म का

1. वैर्णेयक दर्शन १. १।

2. महाभारत पर्व ६६, ६६।

उद्देश्य हो सकता है। सम्भवत इसी कारण धर्म के दो पक्ष हैं, सिद्धान्त पक्ष और व्यवहार (आचार) पक्ष। समृति कारने 'आचारप्रभवो धर्मः'³ कह कर आचार का महत्व स्थापित किया था। क्योंकि उन सब सिद्धान्तों का ज्ञान व्यर्थ है, जिन्हे जीवन में क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। यद्यपि युधिष्ठिर को 'सत्यवद' का पाठ एक माँस भर न याद हो सका था, तथापि धर्मराज की उपाधि ने उन्हीं को विभूषित किया था। इतना होते हुए भी सत्य के ज्ञान के बिना उसे आचरण में उतारना यदि असम्भव नहीं, तो कठिन ग्रवश्य है। अतः सिद्धान्त पक्ष का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है, जितना कि उसके व्यवहार (आचार) पक्ष का ! दिव्य आत्माओं की अनुभूति पर अधारित सिद्धान्तों को आधार बना कर सम्यक् व्यवहार (आचार) से जीवन व्यतीत करना ही वह धार्मिक जीवन है, जो निर्लिप्त मानव को ऐहिक सुखों के माध्यम से पारलौकिक सुख और शाति की ओर ले जाता है।

मानव-धर्म महान् है। उसे किसी तर्क की नहीं, अनुभूति की आवश्यकता होती है। उसके आचार में किसी बाह्य बधन का नहीं, एकमात्र सद्भाव और निर्लिप्तता का ही राज्य होता है। लेकिन मानव परिवारिक एवं सामूहिक प्राणी है, अतः उसने मानव-धर्म को भी सामाजिकता के कटघरे में बन्द करना प्रारम्भ कर दिया। सामाजिकता के संकीर्ण घेरे में मानव-धर्म पनप नहीं सकता, अतः उपयुक्त क्षेत्र के अभाव में उसमें भी विकार आने ग्रवश्यम्भावी हैं। इन विकारों के ही परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण को कहना पड़ा था—

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् ॥”⁴

धर्म के नाश और अधर्म की वृद्धि होने पर ही दिव्य आत्माओं को संसार में अवतरित होना पड़ता है । ये दिव्य आत्माएं और कुछ नहीं, वे ही लौकिक महापुरुष हैं, जिन्होने अन्त करण में स्थिरं ब्रह्म को उद्भासित कर लिया है । परिस्थितियों का ऐसा करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संयोग एव सहयोग होता है । सम्भवतः इसीलिये बर्कले ने तो यहा तक कहा है, कि विश्व की महान् विभूतियाँ काल-प्रसूत होती हैं । जो बहुत सत्य है । रावण की विकृत प्रतिभा से उत्पन्न दुराचारों ने प्रवासी दशरथ-पुत्र को राम बना दिया था । कस के अत्याचारों तथा दुर्योधन के ‘सूच्यग्र नैव दास्यामि’ (सुई की नोक के बराबर भी भूमि न ढूगा) वाले हठ ने ब्रज की गोपियों के ‘कन्हैया’ को भगवान् श्री कृष्ण बनने पर विवश कर दिया था । ‘ज्ञानलवदुर्विदग्ध’ ब्राह्मणों के याज्ञिक अनाचारों ने बुद्ध की प्रसुप्त सहज-प्रतिभा को उद्बुद्ध कर उसे भगवान बुद्ध बना दिया था । इसी परम्परा में भारतीय मनीषा के क्षितिज पर अभारतीय मानव मानव नहीं, दानवों की राजनैतिक एव सामाजिक ही नहीं, अपितु धार्मिक क्षेत्र की नृशस्ता तथा भारतीय धर्म नहीं, उसके आचार के आडम्बर ने कबीर को कबीर (महान्) बनने के लिए पुकारा था । इसी लिये द्विंदी जी को लिखना पड़ा—‘कबीर आविभूत हुए थे ।’ वे आविभूत हुये हो या न ! लेकिन यह

4. यीता अध्याय ४, ७ ।

5. कबीर: आचार्य हजारीप्रसाद द्वि. वृ. १५० ।

नितांत सत्य है, कि उन्होने ब्रह्म को अवश्य ही अपने अन्तः-करण में 'आविर्भूत' कर लिया था। इसी लिये सत्य का कवच पहन कर, कटु सत्यों का प्रहार करते हुए उन्होने समाज के सब अधार्मिक ठेकेदारों को भाड़ कर, फटकार कर, और समझाकर अन्त में सहलाया भी, ताकि वे उचित धर्म मार्ग पर अग्रसर हो सके।

कबीर अपनी आत्मा के सच्चे पुजारी थे और वे जानते थे कि सत्य दो नहीं हो सकते। इसलिए उन्होने किसी सत्य का कभी विरोध नहीं किया और जो सत्य नहीं, वह धर्म भी नहीं हो सकता, अतः उन्होने किसी धर्म का भी विरोध नहीं किया, उन्होने तो केवल सत्य तथा धर्म के आवरण के नीचे जमी हुई मैल को बाहर निकाल फैकने का प्रयत्न किया, अतः कबीर के धर्म की सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होने आजू के आडम्बर पूर्ण 'कबीर-पंथ' का सृजन न करके सर्वजनीन चिरतन मानव-धर्म की स्थापना की थी। अत्मा के सच्चे सेवक होने के कारण कबीर मन्त्रद्रष्टा: ऋषियों से भिन्न स्तर पर न थे और दिव्य-आत्माओं की अनुभूतियां प्रायः एक-सी होती हैं, क्योंकि अनुभूति निश्छल और पवित्र अन्तःकरण की ध्वनि होती है। कबीर का काव्य इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

कबीर का 'कबीरत्व' इसी में है, कि उसने केवल 'अनभौ साच' को ही अभिव्यक्ति दी। इसलिए उसके कथन में सत्य का बल, वाणी का ओज, भाषा की सरलता और सादगी, जिन्दगी की सच्चाई, वास्तविक आचार की रूप रेखा, हृदय

का पीड़न, भाव का उच्छ्वलन, ज्ञान का प्रकाश, बौद्धिकता का विकास, मानव-मन का स्वभाव, समाज का कल्याण हैं और इनसे भी बढ़ कर है, जीवन का अमर सन्देश—एकमात्र सत्य से तादात्म्य । जिसने उसे पहचाना, वह अमर हो गया; जिसने उसे जाना, वह ज्ञानी हो गया, जिसने उसके रहस्य को समझा वह समझदार हो गया, जिसने उसे पढ़ा, वह पण्डित हो गया; जिसने उसे सुना वह निर्मल हो गया; और जिसने उसे अपनाया, वह तो स्वयं कबीर (महान्) ही हो गया ।

कबीर जन्म, जाति, और कर्म से सामान्य मानव थे, इसी लिये उनके माध्यम से मानव धर्म का प्रसार हुआ । वे दार्शनिक न थे, लेकिन उन्होंने सम्पूर्ण दर्शनों के तत्त्वों के दर्शन कर लिये थे, वे तार्किक भी न थे, परन्तु वे उनके प्रत्येक तर्क से परिचित थे; वे वेद पाठी भी न थे, पर वेदों का सार सासार को पढ़ाने की क्षमता रखते थे, वे पुस्तकी विद्या के ज्ञाता न थे, पर अथाह ज्ञान के भण्डार थे; वे सामाजिक दृष्टि से बाह्य आचारवान न थे, पर उनका व्यक्ति आचार-निष्ठ था; अतः वे सामान्य होकर भी असामान्य थे और किसी के कुछ भी न होकर सभी के सब कुछ थे ।

उनके ‘कर्म और धर्म’ में एकता थी; ‘कथनी और करनी’ में साम्य था; ‘कहनी और रहनी’ में समरूपता थी । उनका धर्म ‘नकद धर्म’ था, जिसका उधार उनको मान्य नहीं, जिसे सीमित रखना उन्हें सह्य नहीं और जिसका उपदेश उन्हें ग्राह्य नहीं, क्योंकि वे तो केवल सन्देश देने की साधना लेकर आये थे—वह भी कथनी नहीं, करनी के माध्यम

से । इसीलिए कबीर का धर्म योग में अटका नहीं, वहाँ से 'सहज' बन कर निकल आया; ज्ञान में उलझा नहीं, वहाँ से 'विवेक' बन कर चला आया; और भक्ति में रमा नहीं, वहाँ से अनुभूति बन कर वह त्रिकला । अतः वह विभिन्न मतों से विवाद करके भी स्वतः किसी 'वाद' के चक्कर में नहीं फँसे, अन्यान्य सम्प्रदायों से झगड़ कर भी किसी झगड़े में नहीं उलझे; इसी लिए किसी विशिष्ट समुदाय के धर्म-प्रणेता न बन मानव-धर्म के निर्माता बने ।

कबीर दार्शनिक न थे, अतः उन्हें किसी दर्शन विशेष के बंधन में नांथना उनके साथ और अपने साथ अन्याय होगा । क्योंकि अनुभूति तर्क की सीमाओं से परे की वस्तु है और दर्शन का तो आधार ही तक है । इसी कारण अद्वैतवाद की ओर रुक्खान रखने वाले बौद्धिकों ने उनकी अनुभूतियों को अपने विचारों के अनुकूल ढालकर उन्हें विशिष्ट सम्प्रदाय के समर्थक बताया है । न केवल उनकी अनुभूति, अपितु उन्हीं की अभिव्यक्ति को विषयानुकूल सम्बद्ध कर सरल व स्पष्ट गद्य में प्रस्तुत करने का हमारा प्रयत्न है । यहाँ उनके धार्मिक विश्वासों का अध्ययन ब्रह्म, सृष्टि, जीव, उसका साध्य, तथा अवरोधक शक्तियों के माध्यम से हुआ है ।

—३—

ब्रह्म माहात्म्य

कबीर सात समुद्दिः मसु करउ,
कलम करउ बनराइ ।
वसुधा कागदु जउ करउ,
हरि जसु लिखतु न जाइ ॥⁶

ब्रह्म का माहात्म्य तो इतने से ही स्पष्ट है कि उसका गुणांकित करने के लिए अनपढ़ कबीर को भी ‘वसुधा, कागदु, तथा सात समुद्दिः मसु’ की सामग्री अत्यल्प ही प्रतीत हुई, फिर वह हरिगुण कैसे लिख सकता था। कबीर तो जीव ही था ‘सनक’ ‘सनन्दन’ आदि भी उसका गुणगान करते हैं⁷ लेकिन वे अन्त के अनन्त माहात्म्य का अन्त कहाँ । न केवल सुरपति, नरपति उसकी महिमा को कहने में असमर्थ हैं अपितु “चारु वेद और सिद्धित पुराना” इसके महत्व का बखान करने में अशक्त हैं। नारद और शारदा उसकी सेवा में उपस्थित हैं और ब्रह्मपत्नी कमला तो दासों ही बनी बैठी है। लेकिन उसका गौरव नारी की सीमाओं से भी परे है ॥⁸ “ठाढा ब्रह्मा निगम बीचारे” लेकिन “अलखु न लखिआ

6. ‘अंथ’ श्लोक ८१

7. पृष्ठ ३३६ पद ७४

8. पृ० ४७८, १३

जाइ।” औरो की तो बात ही दूर रही लेकिन स्वयं ब्रह्मा भी ब्रह्म को न जान सका।⁹ अगणित चन्द्र तथा सूर्य जहाँ दीपक का कार्य करते हुए प्रकाश करते हैं, असख्य धर्मराज जिसके प्रहरी हैं और देवताओं की तो बात ही क्या—उनके भी राजा ‘इन्द्रकोटि जाके सेवा करहि’¹⁰ ऐसे ब्रह्म के माहात्म्य का क्या कभी बखान हो सकता है—मानव कल्पना से भी दूर की बात है।

न केवल अरूप उसके रूप की कल्पना ही महान है। अपितु उसकी कर्तृत्व-शक्ति का ज्ञान भी मानव-मन की सीमाओं में आबद्ध नहीं हो सकता। वह जब चाहे हँसते को रुला देता है और रोते को हँसा देता है। ‘जल ते थल करि’ और थल से कूप तथा पुनः मेरु पर्वत तक बना डालता है। क्षण भर मेरे भिखारी को राजा और ‘राजा ते भिखारी’ बना देता है। सक्षेप मेरे मानव-मन की सभी अकल्प्य कल्पनाओं को भी वह क्षण भर में साकार व सार्थक कर देता है। बाणी को अदम्य अभिव्यक्ति से भी जब वे सन्तुष्ट न हो सके, तब उसे ‘गू गे का गुण’ कह कर उन्होंने सन्तोष किया। गुरु नानक ने “मैं मूरख कहणु न जाई” कह कर अपनी विनम्रता का परिचय दिया है। भक्त शिरोमणि तुलसी दास ने गुण गान करते हुए थक कर कहा—‘अनत हरि की कथाए भी ग्रनत हैं।’ और यह कहकर वे स्वातः सुख में लीन हो

9. पृ० ११५०, ५

10 पृ० १०५८, ३.

11 पृ० ७६२, १, १.

गये। इतना होते हुए भी लेखक का यह लघु प्रयत्न 'तितीषु' दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्' (पोत से भी दुस्तर महान् सागर को तैरने का) दुस्साहसमात्र समझा जा सकता है, जिसका दोष लेखक को नहीं, महान् अनुभूतियों को अभिव्यक्ति के अध्ययन और उससे प्राप्त अद्यत्य प्रेरणा तथा अनवरत उत्साह को ही दिया जा सकता है।

आविर्भाव

कबीर का ब्रह्म निर्विवाद रूप से अजन्मा, अनादि तथा अयोनि है, लेकिन भक्ति की भक्ति में इतनी शक्ति है कि अपनी अनुभूति से वह उसे अन्तर में उद्भासित कर लेता है। इसी लिये कहा है, 'पूति पिता इकु आइया'¹² पुत्र (आत्मा) पिता (परमात्मा) को आङ्गिभूत कर लेनी है और 'दिल महि साई परगटै'¹³।

ब्रह्म के गुण

वास्कलि के आत्मा क्या है? यह पूछने पर भाव की आत्मा ने दो बार मूक रह कर उसे अपना सन्देश दे दिया था—लेकिन उसके न समझने पर तीसरी बार भाव को कहना ही पड़ा था कि 'आत्मा मौन है'¹⁴। सम्भवतः इसी लिए 'आत्मान विद्धि' (अपने आप को जानो) का भारतीय दर्शन में मानव जीवन के साध्य के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। आत्मा तो शान्त है लेकिन परमात्मा क्या है?

12. पृ० ६२५, ६.

13. श्लोक १८६

14. दास गुप्त—हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफो, भाग पृ० ४८।

‘स एष नेति’¹⁵ ‘वह यह भी नहीं’ ‘वह भी नहीं’ इत्यादि। ‘मन्त्र द्रष्टार’ कृष्णियो ने इस नेति पद्धति से ही उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया है। कबीर को अनुभूति भी उनसे बहुत भिन्न नहीं है। अत उसी पद्धति का आध्रय लेकर हम कबीर के ब्रह्म को समझने का प्रयत्न करेगे। कबीर का ब्रह्म अनादि है और अनादि होने के साथ साथ वह अजन्मा भी है क्योंकि ‘आवै न जाई मरै न जीवै’¹⁶। और जो विश्व में नहीं आता वह अयोनि भी है, इसीलिये वह अनायास ही अमर भी है। ‘अगम-अगोचर रहै निरत्तरि’¹⁷ वह न केवल ‘अगम’ और अगोचर है। अपितु अलध्य व अतर भी है, उसे लाघ कर आगे बढ़ने की बात तो दूर रही, उस तक पहुँचना भी असम्भव नहीं, तो अति कठिन अवश्य हैं। अन्तर्हित होने के कारण उसका पार भी नहीं, पाया जा सकता, ‘ना अन्तु न पार’।¹⁸ और जिसका अन्त नहीं उसकी गहराई का भी क्या ज्ञान, ‘थया अथाह थाह नहीं पावा’¹⁹ जीव तो क्या शिव-शुकदेव भी उस ब्रह्म की थाह न पा सके। उसके गुणों की थाह पाने में प्रयत्नशील कबीर उसे अनन्त कह कर सन्तोष करते हैं। क्योंकि ‘वेद पड़ि पड़ि ब्रह्मे जनमु गवाइया’²⁰ लेकिन अनन्त का अन्त कहा? अनन्त ही जो ठहरा।

अनन्त होने के कारण ही वह अनश्वर, अविनाशी, अक्षर

15. बृहदारण्यकोपनिषद्—४, ४, २२।

16. पृ० ३३३, ४०.

18. पृ० ११५६, १०.

20. पृ० ४७८, १०.

17. पृ० ३३३, ४८.

19. पृ० ३४१, २३.

एवं 'अमर' है। काल की अबाध गति से कोई नहीं बच सका लेकिन एक मात्र ब्रह्म 'सदा स्थिर' है। 'दुईं प्रखर न खिसहि'²¹ सम्पूर्ण वर्णमाला का विश्लेषण कर कबीर ने अनुभव किया कि 'रा' और 'म' दो ही अक्षर ऐसे हैं जो वस्तुतः अक्षर हैं, अतः भक्त जीवन की सार्थकता उन्हीं में तल्लीन होने में है। अनन्त कह कर भी कबीर के धैर्य में ही उसकी अपनी महत्ता छिपी है। उसकी अतृप्ति एवं असन्तोष में ही उसकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। ब्रह्म को अनन्त कहने के पश्चात् वह और कुछ न कहे एसी बात नहीं, अपनी सामर्थ्य को सीमित, जान कर वह प्रयत्नशोल न रहे ऐसी बात भी नहीं, उसे लगन है अनवरत एवं अनन्य, वह भी अनन्त की। अरेख और 'अरूप' असीम तथा अज्ञेय कह कर भी वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं, उसके अलौकिक रूप और गुणों को छोड़ कर लौकिकता के माध्यम से वह हमें अनुमेय का अनुमान कराना चाहता है, अज्ञेय का ज्ञान कराना चाहता है और चाहता है अमूल्य का मूल्य जतलाना। 'कोऊ हरि समानि नहीं राजा'²²। संसार के राजाओं से तो ब्रह्म का सेवक ही अच्छा है। अतः वह तो 'असम' और अनुपम है। लौकिक सम्पत्ति की तरह 'सो दिया न जाई'²³ और एक बार प्राप्त करके उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार 'अदेय' और 'अत्याज्य' ब्रह्म 'अभेद्य' व अच्छेद्य भी है। उसकी तो बात ही दूर की है। उसके नाम-मात्र का भी 'अमिन न दहै'²⁴ और न ही सम्पूर्ण लौकिक सम्पत्ति देकर उसे खरीदा ही जा सकता

21. श्लोक १७।

22. पृ० ८५६, ८.

23. ६५६, ६.

24. ३३६, ५८.

है, इसलिए वह 'अकेय भी है। लेकिन सन्तों ने अमूल्य ब्रह्म को 'मनु दे राम लीया है मोलि'²⁵। इस प्रकार भौतिक स्थूल गुणों से परे के ब्रह्म घट घट निवासी होकर भी स्वयं अघट ग्रशरीरों ही है और अघट होने के कारण ही एकमत्र वह 'ग्रमन है। क्योंकि 'मैना ब्रह्मा, मैला इन्दु²⁶ विश्व मे सभी कुछ तो मैला है। 'आवत दीसै जात न जानी'²⁷ अदृश्य वह इन्द्रियातीत भी है, उसे तो केवल चर्म चक्षुओं के स्थान पर अन्तःचक्षुओं का ही विषय बनाया जा सकता है। विश्व के सम्पूर्ण वाङ्मय का उपयोग करने पर भी वह अवर्णनीय ही बना रहता है। "पड़े सुनै किया होई"²⁸ वेदों के पढ़ने व श्रवण से भी वह ज्ञेय नहीं, जो वाणी उसका कथन नहीं कर पाती—कबीर उसे 'गू गे का गुड़'²⁹ कह कर ही सन्तोष कर लेता है। रूप रहित अस्पृश्य ब्रह्म इन्द्रियातीत होकर केवल अनुभूतिगम्य है, वर्तीकि चचलमन की उच्चतम कल्पनाये भी उस तक नहीं पहुँच पाती।³⁰ ज्ञान की साधिका बुद्धि भी इसे अपनी सीमा मे नहीं बाध पाती।

कबीर कवि नहीं, जो मन से ब्रह्म की कल्पना कर पाता, वह ज्ञानी भी नहीं, जो बुद्धि से उसका चितन कर पाता, वह योगी तो था ही नहीं, जो योग व सिद्धि द्वारा उसे प्राप्त कर पाता। वह तो अनन्य भक्त है, जिसने अनवरत लगन के कारण उसकी अनुभूति की है।

25. ३२७, १६.

26. ३४४, ११.

27. ४० ३३७, ६२

28. पृष्ठ ६२५, ६२।

29. „ ३२७, १८।

30. श्लोक ८६।

कबीर का ब्रह्म निर्गुण है अर्थात् सभी गुणों से रहित क्योंकि गुणों का आरोप करते ही वह सगुण हो जाता है। जब गुणों के आधार-रूप को वह धारण करता है, तो साकार बन जाता है। कबीर को ब्रह्म का यह रूप मान्य नहीं, इसीलिये उसने स्पष्ट ही कहा है, कि अपनी इन्द्रियों को अन्तमुखी कर के कोई बिरला ही उसके निर्गुण स्वरूप को जान पाता है। जिसे अभिव्यक्ति देने में वह अमर्मर्थ है।³¹ न केवल ब्रह्म को सर्व-व्यापक कहा है, अपितु उसके अवतार रूप का खण्डन करते हुए कहा है, कि यदि भक्त-उद्घारक श्री कृष्ण नन्द का पुत्र था, 'तो नन्द किसका पुत्र था ?³² कितना सरल और मधुर होते हुए भी सशक्त तर्क है। 'निरजन ध्यावहु'³³ कह कर उसने निर्गुण के ही निरजन रूप का भी महत्त्व स्थापित किया है तथा अन्त में उसी को निरकार और निरबानी कह कर उसकी आरती उतारी है।³⁴ एक मात्र वह निर्मल होने के साथ साथ विकार-रहित होने के कारण निर्विकार भी है, और जिसमें कोई विकार ही नहीं, उसमें दोष की सम्भावना कैसी ? अतः वह निर्दोष भी है।³⁵ 'तहँ उतपत्ति परलउ नाही'³⁶ जहा उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं, वहा उसका नित्य स्थाई रूप स्पष्ट हो जाता है। वह न केवल जन्म और मरण से परे है, अपितु सभी लौकिक गुणों से भी अतीत है।

'सभ घट देखउ पीउ'³⁷ प्रत्येक प्राणी में उसके दर्शन होते हैं, अतः वह सर्वान्तर्यामी है। और 'जीउ एक अरु

31. पृ० ३३३, ४७ ।

32. पृ० ३३८, ७० ।

33. पृ० ३३७, १८ ।

34. पृ० १३५०, ५ ।

25. पृ० ११५४, ८ ।

36. पृ० ३३३, ४८ । 37. श्लोक २३५ ।

सकल सरोरा'³⁸ अतः वह सर्व-व्यापक भी है। सर्व व्यापक वह एक रूप या सम रूप है, क्योंकि घट फूटने पर भी उसकी स्थिति मे कोई अन्तर नहीं आता। और वह तो 'त्रिभुवन महि रहिश्चो समाई'³⁹ विश्व के श्रणु-परमाणु में व्याप्त होने के कारण वह सर्वत्र विद्यमान है। बाग देते हुए मुल्ला को धिक्कारते हुए उसने कहा है कि सर्वव्यापक वह सर्वज्ञ भी है।⁴⁰ अतः दुराचार करने से पूर्व मानव को उसके इस गुण का ध्यान रखना चाहिए, तब वह अनायास ही पापकर्म से बच सकेगा।

यह सर्व-व्यापक, सर्वज्ञ ब्रह्म ही सृष्टि कर्ता एवं सर्व-स्थान है। सृष्टि रचना-क्रम पर प्रकाश डालते हुए उसने बताया है कि सर्व प्रथम प्रकाश, पुनः प्रकृति एवं तत्पश्चात् प्राणी व मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। 'माटी एक अनेक भाँति करि साजी साजन हारे।'⁴¹ कुम्हार-ब्रह्म ने जिस माटी से अन्यान्य घटों का निर्माण किया है—उनमे परिवर्त्तन आ सकता है, लेकिन उपादान माटी तो वही रहेगी। 'समु जगु आनि तनाइश्चो ताणा'⁴² जुलाहा कबीर ब्रह्म को जुलाहा बनाकर उससे विश्व का ताना-बाना न बुनवाता, तो उसकी आत्मीयता का परिचय कहां से मिलता। लेकिन इस रहस्य को उसके सिवाय और कोई नहीं जानता। इस आत्मा का विकास भी उस ब्रह्म से हो हुआ है और इसे आधार प्रदान करने के लिए उसने ही तो 'धूरि सकेलि के पुरीआ बाधि देह'⁴³ थोड़ी सी धूल की पुड़िया बाध कर देह

38. पृ. ३३०, ३६।

39. पृ० ३४१, २२।

40. श्लोक १५४।

41. पृ. १३४०, ३।

42. पृ. ४८४, ३६।

43. श्लोक १७८।

खड़ा कर दिया—आज का बौद्धिक-मानव अपने वास्तविक अस्तित्व को समझे तो अनायास ही उसके ‘अह’ का विघटन हो जावे और भावनाओं का उदात्तीकरण हो वह सच्चे शर्थों में मानव-तत्त्व के निकट आ सकेगा। काश ! सृष्टिकर्ता के इस खेल को कोई नहीं जानता।⁴⁴ यह सर्व स्थष्टा ही सर्वकर्ता एवं सर्व-नियन्ता भी है, क्योंकि यहीं तो सहारक महेश साधन यम का भी स्थष्टा है। इसलिए जीव से कहताहै कि के ‘तुमरो कहिंओ न होइ’ क्योंकि विधाता ने तुम्हारे कर्मों के अणु-रूप जो विधान कर दिया है, उसे ‘मेटि न साकै कोइ’⁴⁵ और ‘करम बध तुम जीअ’⁴⁶ फिर जीव की स्वतन्त्र सत्ता ही क्या ? इस प्रकार कबीर पूर्ण विश्वास दिलवा देता है, कि जो उजड़े को बसाता है, जल को थल और थल को जलमय कर देता है, एक मात्र वहीं सृष्टिकर्ता के सम्पूर्ण कार्यों का कर्ता है ‘न हम की आन करहिंगे ना करि सकै सरीर’।⁴⁷ अतः जीव को उसकी कतृत्व शक्ति में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।

एकमात्र कर्ता ही सर्व-शक्तिमान् व सर्व-समर्थ है। तीनों लोकों को उसी ने शृङ्खला-बद्ध किया है, अतः ऐसे महान् स्वामी ‘हरि तजि कत काहू कै जाही।’⁴⁸ यह सर्व-समर्थ ब्रह्म ही तो सर्व-नियंता भी है, क्योंकि ‘आप दह दिस आप चलावै’⁴⁹ और उसके नियंत्रण के बिना कोई कार्य सम्पन्न भी नहीं हो सकता। विश्व के बड़े से बड़े

44. श्लोक १७६।

55. श्लोक ३२।

46. पृ. ८७०, ३।

47. श्लोक ।

48. पृ. ३००, ३८।

49. ११२३, २।

दानी उसके सम्मुख याचक बनकर गिडगिडाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के आगे कबीर क्योंकर हाथ पसारे, वह तो स्वतः ही ऐसे दानी की खोज में है, जो सब कुछ देने की क्षमता रखता हो 'तुम समरथ दाते चारि पदारथ देत न बार'^{५०} जीवन में एक मात्र प्राप्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने में वह क्षण भर का समय भी नहीं लगाता, इससे स्पष्ट है, कि सर्व-नियंता ही एक मात्र सर्व-दानी है। सम्पूर्ण लौकिक और अलौकिक सम्पत्ति का एक मात्र 'दाता इकु रघुराई'।^{५१} जो ठहरा।

सर्व-दानी, सर्व-व्यापक वह सदा स्थिर होने के कारण सब-समयी भी है, न कोई स्थल और न ही कोई ऐसा समय जहा उसका अभाव हो। जीव के विश्वास और अनुभव की बात है, कि उसका साक्षात्कार कर सके। यह सदा एकरूप या समरूप बना रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि शिव आदि देवताओं की तरह वह तो काल-कवलित होता नहीं। इसलिए एकमात्र वही सत्य-चिरतन सत्य है, अतः सर्वभावेन उसी में पूर्ण आत्म-समर्पण करना चाहिए, क्योंकि उस व्यथित जीव का जिसने 'कहूँ न पाइश्चा ठौर'^{५२} एक मात्र सहायक व आश्रयदाता ब्रह्म ही है, कबीर की अनुभूति को अभिव्यक्ति मिली—'तिस बिन दूसर को नहीं'।^{५३} वितन्न सरस भावात्मक सत्य है।

'ज्योति सर्पी तत अनूप।'^{५४} अनुपम वह ज्योति स्वरूप है और उसकी ज्योति को अनुभव करने के लिए

50. यू. ८५६, ०

51. यू. ४२४, २।

52. श्लोक ६२।

53. श्लोक ११३।

54. यू. ३४४, १।

आवश्यक है, कि जीव पहले इस बात को समझ ले, कि वह 'एक ग्रनेक होई रहियो सगल महि ।'⁵⁵ तब अपने अन्तर में भी उसकी सत्ता व ज्योति का प्रकाश अनुभव हो सकता है। अन्तर में उसकी ज्योति की अनुभूति होते ही 'चूटे भरमु मिलै गोविंदु' और 'दहदिस होइ आनंदु ।'⁵⁶ इस आनंद के लिए ही तो जीव जन्म भर चक्कर काटता रहता है। यह होता तब है, जब ब्रह्म की जीव पर कृपा हो। इस कृपा के परिणाम-स्वरूप ही माया का बवन तोड़ कर वह जीव के हृदय की 'कुटिल गाठि जब खोलै देव'⁵⁷ तब उसका उद्धार होता है। अन्यान्य विश्व के सभी मर्त्तों के उद्धार के उदाहरण प्रस्तुत कर कबीर ने उसके कृपालु और उद्धारक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। अब तक उसके महात्म्य का दर्शन अलौकिक गुणों के माध्यम से करवाया था, लेकिन वे गुण तो मानव बुद्धि को आश्चर्यान्वित अधिक करते हैं, वैयक्तिक जीवन को प्रभावित कम। लौकिक घरातल पर उसकी सत्ता की महत्ता तो लौकिक गुणों के माध्यम से ही स्थापित को जा सकती है। इसीलिये तो बाह्य भ्रम के आवरण तथा आतंरिक अज्ञान को दूर कर अतर को अपना ज्योति से ज्योतित करने वाला उसे बताया है।⁵⁸ उसका कृपा पात्र भक्त अनायास ही पुकार उठता है 'राम समान न देखउ आन ।'⁵⁹ इसोलिए तो उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए भक्त कहता है, कि जीवन भर 'हरि सेवा करउ तुमारी ।'⁶⁰

कृपालु वह ही तो भक्त का एक मात्र रक्षक है, सत-

55. पृ. ११०४, १।

56. पृ. ३४४, १।

57. पृ. ८५७, १२।

58. पृ. ३४४, १।

59. पृ. ३२६, ३४।

60. पृ. ६७०, ८।

‘प्रह्लाद की पैंज जिनि रासी’ और ऐसा करने के लिए उसी ने तो ‘हरनाखसु नख विदरिओ ।’⁶¹ भगवान् के इस भक्त-रक्षक व उद्धारक रूप ने ही श्री कृष्ण को यह कहने पर विवश कर दिया था—

‘यदा २ हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् ॥’⁶²

यह उद्धारक और रक्षक ही तो एकमात्र ‘तरन तारन सोई ।’⁶³ क्योंकि जो स्वयं ही जगत् के पार नहीं पहुँच सकता, वह औरों को क्या पार पहुँचावेगा । ऐसा उद्धारक ही जीव के सब कष्टों को दूर करता है और उसके भय का नाश कर एक मात्र सफल शरणदाता सिद्ध होता है ।⁶⁴ इस प्रकार लौकिक विपदाओं से जीव की रक्षा कर—लौकिक सम्पदाओं के माध्यम से अलौकिक आनन्द तक पहुँचाने वाला रुष्टा ही भवत का एक मात्र आश्रय स्थलं है, अतः सबे भावेन भवत को उसी के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण कर देना चाहिए ।

इस प्रकार कबीर का अनादि एवं अनन्त ब्रह्म जो न केवल अतान्द्रिय और अज्ञेय ही है, अपितु वह तो अननुमेय भी है, किस प्रकार उसकी कोई भलक विश्व को दी जा सकती है । न बीर का दृढ़ विश्वास ब्रह्म को महत्ता से कम महान् नहीं, उसका अनुभव है, कि भवत की अनन्य, अनवरत व सशक्त भवित अनायास ही ब्रह्म का भी दर्शन करवा देती है । क बीर का साधन प्रस्तुत करता है ‘हरि पदु

61 पृ. ८५६, ४ ।

62. गीता अध्याय ४, ७ ।

63 पृ. ४८२, २६ ।

64. पृ. ६६६, ३ ।

झड़ करि रहिए^{६५}’ ऐसा करने से धीरे २ जीव का ‘मिट्टै मोह तनु ताप’ और पुनः उसे ‘हरख सोग दाखे नहीं’ और जब जीव को सुख-दुख विचलित न कर सकेगे, तब अवश्य ही वह महत् तत्त्व को अनुभव करना प्रारम्भ करेगा अथवा ‘हरि आपहि आप ।’^{६६} कौन जानता है कि वह अपने ही भगवत् अश को उभार कर अभेद दृष्टि से उसी की महत्ता को अनुभव करने लग जावे । इस प्रकार अननुमेय केवल अनुभूति गम्य है । नाम में तल्लोन होकर जिसने उसमें चित्त लगाया है ‘कहु कबीर तौ अनभउ पाइया ।’^{६७} इस अनुभव में ही उसे सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है, इसी लिए तो ‘अब मेरा मनु कतहूँ न जाहि ।’^{६८} क्योंकि आनन्द का वही तो एक मात्र आगार है । लौकिक दृष्टि से सभी प्रकार से अगम्य, अदृश्य अज्ञेय व अप्राप्य ब्रह्म भी भक्त की पहुँच से दूर नहीं—इस पहुँच तक पहुँच जाने में ही तो कबीर की और भक्त की महिमा है, जिसका एकमात्र साधन है अनुभूति ।

ब्रह्माण्ड में ब्रह्म की स्थिति कहा है ? यह भी कम कौतूहलोत्पादक विषय नहीं ? यो तो सर्वव्यापक होते हुए भी वह एकदेशीय नहीं । उसके गुणों में यह विरोधाभास ही जीव को आश्चर्यान्वित बर देता है । उसकी ‘निरागी’ ‘अकथ कथा’ को कबीर कहने का प्रयत्न करता है, कि वह तो वहा है जहां, ‘पावस सिन्धु धूप नहीं दहीग्रा तह उतपति परलउ नाहीं^{६९}’ सिन्धु, बर्षा, धूप, छाह की तो बात ही अलग वहां

65. पृ. ३३४, ५१ ।

66. श्लोक १८६ ।

67. पृ. ३२८, २७ ।

68. पृ. १ १०३, २ ।

69. पृ. ३३३, ४८ ।

तो उत्पत्ति और और प्रलय भी नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ 'जीवन मिरतु न दुःख सुख विआपै' ऐसा स्थान तो ब्रह्माण्ड भर मेरे दूँढ़ निकालना कठिन होगा। इससे भी बढ़ कर 'राति दिवस तह नाहि' इसकी भी सम्भावना हो सकती है, लेकिन उसने तो प्रकृति के मूल भूत पांचों तत्त्वों की स्थिति को भी स्वीकार नहीं किया—'जलु नहीं पवनु पावकु फुनि नाहीं'। ऐसे स्थान पर ही तो अनुपम और अनन्य की स्थिति हो सकती है। 'उहा सूरज नहीं चन्द्र'⁷⁰ क्योंकि उसे तो किसी अन्य ज्योति से ज्योतित होने की आवश्यकता नहीं। सम्पूर्ण वाङ्मय का साधन जो बावन अक्षर है, इन्हीं में तीनों लोक एवं सम्पूर्ण सृष्टि आ जाती है, लेकिन 'ओइ अखर इन महि नाहीं' क्योंकि 'ए अखर खिर जाहिंगे'⁷¹ अतः ब्रह्म को स्थिति तो सम्पूर्ण वाङ्मय में भी नहीं आ पाती, क्योंकि यह सीमित और नश्वर है। लेकिन वह इन गुणों की सीमाओं की परिधि से बाहर है, कि उसकी स्थिति कही भी नहीं, लेकिन हम यह भी भूल नहीं सकते कि सर्व व्यापक एवं सर्वान्तरर्थमी होने के कारण वह 'सगल घट भीतर'⁷² निवास करता है 'इस घर मह है।'⁷³ वह न केवल इस घट रूपी घर में है अपितु उसकी इससे भी सूक्ष्म स्थिति है, अन्यथा घट के नष्ट हो जाने पर उसकी सत्ता कहाँ ? लेकिन ऐसा नहीं होता। 'हिरदै कमल महि हरि का बास'⁷⁴ इस स्थूल देह में भी उसका

70. पृ. ११६२, १६।

71. पृ. ३४०।

71A पृ. ४८३, २६।

72. पृ. ११६२, ४।

73. पृ. ३४४, ४।

निवास स्थान हृदय है, अतः 'दिल महि खोजि' क्योंकि कबीर को पूर्ण विश्वास है कि 'एही ठउर मुकामा।'⁷⁴ भक्त अनन्य भक्ति से उसे हृदय में अनुभव कर सकता है, क्योंकि कबीर ने स्वतः ऐसा किया है। योगियों के लिए उसने 'अगम द्रुगम रचिआ' और यह दुर्ग है सहस्रदल कमल का। वहाँ निरन्तर प्रकाश रहता है, तथा वही अनहद नाद होता है, जिसके आनन्द को वहा पहुँचने वाला जीव ही अनुभव कर कर पाता है, लेकिन उसके रहस्य को शेषनाग तक नहीं समझ सकता। अन्यत्र स्थिति को और स्पष्ट हुए कहा है कि सहस्रदल कमल में ब्रह्मरध्र है, उसी में ब्रह्मरसामृत का 'सरवर भरा' है जिसका पान करने में ही मानव-जीवन की सफलता है।⁷⁵ लौकिकों को भी कबीर ने पुकार कर कहा है कि 'तन महि हरि'" अतः उसे बाहर ढूँढ़ने का सब प्रयत्न व्यर्थ है, अन्तमुखी बनो, उसे अंतर में अनुभव कर उससे ऐक्य स्थापित कर जीवन को सार्थक करो। 'तनु करि मटुकी मन मांहि बिलोई' देह की मटकी में मन को बिलोने पर ही गुरु की कृपा से जीव 'पावै अमृत धारा।'⁷⁶ 'पद्माम अलह मुकामा'⁷⁷ मान कर बाग देने वाले मुल्ला को भी उसने ललकारा है 'साई न बहरा होई' 'जा कारन तू बांग देहि' क्योंकि वह तो 'दिलहि भीतर होइ'⁷⁸ ब्रह्मानुभूति कर जब उससे ऐक्य ही स्थापित हो गया, तब पुनः कबीर

74. ष. १३४६, १।

75. ष. ११६२, १६।

76. ष. ६३६, ४।

77. ष. ८७०, ३।

78. ष. ४७६, १०।

79. ष. १३४६, २।

80. श्लोक १८४।

को ब्रह्म की स्थिति के विषय में भ्रम हो गया वह अपने आपसे हो पूछता है कि 'पीउ महि जीउ बसै' अथवा 'जीउ महि बसै कि पीउ ।⁸¹ कितनी मधुर, सरस और आल्हादक अवस्था है, अब तो ब्रह्म-स्थिति के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्म-स्थिति का बोध जिस साध्य का साधन था, उसकी प्राप्ति के बाद साधन का महत्व ही क्या ?

जिस सर्व-व्यापक की स्थिति का कुछ आभास मिला है, उस श्रवण के रूप की कल्पना भी कुछ कम मधुर और अनुपयुक्त न होगी । उसके विराट् रूप का कुछ अनुमान तो इसी से लग सकता है, कि 'रोमावलि कोटि अठारह भार ।'⁸² अठारह करोड़ पर्वत-शृंखलाएं तो उसकी रोमावलि मात्र है और 'कोटि जग जाके दरबार ।' अतः उसके इस विराट् रूप के अनुरूप ही करोड़ो इन्द्र 'जाके सेवा करहि' अनन्त ब्रह्मा उसके गुण गान में 'वेद उच्चरै' लेकिन इतना होते हुए भी वह ऐसा है 'जाके रेख न रूप'⁸³। कितना अद्भुत विरोधाभास है, और है सत्य ! क्योंकि निर्गुण वह तो सगुण भी नहीं बनता, फिर साकार को तो बात ही कहाँ ? सर्व-व्यापक होता हुआ भी वह तो शून्य मण्डल है । सर्व-स्तष्ट भी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मेरमा हुआ है, लेकिन केवल 'स्त्रिआम मूरति नाहि ।'⁸⁴ अतः 'माटी एक भेख घरि नाना'⁸⁵ उसके रूप को न तो किसी सीमा में बांधा जा सकता है और न

81. श्लोक २३६ ।

82. पृ. ११६२, २० ।

83. पृ. ८५७, १० ।

84. पृ. ७२७, १ ।

85. ४८०, १७ ।

किसी आकार में ही रखा जा सकता है, या देखा जा सकता है। सम्पूर्ण प्रकृति में उसी के दर्शन होते हैं, लेकिन किसी एक स्थल पर उसके दर्शन नहीं होते। इतना ही नहीं 'बिनु पग चलै सुनै बिनु काना।' लौकिक रूप से रहित होते हुए भी सर्व-गुण सम्पन्न हैं और बिना किसी असुविधा के सभी कार्य कर लेता है। कुंल मिला कर वह रूप, रंग और आकार से अतीत है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार निर्गुण और सगुण से परे वह गुणातीत है।⁸⁷

इससे कबीर के ब्रह्म का रूप स्पष्ट है, लेकिन उद्धरण स्वरूप अवतार राम याँ कृष्ण की भलक भी बहुत स्थानों पर मिलती है, इससे हम उसे अवतार में विश्वासी नहीं कह सकते। यह साहित्यिक परम्पराएँ और सामाजिक जीवन के लिए उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत स्थल हैं, अतः उनके आधार पर कबीर में 'साकार ब्रह्म' के दर्शन करना भूल होगी। इतना ही नहीं, बहुत से स्थलों पर तो उन्होंने 'बीठुल' 'पीताम्बर' 'राम' आदि शब्दों का प्रयोग भी निराकार के लिये ही किया है।⁸⁸ अपने 'राम' को 'दाशरथि' न कह कर उन्होंने इस भ्रम का निवारण भी कर दिया है। उसके रूप के दर्शन और आख्यान में अपने आपको असमर्थ पाकर अन्त में उसने कहा है कि न तो उसकी उपमा दी जा सकती है और न ही किसी से तुलना की जा सकती है। चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, अन्य इन्द्रियों से उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और बुद्धि

86. पृ. ६७२, ११।

87. पृ. ११६२, १६।

88. पृ. ८५५, ३, पृ. ४७८, १३, पृ. ३३५, ५५।

से भी उसे जाना नहीं जा सकता। ऐसा 'तत अनूप' जो है, वह तो केवल 'जोति सरूपी' है।^{९०} अतः उसकी सत्ता की तरह उसके रूप को भी केवल अनुभव ही किया जा सकता है।

ब्रह्म का आत्मा से सम्बन्ध

'इह राम का अंसु'^{९१} यह आत्मा ब्रह्म का अश है और इसकी उत्पत्ति भी उसी में से हुई है। लेकिन विश्व में आ जाने के बाद उसकी स्थिति उसी प्रकार की हो जाती है 'जस कागद पर मिटे न मंसु'। इससे स्पष्ट है कि इसका अपना अस्तित्व बन जाता है। लोक में निकटनम एव उत्कृष्ट सम्बन्ध दाम्पत्य ही है, अतः कबीर आत्मा को सम्बोधित करके रहता है, कि 'जग जीवन प्रान अधारा' ब्रह्म को 'चेरी तू रामु न करसि भतारा'।^{९२} आत्मा को भी यह अनुभव करने में देर नहीं लगती। आत्मा ने कबीर की सीख को स्वीकार किया और नव-वधू की भाँति 'घू घट काढ़ि गई'।^{९३} अपने पति के समीप यज्ञपि हृदय से पति की महत्ता को पूर्णतया अनुभव कर लिया है, फिर भी उसे सन्देह बना हुआ है कि 'न जानउ किआ करसी पीउ'^{९४} क्योंकि जीवन का यौवन तो उसे पहिचानने में ही व्यतीत हो गया, जो कि वास्तविक सयोग का समय था, लेकिन उसे अपने पति पर विश्वास है, कि वह उसे पूर्णतया अपना लेगा अपने विश्वास को सत्य पाकर वह आह्लाद

89. पृ. ३४४, ११।

90 पृ. ८७१, ५।

91. पृ. ६४५, ३।

92. पृ. ४८४, ३४।

93. पृ. ७६२, २।

में पुकार उठती है 'हाँर मेरो पितु हउ हरि की बहुरिया ।'⁹⁴ पत्नी पति से धीरे धीरे वनिष्ठता बढ़ाती चलती है, जब तक उनमें पूर्ण ऐक्य नहीं हो जाता । एक्य ऐसा जिसमें दोनों का अलग अस्तित्व किसी भी प्रकार अवशिष्ट न रह जावे । 'हरदी पीअरी चूना ऊजल'⁹⁵ दोनों मिलकर अरुण हो जाते हैं, दोनों के रग ही नहीं, रूप और गुण में भी परिवर्त्तन आ जाता है और इस प्रकार दोनों अपनी अलग सत्ता समाप्त कर नवीन रूप ग्रहण कर लेते हैं । ऐसा ही प्रेम धन्य है, जिसमें त्याग हो—व्यक्तित्व का, अस्तित्व का । बहुरिया आत्मा की महत्ता इसी में है, कि इस प्रकार वह अपना अस्तित्व पति में ही विलीन कर दे । 'इहुं अरु ओहु जब मिलै तब मिलन न जानै कोइ ।'⁹⁶ इस मिलन को न कोई जान ही सकता है, क्योंकि 'एक जोति एका मिलि'⁹⁷ यह तो एक ज्योति का दूसरी ज्योति में लीन होना है और उसका 'तेज तेजु समाना'⁹⁸ तेज महातेज में समाहित हो गया । इस प्रकार ब्रह्म से उद्भूत होकर लोक में विचरण करने वाली आत्मा—उसकी पत्नी बनकर उसके अस्तित्व तक को उसी में विलीन कर देता है और वह सदा के लिए अपने उद्गम स्रोत से जा मिलती है ।

यह आत्मा हो देहधारी होने पर जीव का रूप ग्रहण करती है । इस प्रकार जीव के दो अवश्य हैं—आत्मा और देह ।

94. ष ६६१, १ ।

95. श्लोक ५६, ५७ ।

96. ष ३४२, ३८ ।

98. ष ८५७, ११ ।

अभी हमने ऊपर देखा है, कि आत्मा का उद्भव-स्थल ब्रह्म है और उसने 'भूरि सकेलि कै पुरीआ बाधी देह'⁹⁹ थोड़ी-सी धूल सगृहीत कर उसकी जो पुढिया बांधी—उसी से मानव देह का निर्माण हुआ, जिसमें प्राण-नत्तव का संचार होने पर वह जोव कहलाया। सर्व-व्यापक ऐसे जीव के भी 'घट घट' निवासी है, उसी से उसका महत्त्व बना हुआ है।¹⁰⁰ एकमात्र उत्पादक ब्रह्म ही तो जीव का स्वामी है, और जब तक जीव उसे पहिचान न ले, तब तक उसका इस सासार से छुटकारा सम्भव नहीं,¹⁰¹ क्योंकि—

'God known is no God and God realised is no more a God'

'तुम दाते हम सदा भिखारी' लौकिक जीव को जब अपनी सीमित सामर्थ्य और आपत्तियों का ध्यान आता है तथा अपने द्विभावों की पूर्ति के लिये उसे किसी सहायक की आवश्यकता अनुभव होती है, तब अनायास ही अपने सर्व-समर्थ, सर्व-दाता पिता के सम्मुख फोली फैला देता है। दुर्सगति के कारण काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि दुर्गुणों का शिकार जीव अपनी हीनता को अनुभव कर कहता है, 'गोविन्द हम ऐसे अपराधी' जिसने जन्म देने वाली की 'भाड़ भगति नहीं साधी' और विश्व के सब दुर्गुण अर्जित कर लिए हैं, अतः हे भगवन् ! कष्ट में पड़े हुए अब अपने इस जन को 'राखहु' और अपराधी वह विश्वास दिलवाता है,

99. श्लोक १७८ ।

100. पृ. ३४४, ७ ।

101. पृ. ३४०, ८.

1. पृ. ११६१, १५ ।

कि अब 'सेवा करउ तुम्हारी'।^२ भगवान् का वह अपराधी है और वह इसका रक्षक एवं आश्रय-स्थल। इतना ही नहीं परिणाम स्वरूप वह भगवान का सेवक भी बन जाता है। उसके समीप रहने वाला सेवक ही धीरे धीरे उसके महात्म्य को अनुभव करता हुआ—भक्त बन बैठता है^३ यह भक्त उससे धार्नष्ठ होता जाता है और ऐक्य सम्बन्ध स्थापित करने में प्रयत्न शील रहता है। ज्यो २ 'बाती सूखी' और 'तेलु निखूटा' त्यो २ देह का अत समीप आ गया और धीरे धीरे २ 'तूटी तनु न बजं रवानु'।^४ तब देह का पक्षी उड़कर अपने आदि स्थान को चला जाता है। उससे सम्बन्ध जोड़ते ही जीव को इस जगत् में और कोई दृष्टिगोचर ही नहीं होता, वह कहता है 'हमारा को नहीं हम किसहू के नाहि।' इसी लिए जाती बार 'जिनि इहु रजनु रचाइआ तिस ही माहि समाहि'^५ 'नदी तरग' को तरह ऐक्य होगा और महा शून्य में शून्य विलीन हो जावेगा, जिसका कुछ पता भी न लग सकेगा।^६ और पुनः कभी पुनरागमन भी न होगा। कभीर को इतने मात्र से सन्तोष नहीं, वह तो जीव की सत्ता को और भी महत्ता प्रदान करते हुए कहता है कि अनहृद श्रवण करने के बाद एक 'अचर्जु भइया' और वह आश्चर्य क्या था, कि 'जीव ते सीउ' जीव तो स्वयमेव शिव में परिणत हो गया।^७ इस ऐक्य के परिणाम-स्वरूप अनुभूति में भी परिवर्तन

2. पृ. ६७१, ८।

3. पृ. ३३१, ४२।

4. पृ. ४७८ ११।

5. श्लोक २१४।

6. पृ. ११०३, ४।

7. पृ. ३४४, १३।

आ गया । ‘तब ओही ओहु एहु न होई ।’⁸ कि अब जीव की सत्ता ही न रह गई और सर्वत्र सर्वच्यापक ही आ गया । अनुभूति का यह चरम ही तो मानव-जीवन का साध्य है, यही जीव के देहधारी होने की सार्थकता है ।

ब्रह्म-कबीर सम्बन्ध

कबीर देहधारी जीव अवश्य थे, लेकिन अपनी अनुभूति के आधार पर ब्रह्म से उन्होने जो सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, वह प्रत्येज जीव का नहीं हो सकता । आत्मीयता ने उनकी अनुभूति को सशक्त अभिव्यक्ति देकर भी हृदयग्राही बना दिया है । ‘मुई मेरी माई’ लौकिक मां के अभाव में उसने सम्पूर्ण लेह उस परम पिता से पाया था—इसीलिये कहा है—‘हउ पूतु तेरा तूं बापू मेरा ।’⁹ इत्पादक पिता ही पालनहार, रक्षक व सत्युरु के माध्यम से मार्ण-द्वर्शक रहा है । इसीलिये निःसकोच उससे अपराधों की क्षमा माझने चला । आता है ‘रामईआ हउ बालकु तेरा ।’¹⁰ कहते हुए अपनी दीनता प्रगटाता है । ‘तुम समसरि बाही दइआलु मोहि समसरि बापी ।’¹¹ उसके पश्चात् ताप से विश्वलित हृदय की कहण ध्वनि से उसकी विनियिता का भी परिचय मिलता है । इतना ही नहीं, पापी ने अपना पूरा परिचय दिया है ‘जा का ठाकुरु तुही सार्वगवर मोहि

8. षू. ३४३, ३३

9. षू. ४७६, ३ ।

10. षू. ४७८, १२ ।

11. षू. ८५६, ३ ।

कबीरा नाउ रे ।¹² लेकिन भगवान् नहीं पसीजे, उनके द्वार पर तो सदा ही न जाने कितने पापियों की भीड़ जो लगी रहती है । कबीर ने उसके नाम को आधार बनाया था, अतः उसे चिंता नहीं और उसने स्पष्ट ही कहा है ‘कहि कबीर गुलामु घर का जीआई भावै भारि ।’¹³ हृद है आत्म-समर्पण की और भगवत्वश्वास की । सम्भवतः इसी लिए जिस हाथी के सम्मुख उसे कुचलने के लिए छोड़ा था, उसी ने आकर उसे नमस्कार किया था ।¹⁴ और जिस जंजीर से बांध कर उसे गगा में झूबने के लिए फैका था उस जंजीर को ही गंगा ने तोड़ कर बहा दिया था ।¹⁵ इन घटनाओं में भौतिक सत्य हो या न ? लेकिन इनके अन्तहित प्राणवान् सत्य महान् है । भक्त के विश्वास में अद्वितीय शक्ति है । कुत्ते की भाँति कृतज्ञता प्रगटाते हुए उसने कहा है ‘मुतिआ मेरा नाउ’ और गले हमारे जेवरी जह खीचै तहं जाउ’¹⁶ सेवक को सर्वतोभावेन स्वामी की सेवा करनी चाहिए — ऐसे उत्कृष्ट सेवक के ही गुण हमें कबीर मेर मिलते हैं । इतना ही नहीं, उसने अपने आपको पूर्णतः स्वामी पर निर्भर बना दिया है—‘तू जलनिधि हउ जल का मीनु’¹⁷ और इस रूप में वह सदा जल में रहता है, क्योंकि ‘जलहि बिनु खीनु ।’ उसके पिजरे का वह तोता है, उसके वृक्ष पर रहने वाला वह पक्षी है, ऐसी अवस्था में यम-

12 षृ. ३३८, ६६ ।

13. षृ. ३३८, ६६ ।

14. षृ. ८७०, ४ ।

15. षृ. ११६२, १८ ।

16. श्लोक ७४ ।

17. षृ. ३२३, २ ।

राज उसका बिगाड़ ही क्या सकता है। लेकिन भगवान् से यह सब सम्बन्ध स्थापित करके भी उसे सन्तोष नहीं होता—इसलिए कबीर की आत्मा पुकार उठती है—‘गाउ गाउ री दुलहनी मगलाचार’ यह मगलाचार गाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ‘राम राइ सिउ भावुरि लैहउ’ और भंवरे लेकर ‘आतम तिह रंग राती’ जब अपने आपको पूर्ण तया उसके रंग में रंग दिया, तब उसने अनुभव किया, कि ‘मेरे गृह आये राजा राम भतारा’ उसके इस रूप को देखने के लिये असंख्य ‘सुरि नर मुनि जन’ आये और उनके सामने ही कबीर कहते हैं, कि ‘मोहि बिआहि चले हैं पुरख एक भगवाना’।¹⁸ ‘हरि मोर पिउ’ और कबीर ‘हरि की बहुरिया’ बन चुका है। ‘राम बड़े मैं तनक लहुरीआ’ कह कर उसने अपने आप को उनसे थोड़ा सा छोटा स्वीकार किया है। यद्यपि ‘एक संगि’ उनका ‘बसेरा’ है, फिर भी पत्नी-कबीर अनुभव करते हैं, कि उनका ‘मिलनु दुहेरा’¹⁹ मिलन कठिन है परि नाराज जो हो गये हैं। उन्हे पूछती है—‘करवदु दे मोरउ काहे कउ मारे’ क्यों इस प्रकार मुँह मोड़ कर तुम मुझे मारते हो? अपने पातिव्रत्य का पूर्ण विश्वास दिलवाते हुए कहती है—‘जनु तनु धीरहि अगु न मोरउ’ और मुझ पर कितनी ही विपत्ति क्यों न पड़े तो भी तुमसे ‘प्रीति न तोरउ’। भगवान् की प्रियतमा बनने में जिस अनन्यता की आवश्यकता है, उसी के कारण तो उसने लोई का पति बनना अस्वीकार करते हुए उस से नाता तोड़ दिया है और भगवान् को विश्वास दिलवाया

18 ष ४८२, २४।

19 ष. ४८३, ३०।

‘हम तुम बीचु भइओ नही कोई।’ इसलिए ‘तुमहि सुकत नारि हम सोई।’²⁰ पत्ती उसके इतना निकट आ गयी है कि वह तो सदा उसी के ‘रगि राती’^{20A} और उसी के आनन्द में तल्लीन हो जाती है। धीरे २ उसने अपना महत्व और अस्तित्व ही समाप्त करने का प्रयत्न किया है—पूर्ण आत्म-समर्पण के माध्यम से ‘तेरा तुझ कउ सउपते किअ लागै मेरा।’²¹ उससे आत्मीयता स्थापित करने में इससे कम अनन्यता सार्थक भी तो नही हो सकती। सिधौरा (सती होते समय पति से सदा मिले रहने का चिह्न) जो हाथ में ले लिया है तब उसे संसार की चिन्ता ही क्या ?²² क्योंकि उसने तो ‘हरि भेटत आपु मिटाइया।’²³ इसो लिए तो ‘जिस मरनै ते जगु डरै’ उसी मृत्यु में कबीर को आनन्द मिलता है क्योंकि देह मुक्त होकर ही तो वह पूर्ण-ऐक्य का आनन्दोपभोग कर सकता है। ‘मरने ही ते पाइए पूरन् परमानन्दु।’²⁴ इस प्रकार उसने अपने प्राण-तन्तुओ से “ऐसा मिला दिया, कि दोनों में किसी भेद का पता ही नही लगता। ‘ओरा गरि पानी भइआ’²⁰ और पानी में जा मिला, तो उसकी सत्ता का कोई चिह्न भी अवशिष्ट नही रहता, इसीलिये ‘राम कबीरा एक भये हैं कोउ न सकै पछानी’²⁶ उनके इस ऐक्य का किसी को बोध भी नही हो सकता। किसी को तो क्या—यह ऐक्य

20. पृ ४८४, ३५।

20A. प५५, २।

21. श्लोक २०३।

22. श्लोक ७१।

23. पृ. ६५५, ६।

24. श्लोक २२।

25. श्लोक १७७।

26. पृ ६६६, ३।

इतना घनीभूत होजाता है, कि स्वतः उन्हें भी इसका ज्ञान नहीं हो पाता, इसी लिये तो वे कहते हैं—‘पीअ्र महि जीउ बसै जीअ्र महि बसै कि पीउ’ । तल्लीनता में इतना खो गये, कि यही नहीं बोध होता कि यह हृदय है, जो भगवत्तल्लीन है अथवा भगवान ही हृदय में आ बसे हैं इतना ही नहीं, इसका चरम तो वहा आता है, जहाँ वे कहते हैं कि ‘घट महि जीउ कि पीउ’²⁷ हृद हैं अनुभूति की और आत्मीयता की । और ऐसा हो भी क्यों न —क्योंकि यह ब्रह्म अब उसके लिये कोई बाहर का तत्त्व नहीं है—वस्तुतः वह तो ‘तू तू करता तू हुआ’ अपने और परामे के भेद को उसने इतना अधिक मिटा दिया है, कि अपना अस्तित्व ही लुप्त करके वह स्वतः ही ‘वह’ बन गया है और अब उसे ‘तू’ ही ‘तू’ हृष्टिगोचर होता है । इसी को वेदों में ‘तत्त्वमस्मि’ कहा गया है, जो सन्तों में ‘सोऽहम्’ के रूप में अधिक प्रचलित हुआ था और आँज तक भारत के बहुत से सन्त-सम्प्रदायों में उसका यह रूप ‘गुरुमन्त्र’ के रूप में स्वीकार किया है । दार्शनिक शकर के तर्कधारित अद्वैत की ही सन्त कबीर ने अनुभूतिपरक व्याख्या²⁸ प्रस्तुत की जो अधिक हृदयग्राही व प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई ।

यद्यपि भक्त, सन्त और गुरु भी जीव कोटि के ही हैं, लेकिन अपने सदाचार तथा आन्तरिक गुणों के विकास से उन्होंने अपने को उत्कृष्ट मानव बना लिया है और ब्रह्म

27. इच्छोक २३६

28. इच्छोक ९०४ ।

से उनका अधिक सम्बन्ध घनिष्ठ व आत्मोयता पूर्ण हो जाता है। सर्पिणी माया से बच कर जीव जब ब्रह्मोन्मुख होता है और भजन द्वारा उससे आत्मोयता का सम्बन्ध स्थापित करता है, तब वह भक्त कोटि मे आ जाता है। और कष्ट में पड़े हुए ऐसे भक्त का रक्षक व उद्धारक ब्रह्म है।²⁹ प्रल्लाद प्रादि अन्यान्य भक्तों की रक्षा के लिये पहुँचने वाले भगवान् का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है।³⁰ सर्वग्राही यम ‘सभूह-लै जईहै’³¹ लेकिन भक्त पर उसका कोई बस नहीं चलता। स्वत. ब्रह्मानुभूति केर जब भक्त लोक-कल्याण की भावना से मार्ग-प्रदर्शन का कार्य भी करने लगता है, तब वह सन्त अवस्था को प्राप्त करता है। जीव को भव-पार ले जाने में ऐसे सन्त का विशेष महत्त्व है, क्योंकि उसकी सगति से ही जीव माया के आवरण से बच सकता है। अतः कबीर ने सेवा के दो ही अधिकारी बताए हैं—‘एकु सन्तु इकु रामु।’ और इनमे भी अधिक उपादेय सन्त हैं, क्योंकि ‘रामु जुदाता मुक्ति को सन्तु जपावै नाम।’³² मध्यकालीन सन्त को मोक्ष की आवश्यकता नहीं, उसे तो ‘नाम’ में तल्लीन होना है, जो अपने आप में मोक्ष से भी कही अधिक सुखदायी स्थिति है। ‘ऐसे सन्त की निन्दा नहीं करनी चाहिए क्यों कि ‘सन्त रामु है एकु।’³³ और गुरु—उसके बिना भगवत्प्राप्ति की तो बात ही दूर रही—भगवत् दर्शन भी सम्भव नहीं—क्योंकि जीव और ‘सतिगुरु’ के मध्य

26. पृ. १२५३, ३।

30. पृ. ११६४, ४।

31. पृ. ८५५, १।

32. श्लोक १६४।

33. पृ. ७६३, ५।

‘सत्गुर’ ही तो एक मात्र सेनु व साधन है और वह भी भी भगवत्कृपा के बिना प्राप्य नहीं।³⁴ उसके मिलने पर ‘गुरपरसादी हरि धनु पाइआ।’³⁵ इसलिये वह न केवल ब्रह्म के समपद का ही अधिकारी है।³⁶ अपितु सन्तों का अनुभूति गत तर्क दार्शनिकों के तर्क से कही से, अधिक सशक्त, हृदय-ग्राही और प्रभावोत्पादक है—

गुरु गोबिन्द दोनों खडे, काके लागू पांव।
बलिहारी तिन गुरु की, जिन गोबिन्द दियो दिखाय।’

सो यह है गुरु और गोबिन्द का महत्व व परस्पर सम्बन्ध। सम्पूर्ण सन्त साहित्य में ही अलौकिक साध्य से लौकिक साधन का अधिक महत्व है, क्योंकि वह लभ्य है और क्रियात्मक दृष्टि से अनुकरणीय भी।

ब्रह्म और माया का सम्बन्ध

ब्रह्म ही माया का उत्पादक है, स्थिति में आते ही माया न केवल सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को भरमाना प्रारम्भ कर देती है।³⁷ अपितु वह तो ब्रह्म को ही अपना स्वामी भी बना लेना चाहती है ‘जोइ खसमु है जाइया। पूति बापु खेलाइआ’।³⁸ लेकिन कर्ता उसकी खेल का पात्र नहीं बनता और वह सर्वथा माया निरपेक्ष रूप धारण किए रखता है, इतना ही नहीं उसका उत्पादक होकर भी उसमें ब्रह्म का अश नहीं—इस प्रकार माया भी ब्रह्म-निरपेक्ष है।³⁹ दोनों ही एक

34. द७२, ७।

35. ष. द७१, ६।

36. ष. ३४५, ७।

37. श्लोक १०।

38. ष. ११६४, ३।

39. ष. ३३४, ५२।

दूसरे से पूर्णतया निर्लिप्त रहते हैं, वस्तुतः इसी से दोनों की स्थिति है, क्योंकि माया-शबलित होकर ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहता, और ब्रह्ममय होकर माया माया नहीं रहती ।

ब्रह्म-सृष्टि का सम्बन्ध

आगे दिये गये सृष्टि के विराट् रूप का स्थान ब्रह्म ही है । उसने प्रकाश का प्रसार किया, इस प्रकाश में से ही सम्पूर्ण जड़ और चेतन जगत् का विकास हुआ । और इस स्थान की ही भलक उसके अणु-परमाणु में मिलती है ।⁴⁰ इस प्रकार दोनों का अन्योन्याश्रय घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट होता है, क्योंकि एक के बिना दूसरे की स्थिति नहीं और दूसरे के बिना प्रथम की शक्ति के विकास का क्या परिचय । इतना होते हुए भी सृष्टि ब्रह्म की तरह अनश्वर और अनंत नहीं, अपितु परिवर्तनशील वह नश्वर और सात है ।⁴¹ लेकिन दार्शनिक शकर के विचार की तरह उसकी कोई सत्ता ही न हो, ऐसी बात नहीं, वह यथार्थ है, केवल भ्रममात्र नहीं ।

40. पृ. १३४६, ३ ।

41 पृ. ३४०, ७५ ।

-४-

सृष्टि

‘ओइ जु दीसहि अंबरि तारे ।
किनि ओइ चीते चीतन हारे’ ।⁴²

तारों से भरे आकाश को देख कर कबीर को जिज्ञासा साकार हुई, कि इनका चितेरा कौन है? अन्तःकरण को दटोला तो पता चला कि ‘सारी सिरजनहार की जानै नाही कोइ’ ।⁴³ समस्या उलझ गई, सुलभाने के प्रयत्न में जीव को आभास मिला—‘उआ का मरमु ओही पह जानै’ ।⁴⁴ भक्त और निकट पहुँचा तो उसे लगा कि ‘कै जानै आपन धनी’ अथवा कै दासु दीवानी होइ । भक्त का आत्म-विश्वास बढ़ा और उसने अनुभव करना शारम्भ किया—‘सभ महि पसरिया ब्रह्म पसारा’ ।⁴⁵ यह सृष्टि तो और कुछ नहीं, उसी का प्रसार मात्र है। यह प्रसार कैसे हुआ, इसके क्रमिक विकास की भी अपनी एक कहानी है—‘अवलि अलह नूर उपाइआ’ सर्व प्रथम स्त्री ने प्रकाश को प्रसारित किया और उस ‘एक नूर

42. पृ. ३१६, २६।

43. श्लोक १७६।

44. पृ. ३३४, ५२।

45. पृ. ३२६, २६।

दे सभु जगु उपजिआ ।⁴⁶ उसमें भी सूर्य और चाँद के उदय होने के साथ ही साथ 'उदै भई सभ देह' ।⁴⁷ विश्व में प्राण तत्त्व का संचार हुआ और कनस्पति, प्राणी तथा जीव में इसका क्रमशः विकास हुआ । प्रायः सम्पूर्ण सन्त-साहित्य में सृष्टि-रचना-क्रम को यही विकास देखने को मिलता है ।

'खालिकु खलक खलक महि खालकु पूरि रहिओ सब ठाई' ।⁴⁸

सम्पूर्ण ब्रह्मांड उसी का प्रसार है, अतः सम्पूर्ण ब्रह्मांड में उसकी स्थिति है । रचना के लिये उसे किसी बाह्य उपादान की आवश्यकता नहीं और 'एक माटी अनेक भाँति करि साजी साजनहारे' एक ही मिट्टी को विभिन्न रूप प्रदान कर उसने अस्तित्व विश्व का निर्माण किया है और एक मात्र सत्य वही सब में है तथा उसी के नियन्त्रण में सृष्टि ससरण कर रही है, क्योंकि 'तिसु का कीआ सभु कच्छु होई' । लेकिन कर्ता की कर्तृत्व-शक्ति का परिचय किसी की नहीं मिल पाता । 'बावन अछर लोक त्रै सभु कच्छु इनही माहि' सम्पूर्ण सृष्टि तो इन बावन अक्षरों में ही सीमित है, 'ए अखर खिर जाहिरे' यह अक्षर और इनसे निर्मित सृष्टि नष्ट हो जावेगी, लेकिन इनका निर्माता नहीं ।⁴⁹ 'धरनि अकास को करगह बनाई' तथा सूर्य, चन्द्र की ढरकियों के सहारे कोरी ने ब्रह्मांड रूपी वस्त्र का वितान तना है, जिस रहस्य को कोई नहीं जानता, केवल 'जोलाहे धरु अपना चीन्हा' और विश्व जुलाहे के सूत में उसने अपना सूत मिलाकर उससे पूर्ण ऐक्य स्थापित कर

46. षृ. १३४६, ६ ।

47. रखोक १७६ ।

48. षृ. १३४६, ६ ।

49. षृ. ३४०, १ ।

लिया है।⁵⁰ चितेरे ने जिस महान् चित्र को अकित किया है, वह 'चित्र बचित्र इहै अवझरा' तो उलझने वाला चित्र है, अतः उसे छोड़ चितेरे में चित्त लगाश्रो।⁵¹ और उलझने वाली यह सृष्टि स्थिर भी तो नहीं—क्योंकि 'नैदन देखतु इहु जगु जाई'⁵² अतः सांसारिक सम्पत्ति से भोह करने वाली लोई को समझायग है—'जह उपर्यु बिनसै तहि जैसे पुरबिन पात'।⁵³ नश्वर जगत् में कुछ स्वच्छ भी तो नहीं ब्रह्म, इन्द्र, शिव आदि के साथ ही साथ 'मैला मलता इहु संसार'⁵⁴ अपवित्र यह जगत् 'काजल की कोठरि' है, और अंधे परे तिस माहि⁵⁵ फिर निकलने का मार्य ही कहाँ सम्भव है ? उसने स्पष्ट ही जीव को सतर्क किया है, कि 'इक राम नाम बिनु इआ जगु माइआ धंधा।'⁵⁶ इस पीहर में उसे रहना भी तो केवल चार दिन है, अतः भगवत्भजन में ही जीवन का सदुपयोग करना चाहिए।⁵⁷

आखिर यह संसार है क्या ? 'पंचै तत बिसथार।'⁵⁸ अतः लौकिक सम्पत्ति के कारण अपने आपको गौरवशील न समझना चाहिए, क्योंकि 'चन्दु सूरजु जाके तपत रसोई' और 'बैसंतरु जाके कपरे धोई' आज 'तिह रावन घर दीया न

50. पृ. 484, 36।

51. पृ. ३४०, १२।

52. पृ. ३२५, ११।

53. पृ. ८५७, १०।

54. पृ. ११५८, ३।

55. श्लोक २६।

56. पृ. ३३८, ६।

57. पृ. ३३३, ५०।

58. पृ. २४३, ६।

बाती’।⁵⁹ इतना ही नहीं, जिसके पास रक्षा के लिए ‘लंका सा कोटु समुद्र सी खाई’ थी, यम के आने की तो ‘तिह रावन घर खबरि न पाई।’ अतः न केवल सांसारिक सम्पत्ति का अपितु ‘धन जोवन का गरबु न कीजै’ क्योंकि यह सब तो ‘कागद जीउ गलि जाहिंगा।’⁶⁰ ऐसी अवस्था में दुष्कर्मों द्वारा अर्जित धन को संचित करने का क्या लाभ ? क्योंकि ‘नांगे आवनु नागे जाना।’⁶¹ इस लिए क्षणिक जीवन और नश्वर संसार में लौकिक सम्पत्ति का मोह और सचय त्याग कर ‘राम नाम धनु करि सचउनी सो धनु कतही न जावै।’⁶² ‘नाम’ धन अर्जित करों जो कि वास्तविक सम्पत्ति है।

जीवात्मा

‘कहु कबीर इहु राम का अंसु।’⁶³

आत्मा परमात्मा का अंश है और देहधारी होने पर यही जीव का रूप ग्रहण कर लेती है। ‘उपजो फेड ते’⁶⁴ परमात्म-वृक्ष से उत्पन्न होकर यह प्राणी-जगत् में विचरण करती है और फिर ‘परमेसुर परम हंसु ले सिधाना।’⁶⁵ तो जीव ने आश्चर्यान्वित होकर पूछा ‘बजावन हारो कहा गइओ।’ देह के अंग और इन्द्रियों के साधन तो वैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन अब ‘मुखहु न निकसै बाता।’ इसी का उत्तर दिया है कि –

59. ष. ४८१, २१।

60. ष. ११०६, ११।

61. ष. ११५७, २

62. ष. ३३६, ५८।

63. ष. ८६१, ५।

64. इलोक १५३।

65. ष. ४८०, १८।

‘इह तउ बसतु गुपाल की जब भावे लेइ खसि ।’⁶⁶
 यह तो उसी की सम्पत्ति है, जब चाहे ले जावे। ‘इग्रा
 मन्दिर महि कौन बसाई’ आखिर इस देह-मन्दिर में बसने
 वाला यह कौन है? दार्शनिकों के ब्रह्म का ‘नेति’ स्वरूप
 प्रसिद्ध है। आत्मा के विषय में कबीर ने उसी शैली का
 अनुसरण करते हुए लिखा है—‘ना इहु मानसु ना इहु देउ’ न
 राजा, न भिखारी, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय तथा ‘ना इसु भाई न
 राहू पूता।’ क्योंकि ‘ना इहु जीवै न मरता देखा।’
 इस प्रकार ‘ता का अतु न कोऽप पाई’⁶⁷ लेकिन ‘गुर प्रसादि
 मै डगरो पाइआ’ वह डगर यही है कि यह ‘राम का असु’ है।
 और इसकी स्थिति ब सत्ता वैसी है ‘जस कागद पर मिटै न
 मसु।’⁶⁸ घटनेम करने वाले योगी ने ‘बसतु अनूपु बीच पाई’
 इस अनुपम वस्तु के चले जाने पर न देह रहा और न देहधारी
 जीव। सम्भवतः इसी लिए जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया—
 ‘कवनु काजि जगु उपजै बिनसै कहुहु मोहि समुझाइआ।’⁶⁹
 बौद्धिक तर्क की कसीटी पर इसका उत्तर जने या न, लेकिन
 कबीर की अनुभूति इस प्रकार हुई—

‘जिउ प्रतिर्बिंबु बिम्ब कउ मिली हैं उदक कुम्भु बिगराना।

कहु कबीर ऐसा गुण भ्रमु भागा तउ मनु सुनि समाना ॥’⁷⁰

देह के नष्ट होने पर जलवत् जल में अथवा शून्य में
 समा जाना ही मानव-जीवन का लक्ष्य है। सम्भवतः इसीलिये
 ‘इस देहो कउ सिमरहि देव।’⁷¹ इससे देह का महत्त्व स्पष्ट

66. श्लोक ७६ ।

67. ष. ८७१, ५ ।

68. ष. ३२६, ७३ ।

69. ष. ४६५, १ ।

70. ष. ४७५, १ ।

71. ष. ११५४, ६ ।

है। इस देह में निवास करने वाला 'जीव एक अह सगल सरीरा' ^{७२} जीव तो एक ही है, लेकिन उसे धारण करने वाले देह अनन्त हैं। और मानव रूप में आने से पूर्व सृष्टि की रचना प्रक्रिया में जीव ने 'असथावर जगम' कीट पतंगा। अनिक जन्म किए बहु रमा। ^{७३} अन्यान्य रूप धारण किये थे। मानव-जीवन के विकास-क्रम में यह है भी स्वाभाविक। यह संसार, इसी स्थूल से सूक्ष्म के विकास के इतिहास की कहानी है।

वेदानुयायियों ने ब्रह्म को जानने का प्रथम सोपान बताया था 'आत्मानं विद्धि।' उनकी भाषा अधिक दार्शनिक थी और कबीर की उक्तियाँ हैं अनुभूत्याधारित। बात उन्होंने भी लगभग वही कही है—'आपु पश्चानै त एके जाने।' ^{७४} उसके जानने का साधन अपने आप को पहिचानना है। जिसने अपने को पहिचान लिया, उसे 'रोगु न विग्रापै तीनै ताप।' ^{७५} त्रिविव भय के नाश होने पर जीव अस्तःकरण में ही उसे अनुभव करने लग जाता है। तब सासारिक सम्पत्ति और सम्बन्धियों को त्याग कर संसार से उदास होकर जीव का 'हंसु इकेला जाई।' ^{७६} क्योंकि सासार से सब सम्बन्ध तो भूठे हैं। यह दुर्गुणी जीव तो कर्म करने में भी स्वतन्त्र नहीं, क्योंकि उसके चित्त की बात नहीं होती, होता वही है, जो 'हरि करै।' ^{७७} अतः उसे सत्कर्म करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने कार्य को कल पर न छोड़ कर 'कालि करता अबहि

72. पृ. ३२०, ३६।

73. पृ. ३२५, १३।

574. पृ. ८५, २।

75. पृ. ३२६, १७।

76. पृ. ११२४, ६।

77. छोक २१६।

करु अब करंता सु इताल ।⁷⁸ यथाशीघ्र करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ‘माटी के हम पूतरे’⁷⁹ ‘गुलामु घर’ के हैं⁸⁰ अतः क्षणिक जीवन का सदुपयोग करने में ही हमारी मलाई है। क्योंकि जीव तो संसार-समुद्र की वह मछली है, जो उससे उत्पन्न होकर-मायालिप्त होने के कारण संसार में रमण करते हुए पुनः गुरुकृपा से माया-निर्लिप्त हो उसी में जा मिलती है—‘जाहिं के संग ते बोकुरा ताहिं के संग लागु ।’⁸¹ यह है जीव की स्थिति ।

जीव के स्वरूप निरूपण के बाद आत्मा के आवरण देह के रूप पर विचार करना भी आवश्यक है। जिस प्रकार प्राण-तत्त्व के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार देह का महत्त्व तो इतने मात्र से स्पष्ट है, कि उसकी प्राप्ति के लिये ‘सुमिरहि मुनि जन सेव’ क्योंकि उसके बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं।⁸² यह देह क्या है? ‘पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुतरी जोरि ।’⁸³ यह कार्य भगवान ने किया है। उसने गड्ढे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और विश्व के साथ साथ मानवदेह का भी निर्माण कर दिया है।⁸⁴ कहीं इसे ‘धूरि सकैलि कै पुरिआ बांधी’⁸⁵ कहा है, तो कहीं ‘जल भरी गामरी’⁸⁶ बताया है। यह जर्जर बेड़ा⁸⁷ वस्त्रों की तरह नष्ट

78. श्लोक १३८ ।

79. श्लोक ६४ ।

80. ष. ३३८, ६६ ।

81. श्लोक १२६ ।

82. ष. ११५६, ६ ।

83. ष. ३३६, ६० ।

84. श्लोक २२७ ।

85. श्लोक १७८ ।

86. श्लोक ७२ ।

87. श्लोक ३५ ।

हो जावेगा क्योंकि 'सो तनु जलै काठ के सगा ।'⁸⁸ और यह ऐसे जलेगा—'हाड़ जरे जिउ लाकरी केस जरे जिउ घास ।'⁸⁹ प्रातः कालीन तारो तथा साप की केचुली के समान इसे क्षणिक व नश्वर बताया है।⁹⁰ इस देह पर गर्व करने वालों को समझाया है, कि 'असति चरम बिसठा के मूँदे दुरगव ही के बंडे'⁹¹ यह तो दुर्गध-पूर्ण अस्थियों का चर्ममय आवरण है। अतः इस पर गर्व किए बिना ही इसका सदुपयोग करो—क्योंकि 'मानसु जनमु दुलभु है'⁹² और यह बार बार नहीं मिलता।

जीवन

'इस देहो कउ सिमरहि देव' देह के माध्यम से मानव-जीवन के लिप्सु मनुष्य ही नहीं, देवता भी हैं। इतने से ही जीवन का महत्त्व स्पष्ट है और इसको प्राप्ति आसान भी तो नहीं, लेकिन उसका साधन है 'गुर सेवा ते भगति कमाई,' तब 'इह मानस देही पाई।'⁹³ पथ-प्रदर्शक गुरु की सेवा कर भक्ति के माध्यम से जिस मानव जीवन को पाया है, उसे व्यर्थ गँवा देना बुद्धिमत्ता नहीं। जग-जीवन को स्वप्न जैसा बताते हुए उसने कहा 'जीवनु सुपन समान'⁹⁴ स्वप्न-तुल्य इसलिए कहा है कि मानव 'कनक कामिनि लागि' इसे नष्ट न कर दे और उसके महत्त्व को समझे, क्योंकि 'जग जीवनु एसा दुनीय नहीं कोई।' यह अनुपम है, लेकिन अनुपम, होते हुए भी क्षणिक ही

88. पृ. ३२५, ११।

89. श्लोक ३६।

90. श्लोक ४०।

91. पृ. ११२४, ४।

92. श्लोक ३०।

93. पृ. ११५६६, ६।

९४. पृ. ४८८, २७।

है, अतः जीवन भर भटकना उचित नहीं, इसी से उसका उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया है—

‘भजहु गोबिन्द भूली मत जाहु ।
मानस जनम का एही लाहु ॥’⁹⁵

जीवन को दस दिन और चार दिन का भी न बता कर केवल रात भर का कहा है, क्योंकि प्रातः तो यमराज प्रतीक्षा कर रहा है।⁹⁶ जिस जीव की ‘रैन गई’ (युवावस्था व्यर्थ बीत गई) उसे कहा है कि ध्यान रखो ‘मत दिनु भी जाइ’ नहीं तो वृद्धावस्था में बालों के पृक जाने पर जीवन से बेड़ा कैसे पार होगा ?⁹⁷ अतः समय और जीवन को बेकार न गवाओ, हीरे की भाँति ‘अमोलु जनमु है’ इसे ‘कउड़ी बदलै हारिओ रे’⁹⁸ कबीर कल्पना की ऊँची उड़ाने लेने वाले दार्शनिक न थे, अपितु जीवन के यथा-तथ्य अनुभवों को प्रस्तुत करना उन्होंने अपना ध्येय रखा था ।

इसीलिए भगवान् से भी उन्होंने कह दिया—‘भूखे भगति न कीजे । यह माला अपनी लीजे ॥’⁹⁹ उसे तो आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन का ही सहज विकास बनाना था—दोनों में ऐक्य स्थापित करना था । उसका धर्म केवल उच्च-वर्गीय व्यवितयों के लिए अथवा बौद्धिक चिन्तकों के लिए न था, अपितु मानवीय धरातल पर वह जन-सामान्य के लिए था । इसीलिए देह को बनाए रखने के लिए भगवान् से यह

95. ११५६, ६ ।

96. षृ. ७६२, २ ।

97. षृ. ७६२, २ ।

98. षृ. ३३५, ५६ ।

99 षृ. ६५६, ११ ।

सब मांगते हुये भी फिरके नहीं—

‘दुइ सेर मागउ चूना
पाउ घोउ सगि लूना ।’¹⁰⁰

इस प्रकार सांसारिक जीवन की स्वाभाविक आवश्यकताओं का अभाव उन्हें भी अखरता था, लेकिन उनके प्रति आसक्ति न थी। वे ‘पद्मपत्रमिवाभ्यसः’ (पानी में अलिष्ठ कप्रलयत्र की तरह) जीवन को महत्त्व देते थे।

सांसारिक सम्बन्ध

‘हंसु इकेला जाइ’
और ‘संगि न कबु लै जाइ ॥’¹

जीव को जीवन गत सत्य से परिचित करवा दिया, कि यह हंस (आत्मा) तो अकेला ही जावेगा। और इस सासार में—‘कवनु को पूतु पिता को का को। कौन मरे को देइ सन्तापो ॥’ तथा ‘कउन को पुरखु कउन की नारी। इआ तत लेहु सरीर बिचारी।’² पिता पुत्र की तो बात ही क्या? सांसारिक धनिष्ठतम सम्बन्ध नारी के विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सम्बन्ध तो केवल कहने मात्र के हैं, इससे कुछ आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि ‘इआ धन जोबन अरु सुत दारा’ अवसर आने पर यह सब साथ देने वाले नहीं³ अतः जीव को इन सब के पालन-पोषण में ही जीवन नहीं बिता देना चाहिए⁴

100. ष. ६५६, ११।

1. ष. ११२४, ६।

2. ष. ३३१, ३६।

3. ष. ३३६, ५६।

4. ष. ७६२, १४।

और न ही इनके मोह में फसे रहना चाहिए ।^५ ‘कनिक कामनी महासद्गुरि’ यह समझ कर जिसने ‘रामु बिसारियो है अभिमानि ।’^६ सुन्दर-स्त्री के घमण्ड में राम को भुलाने वाले को उसने बताया है, यह सब तो संप की तरह के भयंकर साथी है, अतः इनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । जिस रावण के इकु लखु पूत सवा लख नातो’ थे^७, अवसर पड़ने पर एक का भी षता नहीं लगा । जीव को यदि इतने पर भी विश्वास नहीं, तो देख ले, कि ‘देहुरी लउ बरी सग’ तथा ‘मरघट लउ सभु लोगु कुटुम्ब भइओ आगै हसु अकेला ।’ इतना ही नहीं, घट फूटे कोऊ बात न पूछे काढ़ु काढ़ु होई ॥^८ माँ बेचारी दहलीज पर रोती रह गई और भाई उसे उठा कर ले गए । उमने सभी सम्बन्धों और सम्बन्धियों को देख लिया है, कोई किसी का नहीं – ‘कोई काहू को नहीं सभ देखो ठोक बजाई ।’^९ और फिर लौकिकों के मोह में फँसने वाले से तो भगवान् भी ग्रेम नहीं करते, अतः इन सम्बन्धियों में फसे रहना कहा तक उचित है ? अतः सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन गत एक मात्र सत्य भगवत्प्रेम को नहीं भूलना चाहिए ।

योनि ग्रमण

सांसारिक सम्बन्धों के मोह में फसा रहने के कारण जीव इस आवागमन के चक्कर से नहीं छूट पाता । गत जीवन में भगवत्ताम का स्मरण न करने के कारण ही इस

५. इ. ८५५, १ ।

६. इ. ११३४, ५ ।

७. इ. ४८२, २१ ।

८. इ. ४७६, ६ ।

९. इ. ११३ ।

योनि मे आना पड़ा ।¹⁰ माया के बस में पड़ा हुआ जीव इस योनि-ब्रह्मण से नहीं निकल पाता ।¹¹ गुरु कृपा से प्राप्त 'नाम' के सहारे ही वह इस योनि के चक्कर से निकल कर निरंजन की तरह 'अयोनि' हो सकता है,¹² क्योंकि जीव भी तो 'अपना किअा पावै सोई' ।¹³

गुरु

जीवात्मा को परमात्मा की उत्कृष्टतम देन है सत्गुरु । वह गुरु तो उस तक पहुँचाने में सहायक है । गुण और कार्य की दृष्टि से कबीर ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण मध्यकालीन सन्तों का गुरु सगुण भक्तों के अवतारों से कम महत्वपूर्ण नहीं । इतना होते हुए भी वह है जीव ही, केवल एक उत्कृष्ट कोटि का जीव । अतः उसके स्वरूप, गुण एवं कार्य पर विचार करना अनुपयुक्त न होगा ।

'कहु कबीर मैं सो गुरु पाइआ । जाका नाउ विवेकु ॥'¹⁴

कबीर ने तो विवेक को ही गुरु बताया है । वास्तव में विवेक शील वह व्यक्ति ही गुरु है, जिसने पांचो इन्द्रियों तथा मन को बस में कर लिया है तथा ब्रह्म को पहिचान लिया है ।¹⁵ पहिचान नहीं लिया, अपितु 'तासु मद माना' हो गया है ।¹⁶ एक मात्र सच्चे गुरु के अतिरिक्त और कोई उसे पहिचान भी तो नहीं सकता । और 'बिनु सतिगुर बाट न

10. पृ. ३३६, ५६ ।

11. पृ. ६५५, ५ ।

12. पृ. ३३८, ७० ।

13. पृ. ११६१, १५ ।

14. पृ. ७६३, ५ ।

15. पृ. ८७२, १० ।

16. पृ. ६६६, २ ।

पाई।¹⁷ अतः उसे प्राप्त करना आवश्यक है और उसका साधन भी एक ही है, भगवान् 'जब हुए क्रिपाल मिले गुरुदेउ'।¹⁸ भगवान् को कृपाल बनाने के लिए आवश्यक है, कि मनुष्य सत्कर्म करे।¹⁹ उन्हीं सत्कर्मों से वह भगवत्कृपा का पात्र बन सकता है, और उसी से 'शब्द' देने वाले सत्गुरु मिल सकेंगे,²⁰ जिससे ससार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा।

इस प्रकार गुरु की दीक्षा से शिष्य जागता है, और जाग कर 'गुर परसादी हरि धनु पाइयो।'²¹ इस हरि-धन के द्वारा ही गुरु जीव का उद्धार करता है। उद्धार करने का भी एक क्रम विशेष है। सब से पहले गुरु सांसारिक-भ्रम का नाश करता है, जिसका साधन है जीव की वासनाओं का नाश।²² गुरु 'शब्द' देता है, जिस शब्द की सहायता से जीव इन्द्रियों को वश में करता है²³ और इन इन्द्रियों के साथ ही साथ मन को भी बस में कर लेता है, क्योंकि विकृत मन ही तो देह-गढ़ का रुजा है।²⁴ उसे बस में करने से ही तो 'गुर प्रसादी जैदेव नामा। भगति के प्रेमि इनहीं है जाना।'²⁵ इन भक्तों ने भी भक्ति के महत्त्व को समझा। वह भक्ति जो हृदय में गुरु का शब्द स्थिर करने से उत्पन्न हुई थी। यम से रक्षा करते हुए ऐसे भक्त को गुरु भव-पार पहुँचा देता है। और 'गुरु सेवा ते

17. पृ. ११६४, ३।

18. पृ. ८७१, ७।

19. पृ. ११०३, ४।

20. पृ. १०४, ८।

21. पृ. ४७६, १५।

22. पृ. ६७१, १०।

23. पृ. ११६, १४।

24. पृ. ११६१, १७।

25. पृ. ३२०, ३६।

भगति कमाई¹⁶ इसीलिए तो सम्पूर्ण सन्त साहित्य में गुरु-सेवा का विशेष महत्व है। एक मात्र सत्य-मार्ग का दर्शन कराने वाले गुरु की शरण में जाना चाहिए¹⁷ और वह भी ऐसा हो, कि 'सो गुरु करहु जि बहुरि न करना'¹⁸ ऐसे गुरु की कृपा से ही तो 'अमोल दासु करि लीनो अपना'¹⁹ उसने जब अपना दास ही बना लिया, तब उसमें लौ का लगे रहना स्वाभाविक ही है।²⁰ गुरु शब्द के माध्यम से ही यह लौ लगती है, जिसे स्वतः गुरु ने ही हरि के रहस्य को जाना है।²¹ इसके लिए 'कलालनि' गुरु शब्दु गुडु कीनु रे। और उससे 'विसना, कामु मद् मत्सर काटि काटि कमु दीनु रे।'²² सभी दुर्गुणों का नाश किया। इम प्रकार दुर्गुणों का नाश कर मन को वश में कर उससे अमृत की धार बही, जिससे 'अमर होई सोई।'²³

ब्रह्म-स्नेही बनने ही गुरु ने सब निराशाओं को ग्रागाओं में बदल दिया, क्योंकि जीव एक बार सत्यगुरु से दीक्षित होकर लौकिक तो क्या, पारलौकिक दुःखों से भी बच कर अमर हो जाता है।²⁴ और फिर माया ऐसे जीव का क्या बिगाढ़ सकती है, क्योंकि वह तो स्वयं ही गुरु की मार से 'डरै'।²⁵ क्योंकि अवसर पाते ही गुरु ने तो 'तीनि लोक की

16. पृ. ११५६, ६।

17. पृ. ३३६, ५६।

18. पृ. ३२७, १८।

19. पृ. ३२१, ४०।

20. पृ. १, १।

21. पृ. ६४४, १।

22. पृ. ६६८, १।

23. पृ. ३२७, २०।

24. पृ. ८७२, ६।

25. पृ. ८७१, ७।

महत्व भी कम नहीं, गुरु जहा केवल शिष्यों का ही उद्धार करता है वहां सन्त जन सामान्य को भी सर्तक करता रहता है, गुरु शरणागतों का उद्धारक है तो सन्त मानव मात्र का कल्याणकारी और इसी लिये कबीर ने सेवा योग्य केवल दो ही बताये हैं राम और सन्त और उसमे भी महत्व सन्त का है क्योंकि 'रामु जु दाता मुक्ति को' लेकिन नाम का जप कर्वनाने वाला सन्त तो स्वतः राम को ही मिला देता है³⁴ वह तो हरि के नाम के विआपारी³⁵ है। सारग्राही वह जीवन से जूझने की शक्ति भी रखता है। निष्काम कर्मण्य जीवन का सन्देश वह वैयक्तिक क्रियात्मक जीवन से देता है। वह तो ऐसा चन्दन का बिरबा³⁶ है जो साप से विना प्रभावित हुए ही सुगन्धि का प्रसार करता रहता है 'हरि हरि नामु जपात' वह तो 'सदा थिरु' रहता है,³⁷ रामामृत का पान कर के वह तो अमर हो चुका है और सच पूछो, तो ब्रह्म का निवास 'सतन रिदै मझारि'³⁸ ही तो है इसी लिये तो सारे जगत को प्रभावित करने वाली माया जो 'जगत पिआरी' तथा 'सगले जीअ जत की नारी' बनी हुई है सन्तों को समीप देखते ही 'ठिठकी फिरै बिचारी'³⁹ जिस के बन्धनों, जाल से सारा ससार भयभीत होकर, बेबस होकर आकुल हो भागता है वह स्वतः ही सन्तों के डर से भागती फिरती है। अद्भुत है विधि की विडम्बना और संत की महिमा। यम से न डरने वाले सत की मृत्यु पर भी रोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो अपुने

34. श्लोक १६४ ।

35 पृ. ११२३, २।

36. श्लोक ।

37 पृ. १२५? ।

38. पृ. ३३७, ६३ ।

39. पृ. ८७१, ७

ग्रिहि जाउ'⁴⁰ । वह तो भगवान से मिलने अपने घर चला गया है । उस प्रकार जीवकोटि में से ब्रह्म के सब से अधिक निकट सन्त ही हैं ।

भक्त

सन्त तो संसार को भवसागर से पार पहुँचाने में प्रयत्न-शील है लेकिन भक्त अपनी भक्ति में ही तत्त्वीन है । उनकी अनवरत, अनन्य एवं एकाग्र भक्ति उनका साधन भी है और साध्य भी । इसी लिये तो उसका आदर केवल ससार ही नहीं परलोक में भी होता है । 'छत्र-पति की नारि' से 'हरिजन की पनिहारि'⁴¹ का सदा ही मूल्य ज्यादा रहा है । ब्रह्मा तक को विचलित कर देने वाली माया भी भक्त को सन्मुख देख स्वय को असमर्थ पाती है । जिस ने एक बार 'राम उदकु पीआ' अब उसे 'बहुरि न भई पिअस'⁴² वस्तुत विश्व का सब से सौभाग्यशाली प्राणी भक्त है । क्योंकि उसी की भक्ति से निर्गुण सगुण बन कर अवतरित होता है और वह भक्तों के बन्धन को तोड़ कर उनका उद्धार करता है । नामदेव के सन्मुख उसी भगवान ने 'मेरी बांधी भगतु छुड़ावै बांधे भगतु न छूटे मोहि'⁴³ कह कर अपनी असमर्थता प्रगट की है कि भक्त का बांधा हुआ तो भगवान भी नहीं छूट सकता । इसी लिये कवीर ने कहा है कि 'रामभगति बैठे बरि आइआ'⁴⁴ । कि वह तो स्वतः ही भक्त के घर चला आता है । इसी से भक्त और उस की भक्ति का महत्व स्पष्ट है ।

40. श्लोक १६

41. श्लोक १५६ ।

42. पृ. ११०३, ३

43. पृ. १२५२, नाम ३

44. पृ. ३२७, १६ ।

-५-

कबीर का साध्य

जीवन का मर्मज्ञ कबीर अद्वैतवादी शंकर की भाति ज्ञान का वह उपदेश देना नहीं चाहता जिसे सामान्य व्यक्ति न समझ सके और न अपना ही सके । इसी लिये यद्यपि शकर का अद्वैत बौद्धिकों के मस्तिष्क के लिये पर्याप्त चिन्तन की सामग्री प्रस्तुत कर सका, विद्वानों में सम्मानित भी हुआ, लेकिन जनता का धर्म कभी न बन सका । उसके विरुद्ध कबीर के सिद्धान्त अनुभूति आधारित होने के कारण तथा क्रियात्मक रूप से अपना प्रार्द्ध भाव पाने के कारण, जीवन के माध्यम से अपना विकास पाने के कारण सामान्य जन-मन को प्रभावित करने वाले सिद्ध हुए । इसी का प्रभाव है कि कबीर पथ के संकुचित सम्प्रदाय के बाहर भी सभी सन्तमत उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर विकसित एवं प्रसारित हुए हैं । मूलतः यही वह पुरातन मानव धर्म है, जिस का स्थान ससार के सभी धर्मों में अक्षुण्ण बना हुआ है । दृष्टि भेद सिद्धान्त परिज्ञान में परिवर्तन नहीं लाता, इसी लिये गत हजार वर्षों में कबीर जैसा उग्र होते हुए भी प्रिय व्यक्तित्व भारतीय क्षितिज पर पर देखने को नहीं मिलता । उनका साध्य शकर के अह-

ब्रह्म से प्रारम्भ न होकर भी जीव के ब्रह्म से एक्य में ही समाप्त अवश्य होता है। उस ऐक्य साध्य तक पहुँचने के बहुत से साधन भी अपने आप में साध्य प्रतीत होते हैं, यही कारण है कि उनका स्वाभाविक विकास क्रम हमें अपनी और आकर्षित ही नहीं करता अपितु विशेष रूप से प्रभावित भी करता है। जिन्होंने ने कबीर की वाणी में—विचारधारा में सम्बद्धता स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया और अक्खड़ अङ्ग आदि विशेषणों से सुशोभित किया उन्हें यदि उसके साध्य और साधनों में सम्बद्धता न दिखाई दे तो हम अबोध कबीर को दोषी नहीं ठहरा सकते।^१ उस के साध्य साधन क्रम को सम्बद्ध रूप देने का ही यह एक प्रयत्न है।

उन का कथन है कि सर्व प्रथम जीव को अपने जीवन का उद्देश्य एकमात्र माया से रक्षा ही समझना चाहिये जिस के अन्यान्य साधनों का निर्देश अन्यत्र है इन साधनों का आश्रय ले जीव जब माया से रक्षित हो जाता है तो वह यम से रक्षित होना चाहता है। वस्तुतः यम से रक्षा ही भवबन्धन का नाश कर भवसागर से पार पहुँचाती है और इस प्रकार आवागमन के चक्र से बच कर जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म प्राप्ति का स्वरूप उसने ब्रह्म ज्ञान पुनः ब्रह्म रस पान एवं ब्रह्मानुभूति कह कर स्पष्ट किया है यह ब्रह्मानुभूति ही मानव जीवन का एक मात्र साध्य है, इसी की विशेषता यही है कि इस के साधन का प्रत्येक स्तर भी अपने आप में साध्य है और वह साधन दैनिक जीवन के वे आचरण हैं जो मानव की भावनाओं को उदात्त बना

कर उन में अन्तर्हित महत्त्व को उद्भासित करने में सहायक होता है।

माया से रक्षा के कबीर ने तीन साधन बताये हैं, सर्व प्रथम जीव स्वतः प्रयत्न करता है जो मानव अपने विकारों को भुला कर इन्द्रियों पर विजय पाने के लिये प्रयत्नशील रहता है वही माया से बच सकता है¹ ।

इन्द्रियों पर विजय पाने के लिये अभ्यास की आवश्यकता है और यह अभ्यास ही वैराग्य को उत्पन्न करता है। जब तक लौकिक वस्तुओं के प्रति विराग न हो, तब तक माया से रक्षा सम्भव नहीं क्योंकि, 'बिनु वैराग न छूटसि माइआ'² शारीरिक प्रयत्न एवं साधनों का महत्व बताने के³ बाद वह अन्तर्मुखी प्रवृत्ति का विशेष महत्व समझता है। 'सिमरि-सिमरि हरि हरि मनि गाइए'⁴ तभी सब आपत्तिया नष्ट होगी और ऐसे स्मरण से ही माया दूर भागेगी न लेकिन यह स्मरण 'सतिगुरु ते पाइए' तभी स्मरण का महत्व हो सकता है। क्योंकि 'गुरु बिना गत नहीं' इस प्रकार उस ने यह स्पष्ट कर दिया कि गुरु ही नाम से जीव का सम्बन्ध जोड़ सकता है। और उसी से माया भाग सकती है। बाह्याङ्गमवरी वैरागी को भी उसने सतर्क किया है कि माया से रक्षित होने के लिये बाह्य नहीं आन्तरिक वैराग्य की आवश्यकता है जिस के लिये सतगुरु की शरण में जाना होंगा। वह माया जिस ने ससार के सम्पूर्ण विद्वानों को वश में कर रखा है, कबीर के गुरु की दासी बन गई।

1. श्लोक ५

2. पृ. ३२६, ३४।

3. पृ. ६७१, १०।

4. पृ. ११०४, ८।

है। और 'जिनहि बरी तिसु चेरी'⁵ सत के भी पीछे पड़ने वाली यह माया केवल 'गुरु परसादि भारहि डरे' और सतगुरु को सामने देख यह भाग खड़ी होती है अतः कृपालु गुरुदेव से मिलते ही उस से रक्षा होती है।⁶ नारद के सयम को समाप्त कर देने व ली इस माया से कबीर की रक्षा सतगुरु ने ही की थी⁷ इस प्रकार सारे ससार को भरमाने वाली माया से जब तक जीव की रक्षान हो तब तक वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सतगुरु के प्रयत्न से जीव जब माया से बच निकलता है तब उसे भयानक यम के दर्शन होते हैं लेकिन शीघ्र ही उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि 'सपनी जीती कहा करै जमरा'⁸ इस से स्पष्ट है कि माया विजेता स्वतः ही यम से रक्षित हो जाता है। योगियों को कबीर ने बताया है कि जब उन्मन मुद्रा में रह कर विशुद्ध होकर प्राणायाम पर आधिपत्य कर लिया, तब वह अनायास ही वृद्धावस्था एवं जीवन और मृत्यु से भी रहित हो सकता है।⁹

'कूटन सोइ जु मन कउ कूटै,
मन कूटै तउ जम ते छूटै।'¹⁰

मन को वश मे करने 'वाला तथा जिह्वा से रामामृत पान करने वाला व्यक्ति अनायास ही अमर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का 'कहा करै जमना'।¹¹ इन सब प्रयत्नों से भी

5. पृ. ४७६, ४।

6. पृ. ८७१, ७।

7. पृ. ८७२, ६।

8. पृ. ४८०, १६।

9. पृ. ८७१, १०।

10. पृ. ८७१, १०।

11. पृ. ४७६, ५।

जब तक जीव को पूर्ण विश्वास नहीं होता कि यम से उसकी रक्षा हो सकेगा तब वह ब्रह्म से यही प्रार्थना करता है कि मुझे यम की यातना से बचाओ । ^{१२} उस के लिये आश्रय मिलता है उसे गुरु का । क्योंकि गुरु 'उपदेसि काल सित जुरै' ^{१३} वह काल से भी युद्ध कर सकता है, संक्षेप में मूल बात इतनी ही है कि

‘जउ पै राम राम रति नाही ।
ते सभि धरम राइ कै जाही ॥’^{१४}

प्रभु का जाप करने वाले कबीर ने अनुभव किया कि ‘यम भी मेरा न करै तिराकार’ क्योंकि ‘जिनि-उह जमूआ सिरजिअरी’ ^{१५} उस प्रभु का कबीर ने जाप जो कर लिया । माया से बचा हुआ जीव यम से भी रक्षित होकर भव बाधाओं को नाश करने में तल्लीन हो आत्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा ।

भव-बन्धन को नाश कर भव-साँगर से पार जाने के लिये सर्व प्रथम आवश्यक है कि मानसिक विकारों को दूर किया जाये दूसरे शब्दों में इन्द्रियों के क्रियाकलापों में सतुलन एवं निग्रह की आवश्यकता है । ‘पंच चोर को जानै रीति’ ^{१६} इन इन्द्रिय रूपी चोरों को वस में करने का ढग जो जान जायेगा वही तो भव-पार पहुँचेगा । पाप के भार से दबे हुए इस देह रूपी जर्जर बेड़े को ससार से पार उतारना तब तक सम्भव नहीं है जब तक इसे पुण्यों और सत्कर्मों से हल्का

12. षृ. ८५६, ५ ।

13. षृ. ११५६, ११ ।

14. षृ. ३८४, ५ ।

15. श्लोक १४० ।

16. षृ. ३४४, ३ ।

न कर लिया जाये। इस प्रकार सत्कर्मों द्वारा मन को सन्मार्गी बनाना और उस पर विजय पाना ही भव-पार पहुँचने का एकमात्र साधन है।¹⁷ कबीर के 'मनु जीतै जगु जीतिआ'¹⁸ को ही गुरु नानक ने 'मनि जीतै जगु जीतु'¹⁹ के रूप में स्वीकार किया है। माया से रक्षा हो जाने पर भी यदि मन को वश में न किया तो भी भव-पार नहीं पहुँचा जा सकता, क्योंकि व्यर्थ के अभिमान और अहंकार के कारण ऋषि-मुनि तक न बच सके। कबीर माइआ²⁰ तजी त किआ भइआ जउ मानु तजिआ नहीं जाइ²¹ इस प्रकार भव पार पहुँचने के लिये अह का त्याग नितान्त आवश्यक है। कर्मण्य जीवन का सदेश देने वाले कबीर ने मानव को सचेत किया है कि भव पार पहुँचने के लिये सोते रहने से कुछ न बनेगा, अपितु उसके लिये प्रयत्न शील रहना होगा, वही व्यक्ति भवपार करेगा जो कर्मण्य जीवन व्यतीत करेगा।²² भौतिक ऐश्वर्य के साधन जुटाते हुये तथा शारीरिक उपभोग को सामग्री एकत्रित करते हुये जिस ने ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वह भी भव-पार नहीं पहुँच सकता।²³ अतः शारीरिक तुष्टि में ही लिप्त न रह कर शून्य को जान कर उस में अपने मन को स्थिर कर जो व्यक्ति उस का भजन करता है वह भक्त अनायास ही भव-पार पहुँच जाता है।²⁴ इस प्रकार सांसारिक सम्बन्धों को त्याग जो

17. पृ. ११०३, २।

18. पृ. ६४० १, २८।

19. श्लोक १५६।

20. पृ. ६७१, १०।

21. पृ. ११२४, ४।

22. पृ. ७६३, ४।

‘हरि धिग्रावै’ वह ‘जीवन्त बन्धन तोरै’²³ जोव के बाह्य प्रयत्नों के बाद भव-सागर पार करने के लिये आवश्यक साधन के रूप में नाम और जप का विशेष महत्व बताया गया है।

‘जिसने हरि नामा चितु लाइ’ उसने ससा नहीं अन्ति परम गति, पाइ²⁴ वस्तुत. नाको हृदय से लगाये बिना सौंसारिक भ्रम एवं भय दूर ही नहीं होते। और नाम में भी बाह्याङ्गम्बर की अपेक्षा नहीं, इतना भी नहीं नाम भी एकाकी और एक ही राम का चाहिये, ‘सरब तिअगो जपु केवल रामु’²⁵ और जब हृदय में राम हो निवास करने लग गये, तब वह चाहे जाति का जुलाहा ही क्यों न हो, उस के भी ‘चूकहि सरब जजाल’²⁶। जिस ने देह की मटकी मन का विलोड़न कर शब्द से नाता जोड़ लिया है वही ‘उतरे तीरा’ वस्तुत. ब्रह्म के महत्व को न समझने वाले ‘जितु घटि नामु न ऊपजै फूटि मरै जनु सोइ’²⁸ क्योंकि ‘राम नाम विनु सभै बिगूते’²⁹ क्योंकि उसके नाम के बिना सभी ठगे जो गये। यह सब जानने पर ही कभी २ भगवान् से प्रार्थना करता है कि मेरे अवगुणों का नाश कर मुझे सम्मति दीजिये और मेरा मन अपने में लगाइये। और जब एक बार उसने इस रस का पान कर लिया तो फिर ‘राम जपत तनु जरि की न जाइ। राम नाम चितु रहिआ

23. पृ. ४८०, १८।

24. पृ. ३३५, ५५।

25. पृ. ३२४, ३।

26. श्लोक ८२।

27. पृ. ४७८, १०।

28. पृ. ३३५, ५५।

29. पृ. ७६३, ५।

समाई ।³⁰ किसी भी शर्त पर वह नाम को छोड़ने को तैयार नहीं, यद्यपि नाम का रहस्य जाने बिना उसका कोई मूल्य नहीं क्योंकि जिसने 'राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उत्तरसि पारा' ³¹ उसके लिए तो बिना श्रृंथ जाने वेदों पुराणों का पठन भी 'खर चन्दन जस भारा' से अधिक कोई मूल्य नहीं रखता, यह तार्किक एवं बौद्धिक कबीर का मत है लेकिन भक्त कबीर ने तो नाम के महत्व को समझाते हुए कहा है कि स्वप्न में बरते हुए भी किसी के मुख से राम निकल गया तो वह भी इतना पवित्र हो गया, कि 'ताके पग की पानही मेरे तन को चाम'³² इसी विचार-धारा की पुष्टि में उन्होंने बताया है कि अजामिल, गण तथा गणिका आदि भी निष्कृष्ट कर्म करने वाले 'राम नाम लीने'³³ पार उत्तर गये। इस सब से स्पष्ट है कि सिद्ध साधक मुनि आदि भी सब प्रयत्न करके हार जाते हैं लेकिन एक मात्र नाम कल्पतरु ही उन्हें भव पार पहुँचाता है और कबीर को इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने ऐसे नाम को पहिचान लिया है। जिसको 'माइश्रा तपति बुभिश्रा अंगिश्रारु, मनि सतोखु ग्राधारु'³⁴ आधार बनाने पर कबीर के सभी कष्ट दूर हो गए हैं। नाम का महत्व न केवल कबीर में ही देखने को मिलता है अपितु सम्पूर्ण सन्त मत इस दृष्टि से उस महान् सन्त का ऋणी है जिसने हजार वर्ष तक भक्त समाज को नामाभृत का पान करा कर अमर कर दिया। ऐसे नाम का जप जीव को

30. पृ. ३२६, ३३।

31 पृ. ११९१, १।

32. स्लोक ६३।

33. पृ. ६६२, ५।

34. पृ. ३३१ ४०।

अनुभव कराने मे सहायक सिद्ध होता है। नाम का तल्लीन होकर अनवरत स्मरण ही जप है। चौरासी लाख योनियों के चक्र से बचाने के लिए जीव को इसी जप का सहारा लेना पड़ता है इसीलिए क्षणिक देह द्वारा प्राप्त अमूल्य समय का अपव्यय न कर, कधीर ने सन्देश दिया है कि 'मजहु गोबिन्द भूलि मत जाहु' ³⁵ क्योंकि वृद्धावस्था मे जब वाणी और देह के अन्य अङ्ग कार्य न करेगे, तब जप करने की सामर्थ्य ही कहा बाकी रह जायेगी। इसका उपयुक्त साधन केवल गुरु की शरण लेना ही है, 'जल भरी गागरी' ³⁶ यह देह तो क्षणिक ही है अतः जंब तक सतगुरु न मिलेगा, तब तक मुक्ति का द्वार न खुल सकेगा, क्योंकि वही तो नाम के महत्त्व को बता कर नाम दे सकता है और यह नाम भी उसकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए मानव को सत्कर्मों का आश्रय लेना होगा। सत्कर्म की प्रेरणा सत्सगति से मिल मिलती है और सत्सगति भी तो अच्छे भाग्य के बिना सम्भव नहीं, इस प्रकार वह गुरु ही 'जोति महि मनि असथिरु करै' जिससे इस भवसागर से प्राणी तरे ³⁷ भव-बन्धन का नाश कर जीव भवपार पहुँच जाता है लेकिन भवपार पहुँच के भी उसे भगवत् प्राप्ति करनी है जिसके लिये आवागमन के चक्र से सदा के लिए बचना आवश्यक है। इसी लिये मानव मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक बना रहता है—'लोभ मोह सरब विरसि जाहु' चंचल मनोवृत्तियों को बन्धन मे रखने मनोविकारों को भुलाने वाला

35. पृ ११५६ ६।

36. श्लोक ७३।

37. पृ ११६२, २०।

जीव ही तो मोक्ष प्राप्त करता हुआ युग २ तक अमर फल खाबहु^{३८} गुरु की कृपा से जब वासनाओं की 'अनलु बुझाइआ'^{३९} तभी तो वह जीवत मुक्त हो सकता है। वस्तुतः इन्द्रियों को मारना अथवा उन्हें शिक्षित करना ही इस मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इन्द्रियों को वश में करने के साथ ही साथ सांसारिक रस का त्याग कर माया से बचना पड़ता है— यौगिक क्रियाओं से जो 'अनहद किंगुरी बाजी'^{४०} उसे सुन कर माया भाग खड़ी हुई और मन आनन्द से परिपूर्ण हो गया तभी जीव आवागमन के बन्धन को छोड़ अभय पद को प्राप्त कर सकता है। अपने प्रारम्भिक जीवन में कबीर ने युग का विशेष महत्त्व स्वीकार किया योगी के लिये नव द्वारों को रोक कर दशम-द्वार ब्रह्मरन्ध को खोल लेने में ही उसके जीवन की सार्थकता है। क्योंकि वहाँ से ही 'अमृत धार चुआवउ' और उस अमृत रस पान में ही वह अभय-पद को अनुभव करता है^{४१} स्वतः किये गए प्रयत्नों में हरि सेवा का भी विशेष महत्त्व है, अन्यान्य देवी देवताओं की पूजा को निस्सार बताते हुए तथा तीर्थस्नान आदि बाह्याङ्गबरों को व्यर्थ का जञ्जाल घोषित करते हुए कबीर ने कहा है कि जो व्यक्ति राम की सेवा करता है वही 'जीवत पावहु मोख दुआर'^{४२} और यह हरि सेवक ही है जिसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अत मोक्ष प्राप्ति के लिये हरि सेवा में ही तल्लीन हो जाना चाहिए। *

38 पृ. ३३४, ५२।

40. पृ. ३३४, ५३।

39 पृ. ६७१, १०।

41 पृ. ११२३, ३।

महाबली रावण को भी केशो से खीच कर यमराज ने अपना अतिथि बना लिया था, वयोकि उसने नाम के महत्व को नहीं समझा था। अस्थिर संसार में रावण की इस दुर्दशा को देखते हुए कबीर कहता है कि नाम को अपना लेना चाहिए⁴³ वयोकि 'राम नाम बिनु मुक्ति न होइ' यदि कहीं 'गोविन्द लिव ल्युगी' तो 'जनम मरन का भरम गइआ'⁴² जीव का आवागमन भगवान् के आदेश से ही होता है। अतः उससे बचने के लिए भी उसी की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है⁴⁵ और उसके लिए भगवान् की सेवा। क्योंकि सेवा से भगवान् की कृपा प्राप्त हो सकती है। और इस प्रकार 'जिन कउ किरपा करत है गोविन्दु ते सतसगी मिलात'⁴⁶ और भगवान् की कृपा भी किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होती है जिसे यह कृपा प्राप्त हो गई, वह अनायास ही आवागमन के चक्कर से निकल जाता है। इस आवागमन के चक्र से बचने पर ही जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती है अतः संसार में उसी का नाश करना चाहिए। 'जिह मुए सुखु होइ' यही आनन्द ब्रह्म की प्राप्ति है।⁴⁷ तामसिक वृत्तिसांसारिक ध्रम तथा आन्तरिक मलिनता को दूर कर यदि दसो द्वारो एवं पांचो इन्द्रियों से भगवत् स्मरण किया जायेगा तभी उसकी प्राप्ति हो सकेगी।⁴⁸ इसकी प्राप्ति के लिए असार एवं अस्थिर जगत् में पुत्र, स्त्री,

42. पृ. ३४३, ७६।

43. पृ. ११०४, ६।

44. पृ. ११६२, १६।

45. पृ. ११०३, ४।

46. पृ. १२५२, २।

47. श्लोक ६।

48. पृ. ११५८, ४।

तथा माया के वास्तविक रूप को जानकर इनका त्याग करना होगा। और इस प्रकार ससार के प्रति मृतक होने के बाद भी अन्तर में 'भइआ आनन्दु' ब्रह्म मिलन के आनन्द की अनुभूति होगी।⁴⁹ यौगिक कियाओं का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है निरन्तर अपलक दृष्टि से ब्रह्म की और देखते २ नेत्र लाल हो जाते हैं और इसी अभ्यास से ब्रह्म की प्राप्ति होती है तब धीरे धीरे दृश्य व दर्शक एकाकार हो जाते हैं अथवा शरीर की मटकी का मन द्वारा मन्थन करना चाहिए तब अन्तर में ब्रह्मानन्द की अनुभूति हो सकेगी⁵⁰। अन्तर में ध्वनित अनहृद नाद की जो वीणा बजेगी, उसका स्वर कभी न टूटेगा और इस स्वर को सुनने वाले का मन अनन्द से परिपूर्ण हो जावेगा, वस्तुत यही ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था है।⁵¹

ब्रह्म प्राप्ति के लिये वैयक्तिक योगसाधना से अधिक महत्व जन सेवा का है युवावस्था में सशक्त देह से जो व्यक्ति जन सेवा करता है वही 'पाए निरजम देव'⁵² कबीर की भक्ति पर व्यग करती हुई लोई कहती है कि 'मूँ ड पलोसि कमर बधि पोथी' साध्यों को तो कबीर सब कुछ देते हैं लेकिन हमें तो 'चबेना' भी नहीं भर पेट मिलता। कबीर उत्तर देते हैं—

'सुनि अंधली लीई वे पीर, इन्हि मु डीअन भजि सरनि कबीर।'

अतः उनकी सेवा करने में तुम्हें दुःखी नहीं होना

49. इलोक ६।

50. पृ. ४५८, १०।

51. पृ. ३३४, ४३।

52. पृ. ११५६, ६।

चाहिये^{५३} । बाह्य प्रयत्नो के बाद कबीर की दृष्टि आन्तरिक प्रयत्नो पर जा पड़ती है, उनके लिये भगवत् प्राप्ति के लिये काशी मे मरने का 'कोई महत्व नहीं, क्योंकि परम-पद तो वही पा सकता है जिस ने 'हरि नामा चितु लाइ'^{५४} यह भक्ति अनन्य और सहज होनी चाहिये जो व्यक्ति अनायास ही अनवरत रूप से भगवान् के अखड आनन्द में विचरण करता है'^{५५} वही तो उसे पा सकता है, शरीर के मन्दिर मे सकल्प के स्तम्भ का आश्रय लेकर 'करै भक्ति आरम्भ' वह भक्ति ही ब्रह्म को मिला सकेगी'^{५६} पूर्व-जन्म के संस्कारों के कारण अथवा भगवत् कृपा के कारण जिन्होंने भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपनाया है वे ही भक्ति के सिंहासन पर चढ़ कर 'राम कबीरा एक भए हैं कोई न सके पछानी'^{५७} वस्तुत यह भक्ति ही कस्तूरी-वत् ब्रह्म को अनुभूति अन्तर मे करवाती है, उसके लिये सांसारिक चतुराई को छोड़ने वाला व्यक्ति ही अधिक सफल हो सकता है क्योंकि 'भोले भाइ मिले रघुराइआ'^{५८} और इस के लिये कबीर ने तो 'मनु दे रामु लिआ है मोलि'^{५९} सब मिला कर यह कहा जा सकता है कि सभी सासारिक प्रयत्नो से अप्राप्य ब्रह्म निश्छल, निष्कपट, अनन्य, अनवरत व तीव्र भक्ति से सुलभ है । इसी लिये 'सच्चे भक्त को पहिचानने वाले जीव को सफल बताया है क्योंकि वही सहज की अकथ-

53. पृ. ८७१, ६ ।

54. पृ. ३३५, ५५ ।

55. पृ. १३४६, १ ।

56. पृ. ३४४, १ ।

56. पृ. ३४४, १ ।

57. पृ. ६६६, ३ ।

58. पृ. ३२४, ६ ।

59. पृ. ३२७, १६

कथा को गुरु के माध्यम से जान सकेगा और सत्सगति तथा उसकी कृपा से 'हरि धन पाइओ'⁶⁰ लेकिन उन सब साधनों से बढ़ कर भगवान के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण की आवश्यकता है जिस के लिये भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये, कबीर कहते हैं यदि कोई मा अपने पुत्र को विष दे दे तो उस में प्रभु का क्या दोष, ठीक इसी प्रकार जिस जीव या भक्त ने तन, मन, धन सभी कुछ तो भगवान को सौप दिया है, 'तिन कोउ मिलियो सारंग पानो'⁶¹ और इस सब के लिये सौभग्यशाली होना आवश्यक है क्योंकि जब तक भगवत्कृपा न हो, तब तक जीव के सब प्रयत्न व्यर्थ हैं⁶² ।

वेद कुरान आदि सब इस लिये भूठे हैं क्योंकि इन से 'दिल का फिक्र न जाइ' यदि क्षण भर के लिये भी हृदय में स्थिरता आ जाये तो स्वतः भगवान ही उपस्थित हो सकते हैं⁶³ और संसार से बीतरागी होने वाला ही उस रस को पहिचान सकता है, 'इह रस छाड़ ओहु रसु आवा' और जिस ने एक बार 'ओहु रसु पीआ' उसे फिर 'इह रसु नहि भावा'⁶⁴ अतः ब्रह्म रस का पान करने के लिये विश्व-रस से नीरस होना पड़ता है, यह नीरसंता सच्ची और आन्तरिक होनो चाहिये । तभी व्यक्ति अपनी आत्मा के तेज को उस महातेज में मिला कर ऐक्य सम्पन्न कर सकता है ।⁶⁵ कबीर योगियों से प्रभावित हैं, इडा, पिंगला एव सुषुमना नाड़ियों के महत्व का भी उन्हे ज्ञान था, ब्रह्मरन्ध्र एव सहस्रार से भ्रवित होने वाले अमृत से भी

60. पृ. ४७६, १५ ।

61. पृ. ८७२, ११ ।

62. पृ. ३२७, २१ ।

63. पृ. २२७, १ ।

64. पृ. ३४२, ३५ ।

65. पृ. ८० ८५७, ११ ।

वे परिचित थे यही कारण है कि भगवत् प्राप्ति के बिना ही अन्तर्जंगत को अभ्यास द्वारा उद्भुद्ध करने पर भी वे नहीं ब्रह्म-रस का पान कर सकते थे । और जब एक बार उनकी लौ ब्रह्म से लग गई, तब तो वे रात दिन उसी में लीन हो गये । अपलक दृष्टि से उन्हें हरि के बिना कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि उनके नेत्र उसी के अनुराग से लाल हैं⁶⁶ ।

‘लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल,
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ।’

योगी तो आन्तरिक षट्-चक्रों में खड़ो को देखना है और उसी में ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं जिस से वह मामारिक भ्रम में नहीं पड़ता, ऐसी अबस्था में बाहर की दसों दिशाओं में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके तो ‘बाहरी, भीतरी भद्राप्रकासु’⁶⁷ ।

गुरु द्वारा अनुभूत ज्ञान का प्रकाश ही भक्तों तक फैला है और ‘इसु मदमाता’ जिसकी भस्ती उत्तरती ही नहीं ऐसे ब्रह्म रस का पान करने वाले कोही वह सौभाग्य-शाली समझता है लोगों के भ्रम को दूर करता हुआ तथा नाम के महत्त्व को बताता हुआ कबोर कहता है कि इस जुलाहे के सामान्य कार्य में कौन अपना अमूल्य जीवन खोये । इसी लिये हाथों से जुलाहे का कार्य करते हुये भी उस के ‘हिरदै रामु मुखि रामै’ हौँ⁶⁸ आन्तरिक दृष्टि से पूर्णता । उसने अपने आप को

66. पृ. ३५५, ४ ।

67. पृ. ३४५, ७ ।

68. पृ. ३५५, ५ ।

69. पृ. ३८६, ३६ ।

राम में तल्लीन कर रखा है इसो लिए वह प्रेम-रस पान कर पाता है और जिस राम के रहस्य को 'सनक सनन्दन' महश और शेष भी न जान सके वह 'सन्त सगति रामु रिदै बसाइ'⁷⁰ यह सब गुरु की कृपा से होता है लेकिन गुरु की कृपा भी वहाँ कुछ नहीं कर सकती 'जउ रामु न करै सहाह' क्योंकि उसकी सहायता के बिना 'जिहु जिहु डाली पगु धरउ सोइ मुरि मुरि जाइ'⁷¹ वस्तुतः वही सौभाग्यशाली है 'अम्रित रसु जिनि पाइआ' और यह सब भगवत्कृपा से ही सम्भव है।⁷² कबीर के साध्य की अन्तिम सीढ़ी है, भगवान् में तल्लीनता और उससे पूर्ण ऐक्य यह ग्रभिन्नत्व ही जीव की सत्ता को समाप्त कर अद्वैत स्थापित करता है। ससार में सोने वाले जीव को कहा है कि जाग उठो और 'जाके सग ते बीछुरा ताहि के संग लागु'⁷³ ओले की तरह घुल कर जल रूपी ब्रह्म में मिलना होगा। सासारिक वासनाओं से उदासीन हो मन को जीत कर ज्ञानान्जन प्राप्त करने वाला ही, 'अन्तरगति हरि मेटिया'⁷⁴ यही उससे ऐक्य है ऐसा ऐक्य जहा वियोग का प्रश्न ही नहीं उठता। निरन्तर प्रभु का विचार करते हुए घट में ही जब जीव प्रभु से क्रीड़ा करने लगता है तब यम तो उससे दूर भाग जाता है और वह 'आदि पुरुख में ही रहै समाइ'⁷⁵ और 'कबीर तूं तूं करता तूं हुआ मुझ महि रहा न हूं।

70 पृ. ६६१, १

71. श्लोक ६७।

72 पृ. ६६६, ४

73. श्लोक १२६।

74 पृ. ११०३, २।

75. पृ. ३४३, ७६।

लव आया परका मिटि गइआ, जत देखउ तत तू ⁷⁶

इस प्रकार जीव अपनी सत्ता को खो कर केवल उसी की सत्ता को अनुभव करने लग जाता है।

सक्षेपतः कबीर के जीवनोद्देश्य की साधन साध्य प्रक्रिया का विकास हमने देखा। सासारिक भय से आतुर सांसारिकता का ज्ञान पाते ही सर्व प्रथम माया से अपनी रक्षा की इच्छा करता हुआ जीव उस दिशा में प्रयत्नशील होता है। अपने स्थूल ज्ञान के अनुकूल पहिले वह शारीरिक पुनः साधनात्मक तत्पश्चात् मानसिक एवं आत्मिक प्रयत्न करता है लेकिन शीघ्र ही उसे ज्ञान हो जाता है कि पथ प्रदर्शक गुरु के बिना सब साधन व्यर्थ हैं। और वह गुरु का आश्रय लेता है, परंतु यह अनुभव करने में भी देर नहीं लगती, कि भगवत् कृपा बिना इतना सौभाग्यशाली नहीं बना जा सकता, कि त्रिलोक वशकारिणी माया से रक्षा हो सके। माया से रक्षित जीव सासारिक प्रलोभनों से अवश्य बच निकलता है। लेकिन अपने क्षेत्र के एकाधिपति यम का भय उसे निरन्तर चिन्तित किये रखता है। इस प्रकार उसे यम से रक्षा का प्रयत्न करना पड़ता है। यम से रक्षित हो वह भव-बन्धनों का नाश कर उस पार पहुँचने का प्रयत्न करता है और यही प्रयत्न उसे मोक्ष एवं अभय पद का इच्छुक बना देता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आवागमन के चक्र से बच कर जीव भगवत् प्राप्ति करना चाहता है, ब्रह्म-दर्शन कर उस का ज्ञान प्राप्त करता है और धीरे २ उस की अनुभूति में अपने आप को खोकर उस से

ऐसा ऐव्य सम्बन्ध स्थापित करता है जहां दोनों के रूप में
कोई भेद नहीं रहता। शंकर के ग्रन्थों की भी यही पुकार है।

सहायक शक्तियाँ

मानव जीवन का साध्य ब्रह्म से पूर्ण ऐक्य है। जीव का
अपने साध्य से परिचय हो जाने पर उस दिशा में प्रगतिशील
हो जाना स्वाभाविक ही है। यद्यपि गत प्रकरण में साधनों पर
बहुत सा प्रकाश डल चुका है लेकिन कुछ स्थल अस्पष्ट भी
रह गये हैं क्योंकि वहां साध्य प्रधान था और साधना उस
के अनुकूल। अत साधनों का स्वतन्त्र अस्तित्व व महत्व न स्पष्ट
हो सका। यहा साधनों का अपना ही विकास क्रम है। वस्तुतः
साधन से अधिक उन्हें सहायक शक्ति कहना अधिक उपयुक्त
होगा। भगवत् प्राप्ति के दुर्गम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये
अन्यान्य शक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है, यह शक्तियाँ
कभी प्रयत्न साध्य होती हैं और कभी अनायास ही उपलब्ध।
उन की अनायास उपलब्ध भी सम्भवतः पूर्व जन्म अर्जित
संस्कारों के कारण ही होती है। सत्कर्म, सत्सग तथा सत्गुर
कृपा आदि न जाने कितने चौराहों से होकर जीव को भगवत्
कृपा प्राप्त करने लिये प्रयत्नशील होना पड़ता है, लेकिन
अन्य भक्त को तो अनायास ही अपनी तल्लीनता में ही
भगवत् कृपा की अनुभूति हो जाती है। अतः इन सब शक्तियों
को ब्रह्म प्राप्ति के साध्य में सहायक शक्ति का नाम देना
अधिक युक्ति सगत प्रतीत होता है।

भगवत् कृपा

वस्तुतः भगवत् प्राप्ति का एक मात्र साधन है भगवत्-

कृपा । मानव के सब सत्कर्म, योग, जप, तप, ज्ञान और सम्पूर्ण भक्ति भी यदि जीव को भगवत्कृपा का अधिकारी नहीं बना सकती तो सब व्यर्थ है । भगवत् कृपा के लिये आवश्यक है कि कि जीव में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा हो, ऐसी जिज्ञासा जो मृत्यु के अनन्तर भी सर्व-भावेन उसी को अपना अधिष्ठित स्वीकार करे, अतः उसकी अनन्त शक्ति के प्रति भयोत्पन्न हो । अप्रत्यक्ष रूप से भय ही उस अनन्तशक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है । श्रद्धा का आधार है विश्वास, अपने पर जिस व्यक्ति को भरोसा हो और उस को अनन्त शक्ति पर जिसे विश्वास हो उसी में उपयुक्त रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है । सच्ची श्रद्धा एक बार अनन्त शक्ति पर पूर्ण विश्वास पूर्वक की जानी चाहिये, फिर तो जीव स्वतः ही पुकार उठता है ‘अब कहु राम भरोसा तेग’¹ जीव को उस पर भरोसा हो गया और यह ज्ञान भी हो गया, कि वही सब के कार्य करता है ।

‘साहिब होउ दहश्यालु, कृपा करै अपुना कारजु सवारै ।’²
भगवान दयालु हुआ और भक्त का कार्य बन गया क्योंकि उसी ने तो कृपा करके ध्रुव और प्रह्लाद का भी उद्धार किया था, लेकिन यह कृपा तभी हो पाती है जब भगवत् विश्वास से भगवत् ब्रेम उत्पन्न हो और ब्रेम की यह तड़पन घनीभूत होकर अनायास ही भगवान को कृपा कर देने पर लाचार कर देती है जिस पर यह कृपा हुई, उस का तीनों लोकों में आदर होता है, वस्तुतः हरि कृपा से ही वह सत्सगति प्राप्त

1. षृ ३२८, २२ ।

2. षृ. ३३३, ५० ।

होती है जिस से मन भक्ति में स्थिर होता है।^३ इसी से अत्यत् शाति मिलती है। सत्‌संगति ही वया जीव का कोई भी कार्य, भगवत्कृपा विना सम्पन्न नहीं होता। और 'जब हुए किपाल मिलै गुरुदेउ, और यह गुरुदेव ही तो भगवान् से मिलाने वाले हैं। इस हृषिट में साधन साध्य से भी उपयोगी प्रतीत होता है। इस प्रकार जीव का 'वास्तविक' साध्य और साधन भगवत्कृपा की प्राप्ति ही है। इस लिये सब से सशक्त सहायक शवित भी भगवत् कृपा को ही माना जा सकता है।

सत्गुरु

उस के स्वरूप, गुण, एवं कार्यों का विवरण अन्यत्र दिया जा चुका है। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि गुरु आडम्बरी न होना चाहिये, गुरु अपनाने से पहिले अच्छी तरह पहचान कर लेनी चाहिये, कि वह सत्गुरु ही हो। ऐसा सत्गुरु जिसने स्वतः ब्रह्म अनुभूत केर लिया है, और इस प्रकार माया निलिप्त वह दूसरो का पथ प्रदर्शन करे। गुरु के गुण उत्कष्ट-तंम मानव के गुण कहे जा सकते हैं। और उस के कार्यों की महत्ता को अनुभव करके ही कबीर ने उसे गोविन्द से भी पहिले प्रणाम किया था।

'गुरु गोविन्द दोनों खडे, काके लागो पाय।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दीओ दिखाए ॥'

वस्तुतः विश्व में गोविन्द का प्रतिनिधि सत्गुरु को ही माना

3. पृ. १२५१, १

4. पृ. ८७१, ७।

जा सकता है इतना होते हुये भी वह जीव का निरन्तर पथ-प्रदर्शन करता रहता है तथा वैयक्तिक साधना के रूप में नाम देता है ।

राम पदारथु पाइकै कबीरा गाठि न खोलह ।

नहीं पहणु नहीं पारखू नहीं गाहकु नहीं मोलु ॥⁵

वह नाम इतनी अमूल्य वस्तु है कि संसार के बाजार में उसे पहिचानने वाले बहुत थोड़े ही ग्राहक हैं अतः सम्भाल कर रखना चाहिये । कि उनकी 'हरि' के नाम बिनु किनि गति पाइ'⁶ एक मात्र यह नाम ही तो माया और यम से जीव की रक्षा करता है ।⁷ इसी में तल्लीन होकर जीव परमात्मा का सहवास प्राप्त करता है । क्योंकि जिन्होंने 'हरि' का नाम न 'चेतिआ उन्होने' तो व्यर्थ ही जीवन गवाया और वे 'नरकहि परहि'⁸ क्योंकि 'राम नाम बिनु मुकतिन होई'⁹ जिसने राम नाम का रस नहीं पीया, उसकी जिह्वा बेकार है । जिसने उसका नाम नहीं सुना, उसके कान जल क्यों न गये ।¹⁰ वस्तुतः संसार की सम्पूर्ण सम्पत्ति से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, 'इहु धनु मेरे हरि के नाउ ।'¹¹ इसलिये संसार में निर्धन की परिभाषा इस प्रकार है—

5. श्लोक २३ । 6. पृ. ६५४, १ ।

7. पृ. ४८२, २५ । 8. श्लोक ६५ ।

9. पृ. ६५४, १ । 10. श्लोक ४ ।

11. पृ. ११५७, १ ।

‘कही कबीर निर्धन है सोई ।
जाके हिरदै नाम न होई ॥’¹²

अतः इस नाम के स्वरूप का ज्ञान होना भी कठिन है, क्योंकि यदि ‘राम नाम की गति नहीं कैसे उत्तरसि पार,’¹³ और वह गति क्या है? ‘राम’ कहन महि भेदु है तामहि एकहु विचार,’¹⁴ तोते रटन्त का तो कबीर ने विरोध ही किया है क्योंकि यह बाह्याडम्बर मात्र ही है— नाम लेने का रहस्य यही है कि भगवान् के उन गुणों में जीव को अपने हृदय को तल्लीन कर देना चाहिये। ऐसा राम नाम जिन दो अक्षरों से बना है ‘ए दुइ अखर न खिसहि’¹⁵ इस नश्वर ससार में यह दो शब्द ही अनश्वर है। इसका महात्म्य तो इतना है कि न केवल नाम लेने वाला मुख ही धन्य होता है अपितु ‘देहि किसकी बापुरो पवित्रु होइगो ग्रामु’¹⁶ वह कुल भी सार्थक हो जाता है जिसमें भगवान् का नाम लेने वाला ‘हरि दासु’ उत्पन्न हुआ है। नाम रूपी हीरे का व्यापारी ही तो सच्चा व्यापारी है। उसी मनुष्य की देह तो सुन्दर है जिसने नाम को आधार बनाया है क्योंकि ‘नाम बिना जैसे कुबज कुरूप’¹⁷ और ऐसी देह स्थिर भी तो नहीं नह सकती, क्योंकि ‘जितु घटि राम न उपजै फूटि मरै जनु सोइ।’ इसी लिये उसने भी तो प्रह्लाद के हट को दुहराया था।¹⁸

12. पृ. ११५६, ८ ।

13. पृ. ११०२, १ ।

14. श्लोक १६० ।

15. श्लोक १७१ ।

16. श्लोक ११० ।

17. पृ. ३२८, २५ ।

18. पृ. ३३३, ५५ ।

(८८)

‘मोकउ कहा पढावसि आल जाल,
मेरी पटीआ लिखि देउ स्तिगोपाल,
नही छोडउ से बाबा राम नामु ।
मेरो अउर पढन सिउ नही कामु ॥¹⁹

संसार की सैब पढ़ोई और सब काम नाम लेने ही में तो निहित है क्योंकि उसके बिना जीव का जीवन ही बेकार है । यह है नाम का महत्व और स्वरूप । भगवत् प्राप्ति में साधन के रूप में नाम मार्ग का अनवरत ध्यान ही जप कहलाता है । ‘कबीर सूता किअ करहि, उठि कि न जपहि मुरारि’²⁰ सोते हुये जीव को सर्तक किया है कि अब जब जप करने का समय है तब सोने की क्या आवश्यकता ? क्योंकि इस क्षणिक जीवन में थोड़ी देर बाद ही तो ‘लाम्बे गोड पसारि’ सो जाना है । सासांरिक मोह माया में उलझा जीव अभी सुलभ भी न पाया था कि कबीर ने पुनः ललकारा ।

‘हरि का नामु न जंपसि गवारा ।
किअ सोचहि बारम्बारा ॥’²¹

और यह जप माला फेरना मात्र नही है अपितु ‘हरि जपि हिरदै माहि’²² कहकर उसने भक्त के वास्तविक रूप से परिचित करवा दिया । अनन्त जीवनो तक उसके जप में लीन रहने का संदेश दिया है । जब नाम के आन्तरिक उच्चारण की भी आवश्यकता न रहकर केवल स्मरण की भावना रह जाती है, तब नाम सिमरण में परिवर्तित हो जाता है, ‘कागद जिउ गलि

19. पृ ११६४, ४ ।

20. श्लोक १२८ ।

21. पृ. ६५५, ७ ।

22. श्लोक १०६ ।

जाऊँगा²³ और यम आ करके केवां से खीच ले जायेगा इस लिये सम्पूर्ण सांसारिक सुखों को छोड़ उन सबसे श्रेष्ठ 'हरि सिमरन दिन जाई' नहीं तो 'नाम सिमरु पञ्चताहिंगा मन'²⁴ सांसारिक विष को छोड़ कर नामामृत का आस्वादन करने की प्रेरणा देते हुए कबीर ने कहा है—

'राम सिमरि, राम सिमरि राम सिमरि भाई,

राम नाम सिमरे बिनु, बूढ़ते अधिवाई।²⁵

इसके बिना अधिक लोग तो भवसागर में झबते ही जायेंगे। यह सिमरन ही तो ऐसा बिना तेल का दीया है, जो काम, क्रोध आदि विकारों के सम्पूर्ण अन्धकार को जड़ से उखाड़ फैकता है। अत —'जिह सिमरनि तेरी गति होइ।

सो सिमरनु रखु कंठ पिरोइ॥²⁶

इसलिये 'जिह सिमरन तेरी जाउ बलाउ' हे जीव 'सो सिमरन तू अनदिनु दिउ,'²⁷ इस सिमरन को प्राप्त करने का स्थान भी बता दिया है। 'इह सिमरनु सतिगुरु ते पाइये' और रात दिन उठते बैठते प्रत्येक समय व्यक्ति जो सिमरन करता है वही 'हरि सिमरनु पाइये संजोग' मानव जीवन का उद्देश्य ही भगवत् मिलन है और अनवरत सिमरन उसका साधन। सिमरन की भी चरमावस्था तक पहुँच कर जीव की 'अन्तरि लिब लागे'²⁸ यह भगवान में ऐसी तल्लीनता है जिसमें व्यक्ति सिमरन तो क्या अपमे आप को भी भुला देता है। और तभी वह 'सभ ही सुख पावे'²⁹ 'क्योंकि उसके सम्पूर्ण शोक तो मिट

23. श्लोक ११२ ।

24. पृ. ११०६, ११ ।

25. पृ. ६४२, ५ ।

26., २७। पृ. ६७५, ६ ।

28. पृ. ६१, १ ।

29. पृ. ३४२, ४३ ।

चुके होते हैं । अतः कबीर अपने अनुभव से जीव को विश्वास दिलाता है कि मेरी २ छोड़ कर केवल 'राम रहहु लिव लाउ,'^{३०} इस प्रकार नाम उसका जप एवं सिमरन तथा उसमें लौ लगाने का महत्व बताया है । वस्तुतः यह लौ (तल्लीनता) ही भगवत् भक्ति है अतः उसका स्वरूप देखना भी आवश्यक है ।

भक्ति

कहु कबीर भगति करि पाइआ ।

भोले भाइ मिलै रघुराइआ ॥^{३१}

भोलेपन से भरी हुई भक्ति से ही भगवान मिल सकते हैं इसी लिये 'चरन कमल जाके रिदै बसहि' वह मनुष्य कभी नहीं ढोलता, अपितु 'सर्वत्र सुखु पावै'^{३२} इतना ही नहीं, भक्ति इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 'बिनु हरि भक्ति न मुक्ति न होई'^{३३} और यह भक्ति ही है जो मृग में कस्तूरी वत् जीव में अन्तर्हित ब्रह्म को उद्भासित करती है । इसी कारण तो उस नगर से वह निर्जन स्थान ही भला है, "राम भगति जिह ठाइ"^{३४} क्योंकि भक्ति रहित स्थान तो यम का नगर है, यही कारण है कि कबीर को उसे कोसना पड़ा ।

'जिह नर राम भगति नहीं साधी ।

जनमत कत न मुओ अपराधी ॥'^{३५}

भक्ति न करने वाला अपराधी जन्म पाते ही मर क्यों न गया ? भक्ति के बिना प्रत्येक घर बेकार है, अतः उस घर

30. षृ. ११६०, १४ ।

31. षृ. ३२४, ६ ।

32. षृ. ८५७, १२ ।

33. इलोक ५४ ।

34. इलोक १५१ ।

35. षृ. ३२८, २५ ।

को आग लग जानी चाहिये, 'जिह नाही हरि नाउ'³⁶ घर का ही क्या कहना ? भक्ति के बिना तो मानव का जीवन ही व्यर्थ है। इसी लिये कबीर ने पढ़ने से योग को भला समझा था, लेकिन भक्ति पाकर कह उठा, कि वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं, 'भावै निदउ लोगु'³⁷ अतः भक्ति की युक्ति जाननी आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं, और जीव सांसारिक मोह-माया ही में ही फँसा रह जाता है। उसने आडम्बरी साधु ज्ञानगर्वित पण्डित को भवतारक नहीं जाना, अपितु कोई जीव भव-पार नहीं हो सकता, जब तक—'भगति नारदी रिदै न आई'³⁸ कबीर की नारदी भक्ति शास्त्रीय न होकर अनुभूत है उन्होंने इसका विधिवत् शिक्षण न पाया था अपितु कही यह सुना होगा कि नारदी भक्ति ही भवतारक है सम्भवतः इसलिये उसका उल्लेख भी कर दिया। लेकिन कबीर की अनुभूत भक्ति के सभी तत्व शास्त्रीय भक्ति से अभिन्न नहीं। 'मन मारे बिनु भक्ति न होइ'³⁹ इसलिये विरले व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी होते हैं। उसकी प्राप्ति का स्थान हैं 'सत्गुरु' और उसके लिए आवश्यक है उसकी कृपा। जयद्वे और नामदेव इसके प्रमाण हैं।

'गुर प्रसादी जै देउ नामा ।

भगति कै प्रेमि इनहि है जाना ।'⁴⁰

उस भक्ति में यह भी श्रावश्यक है कि भक्त 'असथिरु

36. श्लोक १५ ।

37. श्लोक ४५ ।

38. पृ. ६५४, ३ ।

39. पृ. ३२६, २८ ।

40. पृ. ३३०, ३६ ।

रहै न कतहूँ जाऊँ⁴¹ उसकी लग्न सदैव भगवान में लगी होनी चाहिये, उसका साधन भी उसने बताया—‘काइआ मदर मनमा थम’ बना लेना चाहिए.⁴² तभी यह स्थिरता आ सकेगी। भक्ति की सबसे पहली और कड़ी शर्त है अनन्यता की ‘सरब र्तशामी भजु केवल राम’⁴³ क्योंकि जिस प्रकार कच्ची सरसों से न तेल निकलता है और न खल ही, उसी प्रकार अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेना व्यर्थ है। अतः एक मात्र दानी ब्रह्म को ही भजना चाहिए। ‘जउ जाचउ केवल राम, आन देव सिउ नाही काम,’⁴⁴ इसलिए एक ही ब्रह्म से अपनी लग्न लगा लेनी चाहिए, तथा, ‘दूसरे मनहि न आना ना।’⁴⁵ सर्वं शक्ति-मान भगवान का भक्त अन्य देवी देवताओं के घर जाता हुआ शोभा नहीं देता, ऐसे दूसरे में मन लगाने वाले भक्त को धिक्कारते हुए कबीर कहते हैं—

‘ऐ जीअ निलज लाज तुहि नाही ।
हरि तजि कत काहू के “जाही ॥
जाको ठाकुर ऊंचा होई,
सो जनु पर घर जात न सोही ॥’⁴⁶

क्योंकि वह ‘धनि, जनम ताहि को गनै।’ इस अनन्यता के बाद चाहिये पूर्ण आत्म-समर्पण और उसमें भी ‘सीमु काटि करि गोई ॥’⁴⁷ यह समर्पण उस पिसो हुई मेंहदी

41. पृ. ४८१, २१ ।

42. पृ. ३४४, १ ।

43. पृ. ३२४, ३ ।

44. पृ. ११६२, २० ।

45. पृ. ३३६, ७४ ।

46. पृ. ३३०, ३८ ।

47. श्लोक २३६ ।

(६३)

जैसा होना चाहिये जो पैर मे लगने पर उसे रग तो दे, लेकिन पैर मे उसके छाड स कण भी चुम कर उसको उपस्थिति को सूचना न द ।⁴⁸ सारे सासारिक बन्धनों को त्याग कर नेत्र, कान, वाणी तथा हृदय सभो इन्द्रियों से जीव को अपने आपको उसी मे लगा देना चाहिए क्योंकि—

‘हम तुम बीचु भइओ नहीं कोई ।

तुमहि सुकत नारा हम सोई ॥’⁴⁹

और वह ‘तुमहि छोड़ि जानउ नहीं दूजी’⁵⁰ भगवान की पत्नी बनते हुए वह लोई का पति भी तो रहा ।⁵¹ उसी पूर्ण आत्म समर्पण का ही परिणाम है कबीर इतना भी नहीं जान पाते कि, ‘पीश महि जीउ बसै, जीश महि बसै कि पीउआ ।’⁵² लेकिन इस आत्म समर्पण के साथ २ मेह के लिये, ‘चात्रिक जिउ तरमत रहै’⁵³ ऐसी तड़पन की भी आवश्यकता है। इस तड़पन से ही भगवान में अतबुरत ध्यान लगा रहना चाहिए और भक्त उसी में ‘असथिर रहै न कतहु जाइ’⁵⁴ इसलिए तो कबीर कहता है कि ‘राम न छोड़ीए, तनु धनु जाइ त जाउ ।’⁵⁵ वह इस नाम को जो उसकी भक्ति का आधार है किसी भी शर्त पर छोड़ने को तैयार नहीं। इसी लिये उसने हर एक को सदेश दिया है कि आठ जाय चौमठ ‘घरी तु अनिरखत रहै जीउ ।’⁵⁶

48. श्लोक ६५ ।

49. ष. ४८५, ३५ ।

50. ष. ११५७, २ ।

51. ष. ३८८, २३ ।

52. श्लोक २३६॥

53. श्लोक १२४ ।

54. ष. ४८१, २१ ।

55. श्लोक १०२ ।

56. श्लोक २३५ ।

संसार के सभी प्राणियों के माध्यम से भक्त भगवान् को ही तो देखता है इस प्रकार कबीर की भक्ति के आवश्यक तत्व है, अन्यता, पूर्ण आत्म-समर्पण, अनवरत तड़पन और उसमें ही एकाग्रता। ऐसी प्रेम भक्ति के सहारे ही लौकिक सहारों में लिप्त न होने वाला जीव भव-पास पहुँच सकता है। ध्रुव, प्रह्लाद, जयदेव, नाम देव सभी ने तो उसका आश्रय लिया था।⁵⁷ इसी लिए तो पूर्व जन्म के सस्कारों के कारण समार की निन्दा के भय को त्याग कर दृढ़ता पूर्वक स्वय को उसकी भक्ति में लगा लिया, 'राम कबीरा रवि रह अवर तजे सब काम'⁵⁸ यही है कबीर की अनुभूत भक्ति और उसकी रूप रेखा।

निष्काम कर्मण्य जीवन

'तिह बड़भाग बसिअओ मनि जाके कश्य प्रधान मथानाना।'⁵⁹

मन में कर्म की प्रधानता पर विचार करने वाला व्यक्ति ही सौभाग्य शाली है—क्योंकि 'करि करता उत्तरसि पार'⁶⁰ काम करने वाला व्यक्ति ही भवसागर से पार उत्तर सकेगा, इसलिए कर्मक्षेत्र से पराहङ् मुख नहीं होना चाहिए। अंग २ कटवा कर मर जाना भला है पर 'कबहुँ न छाड़ सेत'⁶¹। जीवन सघर्ष है। संत पलायन के विरोधी थे अतः उन्होंने दृढ़ता पूर्वक सांसारिक समस्याओं का मुकाबला करने का क्रियात्मक सदेश अपने जीवन के माध्यम से दिया है, उनका व्यक्तित्व और जीवन इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है।

57. पृ. ३३०, ३६।

58. श्लोक २३६।

59. पृ. ३३६, ७४।

60. पृ. ६७१, १०।

61. पृ. ११०५, ६।

संसार समर से न भागने वाले को ही उन्होंने “सूरउ थारउ नाम”⁶² सूर बताया है। कबीर, नामदेव और त्रिलोचन की बातचीत को प्रस्तुत करते हुए इसी भाव को पुष्ट करते हैं। त्रिलोचन के यह कहने पर कि इस ‘छीपहु छाइले’⁶³ में ही नाम-देव तू क्यों जीवन गवां रहा है? नामदेव ने उत्तर दिया था—

‘नामा कहै त्रिलोचन मुखते रामु संभालि,
हाथ पाउ करि कामु समु चीतु निरंजनार्लि ।’⁶⁴

चित्त को भगवान में लगाते हुए भी उसने हाथों से कार्य नहीं रोका था कबीर ने भी कहा है ‘हम घरि सूत तनहि नित,’ लेकिन ‘धोविन्दु रिदे हमारे।’⁶⁵ इस प्रकार निष्कर्मण्यता का उन्होंने क्रियात्मक विरोध कर उसे भगवत् प्राप्ति में सहायक बताया है। अतः जीव को कम ही नहीं सत्कर्म करने चाहिए, नहीं तो कर्मभोग का व्याज ही बढ़ता जायेगा, ‘सुकृतु करि करि लीजै रे मन,’⁶⁶ सत्कर्मों की पहचान का साधन भी कबीरा ने बता दिया है कि, ‘संत की गैल न छोड़िये।’⁶⁷ जीव ने तो केवल उस मार्ग पर चलना है इसी लिए तो ‘जिह मारगि पंडित गए पाढ़े परी बहीर,’⁶⁸ उनके माग पर ही तो समाज की भीड़ चल पड़ी, अतः जीव को सत्कर्म करते हुए जोवन स घर्ष में जूझते रहना चाहिए।

सत्कर्मों के साथ २ सद्गुणों का भी महत्व बताया है। जहां दुष्कर्म और दुगुण अवरोधक शक्ति के रूप में जीव को

62. पृ. ३४२, ३४।

63. श्लोक २१२।

64. श्लोक २१३।

65. पृ. ४८२, २६।

66. पृ. ४७६, १६।

67. श्लोक १३०।

68. श्लोक १६५।

उसके उद्देश्य तक पहुँचने में रुकावट डालते हैं वहां सत्कर्म और सद्गुण मानव को ब्रह्मोन्मुख करने में सहायक सिद्ध होते हैं। फलवान् वृक्षों की तरह परोपकारी व दानी होना जहा जीव को नम्र और उदार बनाता है वहा उन्नत भी कर देता है।⁶⁹ जहा ज्ञान में धर्म है वहा भूठ में पाप है तथा 'जहां लोभु तह कालु है जहां खिमा तह आपि।' क्षमाधारी को तो भगवत्तुल्य ही बताया है। इस प्रकार भक्ति के साथ २ सद्गुण और सत्कर्म परक निष्काम कर्मण्य जीवन भी जीव को उसके साध्य तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होता है।

ज्ञान

ज्ञान के आडम्बरों में पड़े हुए पण्डे-पश्चिडतों, बाम्हन-ब्राह्मणों, तथा मुल्ला मौलियों का कबीर ने विरोध अवश्य किया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपढ़ कबीर ने ज्ञान के महत्व को स्वीकार न किया हो उसने स्पष्ट ही कहा है 'जह ज्ञानु तहं धरमु है'⁷⁰ वस्तुतः विवेक एव विचार के बिना पुस्तकी ज्ञान का उन्होंने विरोध किया। लेकिन विवेक का तो उन्होंने इतना महत्व स्वीकार किया है कि उसे अपना गुरु तक कहने में नहीं चूके⁷¹। वास्तविक ज्ञान तो वही है जो अन्तःकरण में ब्रह्म को उद्भासित कर उसकी पहिचान करवा दे⁷²। भक्ति मार्ग कबीर का यद्यपि विशिष्ठ साधन नाम है

69. इत्योक्त २३०।

70. इत्योक्त १५५।

71. इत्योक्त १५५।

72. पृ. ७६३, ५।

73. पृ. ३४०, ८।

लेकिन इस बात को भुला नहीं सके कि बिना विचार किये नाम का भी कोई महत्व नहीं, अन्यथा वह 'खर चन्दन भारा' ही बना रह जायेगा।⁷⁴ अन्तर ज्ञान ही वह अमूल्य धन है जिसे पाकर जीव वास्तव में धनी बनता है।⁷⁵ क्योंकि उसका 'त्रिसना अरु माइआ भ्रमु तूका'।⁷⁶ इस प्रकार—

'चीनत चितु निरजन लाइआ ।

कहु कबीर तौ अनभउ पाइया ॥'⁷⁷

वस्तुतः कश्चित् का ज्ञान पुस्तकों ज्ञान न होकर स्वतः उद्भूत, अन्तःकरण का ज्ञान था। ज्ञान के आश्रय के बिना कबीर की भक्ति सशक्त नहीं प्रचलित, आडम्बर पूर्ण भक्ति की प्रतिक्रिया में यह उसने अनुभव किया था। इसी लिये जहाँ उसने अपनी भक्ति को निष्काम कर्मण्य जीवन से प्रवह-मान व सचरण शीत दैनिक जीवन का अग बताया था। वहा स्थायी भी किया था। उसे ज्ञान के सम्बल से सशक्त एवं भक्ति की प्रधानता होते हुए भी उसने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समुच्चित समन्वय कर वह त्रिवेणी प्रवाहित की जो, युग-युगान्तर तक जीवन का अजन्म स्रोत बहाये हुए है। अतः कबीर के साध्य-प्राप्ति में सहायक ज्ञान का महत्व भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान ही तो वह सूर्य है जो भक्ति के पथ को आलोकित करता है।

योग

'तरवरु एकु अनन्त डार शाखा पुहप पत्र रस भरीआ ।
इह अस्त्रित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरै करीआ ॥'

74. पृ. ११०३, १।

76. पृ. ११२३, १।

13 ष ६६६, ३।

77. पृ. ३२५, २७।

जानी जानी रे राजा राम की कहानी,
अन्तरिजोति राम परगासा गुर मुखि विरलै जानी ।⁷⁸

सम्भवतः कबीर अपने प्रारम्भिक जीवन में योगी रहे थे । अथवा उनका योगियों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था , कि वे न केवल यौगिक शब्दावली अपितु यौगिक क्रियाओं से भी बहुतायत से परिचित थे । उनकी वाणी इस बात का प्रमाण है । 'युज' (जोड़ना) से योग शब्द का अर्थ ही जोड़ना है, आत्मा को पन्नमात्मा से । इसके अन्यान्य साधन हैं शारोरिक क्रियाओं द्वारा बलात् इन्द्रियों एवं मन को वश में करना ही हठ योग का उद्देश्य होता है क्योंकि 'मनु जोतै जगु जीतिआ ।'⁷⁹ इतना ही नहीं उस पवित्र मन के पीछे तो स्वतः भगवान भी घूमने लगते हैं ।⁸⁰ और ऐसे ही पवित्र मन वाला 'जीव ते सीउ' जीव से शिव में परिणत हो जाता है ।⁸¹ वृक्ष शरीर को उसने समझ लिया है तभी उसे "राजा राम की कहानी"⁸² का पता लग गया और यह भोज्ञात हो गया कि यह शरीर ऐसा है 'जा महि ज्योति करै परगास'⁸³ तब त्राटक से उसने ससार का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्मरन्ध में कुड़लिनी की चाबी द्वारा उसने ब्रह्मदर्शन करने का प्रयत्न किया है ।⁸⁴ नव द्वारों की वृद्धियों को रोकने से ही यह सम्भव है । कोई विरला ही ऐसा है जो दशम द्वार तक पहुँच सके और अनहूद नाद को श्रवण कर

78. पृ. ६७६, ६ ।

79. पृ. ११०३, २ ।

80. स्लोक ५५ ।

81. पृ. ३४४, १३ ।

82. पृ. ६७०, ६ ।

83. पृ. ११६२, १६ ।

84. पृ. ३४१, २४ ।

ब्रह्म रसामृत पान करता हुआ उसी के आनन्द में तल्लीन हो जाये।⁸⁵ षटचक्र में अनुभूत ब्रह्म के कारण ही उसकी द्विविधा का नाश हो जाता है इस प्रकार जब 'उगवै सूर' तथा लगातार अहिनिसि बाजै अनहृद तूर' तब जीव ने 'देखिआ तिहु लोक का पीउ'⁸⁶ जिस योग का 'आडम्बर' समाज को विचलित कर सकता था उसका कबीर ने दृढ़ विश्वेष किया। लेकिन वास्तविक योग देह की पुष्टि और मन की एकाग्रता के माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस बात को उसने स्वीकार किया है। इन्द्रियों और मन को नियन्त्रित किये बिना अनन्य और अनवरतभक्ति हो भी कैसे सकती है। अतः साध्य प्राप्ति मे कबीर को योग का विशेष सहयोग स्वीकार है। हा यह स्मरण रहे, कि उसने इष्टदायिनी दुरुह शारीरिक साधनाश्रो का विरोध कर सहज-योग का महत्व स्थापित किया है। 'सहज' से तात्पर्य ही उस योग का है, जो अपने आप मे ही, दुसाध्य साध्य न बन कर दिनिक जीवन का क्रियात्मक अग बन सके जिसके लिये निवृत्ति मार्गी एव निष्कर्मण्य जीवन व्यतीत करना आवश्यक नहीं, अपितु प्रवृत्ति मार्गी होते हुए भी जो सहज ही जीव को उसके साध्य की ओर अग्रसर करे, इस सहज मे लीन होन पर ही जीव का भ्रम नष्ट होता है तथा कार्यपूर्ण होता है।⁸⁷ इस सहज के कारण ही 'मरन जीवन की सका नासी'⁸⁸ परिणाम स्वरूप चोरी २

85. षृ. ३३४, ५३।

86. षृ. ३४४, १३।

86. षृ. ३४४, १३।

87. षृ. ११६४, ६।

88. षृ. १२४४, १।

उसका 'मनुआ सहजि समाना ।'⁸⁹ इस प्रकार सहज योग साध्य-प्राप्ति का उपयुक्त साधन है ।

पवित्र मन

मन जीते जगु जीतिआ⁹⁰ मन का महत्व तो इसी से स्पष्ट है । अतः सांध्य तक पहुँचने में पवित्र मन का विशेष सहयोग है । 'मन को पवित्र करने के लिए उसे नियन्त्रण में लाना आवश्यक है अतः

| 'कूटन सोड जो मन को कूटै ।

मन कूटे तउ जम ते छूटै ।'⁹¹

पवित्र मन न केवल यम से रक्षा करवाता है अपितु भगवत्-प्राप्ति भी करवाता है । और जब 'मनु निर्मलु भइया, तो पाछे लागो हरि फिरै कहत कबीर कबीर ॥'⁹² पवित्र मन के पोछे तो भगवान् स्वतः चक्कर काटता फिरता है क्योंकि पवित्र मन तो स्वतः ही भगवतरूप को प्राप्त हो जाता है ।

सत्संगति

मन को पवित्र रखने के लिए सत्संगति आवश्यक है, 'सत संगति रामु रिदै बसाइ ।'⁹³ न केवल इतना, उसी से तो 'मुकति पदारथु पाइए'⁹⁴ और जीव का आवागमन के चक्र से छुटकारा होता है यह सत्संगति ही पहिले माया से रक्षा करती

89. पृ. ११५८, ४ ।

90. पृ. ११०३, २ ।

91. पृ. ८७२, १० ।

92. इच्छोक ५५ ।

94. पृ. ६६१, १ ।

94. इच्छोक २३१ ।

पुनः—

‘सति सगति मिली विवेक बुद्धि होई,
पारसु परसि लोहा कंचनु सोई ।’⁹⁵

उसके बिना तो यह ससार जलती हुई भट्टी है जिसमें
कुन्जसता हुग्रा जीव न कभी शान्ति ही पा सकता है और
न ही भवधार पहुँच सकता है ।⁹⁶ जिस प्रकार कोई भी नदी
गगा में मिल कर गगा ही बन जातो है उसी प्रकार—

‘सन्तन सगि कबीर विगरइओ,
सो कबीर रामै होइ निवरइओ ।’⁹⁷

सन्त समागम से कबीर तो राम ही हो गया था ।
भर्तृरि हरि ने भी तो कहा है “सत्संगति कथय कि क करोति
पु साम्” जीव का कोन सा कार्य है जो सत्सगति से सिद्ध नहीं
होता । अतः सत्सगति के महत्व को समझते हुए कबीर ने
कहा है ।

‘कबीर एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी हूँ ते आध,
भगतन सेती गोसटे जो कीनै भो लाभ ।’⁹⁸”

क्षण भर की सत्सगति भी जीवन को सफल बना
देती है । इसी से तो ब्रह्मय वातावरण बनता है सत्युरु की
प्राप्ति होती है—नाम का आधार मिलता है सत्कर्म तथा सद्
गुणों के माध्यम से जीवन को समुचित विकास होता है और
जीव ब्रह्म की ओर बढ़ता रहता है ।

95. पृ. ४८०, २० ।

96. पृ. ११०५, १० ।

97. पृ. ११५८, ५ ।

98. इलोक २३२ ।

99. पृ. ३३५, ५७ ।

हरि सेवा

‘कूटनु हरि की सेव’ । भव बन्धनों से कूटने का उत्कृष्ट साधन है हरि की सेवा । क्योंकि ‘जो सुखु प्रभु गोविन्द की सेवा, सो सुखु राजि न लहिए’¹⁰⁰ सम्भवतः इसी लिए—

‘इस् देहि कउ सिमरेइ देव ।
सो देहि भजु हरि की सेव ॥’¹⁰¹

देवता भी तो हरि की सेवा करने के लिये ही उस देह को आकांक्षा करते हैं । वस्तुतः ‘मानस जनम का एहि लाहु’¹⁰² मानव जीवन का यही तो उद्देश्य है । इस प्रकार मानव देह, यह जोवन हरि की सेवा के माध्यम से भगवत्प्राप्ति में विशेष सहायक है । जीव का आत्म विश्वास अपने अन्त करण में ब्रह्मानुभूति तथा उसके अनकूल आचरण ऐसी प्रबल आन्तरिक शक्ति है जो अनायास ही जीव को ब्रह्मोन्मुख बना देती है । अपनी आत्मा की पुकार का अनुकरण और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म की आज्ञा व इच्छा का ही पालन मात्र है । क्योंकि आत्मा की पुकार के विरुद्ध कुछ भी करना भगवान् से दूर जाना है परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा की पुकार का जीवन में क्रियात्मक अनुकरण भगवत् प्राप्ति में मानव का सहायक बनता है ।

इस सब के लिए भगवत्कृपा की ग्रावश्यकता है, क्योंकि भगवत्प्राप्ति के सम्पूर्ण साधनों में यह महत्वपूर्ण प्रथम तथा अन्तिम साधन है भगवत्कृपा के शेष सब साधन तो औपचारिक

100. ३३६, ४८ ।

101. पृ ११५६, ६ ।

(१०३)

मात्र हैं, यदि वे भगवत्कृपा। प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकते, तो इनका कोई मूल्य नहीं। साधनों से प्राणत्त्व का सचार करने वाली यह भगवत्कृपा है लेकिन यह किसी सौभाग्य-शाली को प्राप्त होती है इसी लिए अङ्गयान्य श्वलों पर कहा है—

‘सारिंग घर सो मिलै जो बढ़ भागो रे।’¹⁰²
और जिस पर भगवत्कृपा होती है वही तो सौभाग्य शाली है।

सक्षेपतः पूर्व जन्म के अर्जित पुण्यों के कारण जीव ऐसे संस्कारों को प्राप्त करता है जिससे वह सत्कर्म और सद्गुण परक वातावरण में पनपना प्रारम्भ होता है। ऐसे ही समय सत्सगति से उसे कहीं सत्गुरु मिल जाता है जो नाम देकर जीव को अनन्य व अनवरत भक्ति में लगा देता है। जीवन भर उसका पथ-प्रदर्शन करता हुआ उसे निष्काम कर्मण्य जीवन तथा सत्कर्म करने को प्रेरणा देता रहता है इसी से उसका अन्तर्मन पवित्र हो आत्मा की पुकार का अनुसरण करता रहता है। एसा जोव ही कभी सौभाग्य से भगवत्कृपा को प्राप्त करता है। और भगवत्कृपा के होते ही जीव का व्यक्तित्व परमानन्द में तिरोहित हो जाता है। यह है भक्त के जीवन मग के विशिष्ट पग चिह्न।



—६—

अवरोधक शक्तियाँ

मानव जीवन सघर्ष है और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ब्रह्म का लीलाक्षेत्र। साध्य का ज्ञान होने पर साधक साधनों की सहायता ले चल पड़ता है लेकिन कटकाकीर्ण मार्ग के दुर्लभ्य प्रदेशों को भूल कर, भव सागर की उत्ताल तरगों के थपेड़ों का अनुमान न कर। सम्भवत इसी लिए कि मानव सुख, प्रसन्नता और उन्नति चाहता है, अतः उसकी कल्पनाएँ सुखद आशाओं के सुन्दर प्रासादों का ही निर्माण कर पाती हैं, अलभ्य दुर्गम बन-खण्डों की नहीं। समुद्राभिसुखी प्रत्येक पहाड़ी भरने को न जाने कितनी चट्टानों को जहा देना पड़ता है, न जाने कितनी पर्वत शृंखलाओं से टक्कर लेनी पड़ती है, तब भी असख्य भरनों को रेगिस्तान आत्मसात् कर लेता है और उपयुक्त सम्बल पाने वाले कुछ थोड़े से ही समुद्र तक पहुँच पाते हैं—यही मानव की कहानी है। ठीक ऐसा ही उसके जीवन का भी मग है। भगवान् ने लीला रचाई है, उसने खेलना जो है। इसीलिये अपने और जीव में एक खाई रच दी है जिसे भरने में भी जीव प्रयत्नशील रहता है। लेकिन वह ऐसा होने देना नहीं चाहता, क्योंकि इस से खेल समाप्त हो जायेगा, इसीलिये उसने संसार की प्रवलतम शक्ति ‘माया’ को भेजा उस माया ने जीव और प्राणी मात्र की तो विसात ही क्या—

‘जोइ खसमु है जाइआ,’
और ‘पूति वापु खिलाइआ’ ।

उसने न केवल ‘ब्रह्मा विसनु महोदेउ छलिया’^२ अपितु देवताओं पर भी अपना प्रभाव जमाया, देवताओं की तो बात ही क्या उनके भी अधिष्ठित इन्हें को गौतम पत्नी श्रहित्या पर मोहित होते हुए देखो और इस से भी बढ़ कर स्वतः ब्रह्मा को भी अपनी पुत्री के पीछे भागते देखो, यह सारा ससार तो उसी की ठग विद्या का प्रसार मात्र है और ‘इह सपनी’ ऐसी है कि ‘खसमु मरै तउ न रोवै’ क्योंकि ‘उस रखवारा अउरो होवै’ वह तो ऐसी सुहागनी जगत पिंगारी है जो ‘सगले जिञ्च जन्त की नारी’ है।^३ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को मोहित करने वाली वह ‘नलनी सुयटा गहिओ,’ सेमर की उस नलिनी की तरह आकर्षक है जिसके बीच में तो रुई है पर बाह्य सौन्दर्य से उसने तोते को मोहित कर लिया है। सर्पिणी, डाकिनी, चोरटी, आदि न जाने उसके कितने विकृत रूप बुद्धिमानों ने देखे, सुने और अनुभव किए लेकिन फिर भी उसके जंजाल से न बच सके ‘माइआ के बेघे,’ देखने है तो ‘जल महि मीन, दीपक पतग, काम कुचर पखी मृग, और छीय जति सभी को देखिये, इतना ही नहीं ‘सागर इन्द्र भरतेव’ भी तो, माइआ के छेदे ही तो हैं योमियो के यहा माया जीव की सास बन गई है।^४ ज्ञानी, ध्यानियों को अपने अज्ञान

1. पृ. ११६४, ३।

2. पृ. ४८०, १६।

3. पृ. ८७६, ६।

4. पृ. ३२५, ५७।

5. पृ. ११६७, १३।

6. पृ. ४८२, २५।

के अंधकार में ऐसा लपेटा है कि उन्हें सत्य का कभी ज्ञान ही नहीं होने दिया ।⁷ और वह इन्द्रिय सुख को ही वास्तविक सुख समझ बैठे हैं । ‘थाके नैन स्वन सुनि थाके थाकी सुन्दरि काइआ’ लेकिन ‘एक न थाकसि माइआ’⁸ इसलिये जीव को सर्तक किया है कि उसमें लिप्त रह कर, ‘क्यों विरथा जन्म गवाइआ’⁹ यह माया ही है जो जीव को ज्ञान रहित करके ‘कनिक कामिनि लागि’ बना देनी है ।¹⁰ यह कचन और कामिनी ही तो ससार के सम्पूर्ण, आकर्षण, अवगुण तथा दुष्कर्मों के उत्पादक हैं । इन्हीं से काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है, जिनके भ्रम में फ़स कर मानव अपना अमूल्य जीवन गंवा बैठता है ।¹¹ कौनसा ऐसा अवगुण या दुष्कर्म है जो माया नहीं करवा देती ? कौनसा ऐसा प्राणी व स्थल है जो इससे प्रभावित नहीं, प्राणी मात्र के गले में उसने ‘तौक’ और पैरों में ऐसी बेड़ी डाल रक्खो है कि वह योनि भ्रमण के चक्र से कभी निकल ही नहीं पाता । और जगत पिअारी के चक्र में पड़े हुए को भगवत्प्रेम की सुध ही कहा । इसीलिये मायावी कभी सुखी नहीं रह पाता ।¹² भव-पार पहुँचने के लिये इस माया से क्लूटना आवश्यक है, लेकिन ‘बिनु बैरागु न क्लूटसि माया’¹³ पथ-प्रदर्शक गुह की कृपा से जीव उसके जाल से बच सकता है, अनहृद सुनने वाले योगियों के डर से वह दूर भागने लगी,¹⁴ संतो ने माया मटकी को मथ कर उसका सार ही निकाल डाला¹⁵ और स्वतः-

7. पृ. ६१, १ ।

8. ७६३, ४ ।

9. पृ. ४८२, २७ ।

10. पृ. ११०६, ११ ।

11. पृ. ३२५, ८ ।

12. पृ. ३३६, ३४ ।

13. पृ. ३३४, ५३ ।

14. पृ. ४०५ १८ ।

‘माखनु खाइआ’ तथा संसार बेचारा ‘छाहि पीए’। इस प्रकार सारे संसार को चुराने वाली ‘चोरटी माइआ’ से ‘एक कबीरा न मुझे’¹⁵ जिसने माइआ’ के भ्रम को ही समाप्त कर दिया है, बल्कि गुरु के डर के मारे बेचारी माया ने कबीर को ही प्रणाम किया।¹⁶

माया के प्रमुख अस्त्र है कचन और कामिनी। कचन चका चौंध कर देने वाली वह घन राशि है जिसके लोभ में जीव संसार का प्रत्येक कुकर्म करने को तैयार रहता है। उससे उत्पन्न अहकार मानव को दानव बनाने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं करता, लेकिन यह न भूलना चाहिए कि रावण की सुवर्ण लका को जलने में कितनी देर लगी थी।¹⁷ यही नहीं संसार की सम्पूर्ण सम्पत्ति कितनी अस्थिर अतः नश्वर है और जाते समय खाली हाथ ‘हसु इकेला जाइ।’¹⁸ और ‘मूरख रावनु किआ ले गइआ’ क्योंकि यहा तो प्राणी मात्र ने ही ‘नागे आवनु नागे जाना’ है।¹⁹ सासारिक सम्बन्धों की सत्यता में कामिनी मोह का वर्णन किया गया है, जीव तो क्या ब्रह्मा तक को विचलित कर देने वाली यह स्त्री का कामिनी रूप ही है। जिसे सतो ने और विशेषतः कबीर ने भर पेट कोसा है, क्योंकि यही सब दुरुर्णों की खान है। और प्रेम भी तो दो से नहीं किया जा सकता, कामिनी प्रेमी भगवत्प्रेमी नहीं

15. श्लोक २०।

16. ए ३२१, ४।

17. ष. ४८१, २।

18. ष. ४७७, ६।

19. ष. ११५७, २।

हो सक ता । क्योंकि भगवान् को तो अनन्य भक्त की आवश्यकता है न ।

‘नारि नमावै तीन गुन, जो नर पासै होए ।
भक्ति, मुक्ति निज ध्यान मे, पैठ सके नहीं कोए ।’

और मानव जीवन में शेष रह ही क्या जाता है । माया, कच्चन और कामिनी के आकर्षण से मन को विकृत कर देती है । विकृत मन इन्द्रियों पर नियन्त्रण न रख उन्हें विपथ गामी बनाता है इसका प्रधान आधार विषय और वासना ही हैं । अतः उनका विश्लेषण ही इस विषय पर समुचित प्रकाश डाल सकेगा ।

विषय—

‘बिखिआ अजहु सुरति सुख आसा ।’²⁰

जीव सांसारिक प्राणी है और उसे सासारिक विषयों में ही सुख की आशा है तो ‘कैसे होइ है राजा राम निवास’ सर्तंक जीव भी अनायास ही वासनाओं का शिकार हो जाता है । वासनाये मन को ऐसा पापी बनाती जाती है कि वह—

‘हरि का सिमरनु छाडि कै अहोई राखै नारि,
तो गधहि होइकै औतरै, भार सहै मनचारि ।’²¹

इतना ही नहीं ‘जब लग रसु तब लग नहीं नेह’²² विषय रस के होते हुए भगवत्प्रेम कंसा । इसी लिये तो कबीर ने माया और भक्ति दोनों पत्तियों को एक साथ घर मे रखने का दुस्साहस न किया था—और भक्ति को अपनाने से पहिले

20. पृ. ३३०, ३६ ।

21. श्लोक । १०८

22. पृ. ३२८, २३ ।

माया को तिलांजलि दी थी।²³ देश कान निरपेक्ष कबीर का अनुभूत सत्य कितना महान है हमें यह न भूल जाना चाहिये। और जो जीवन वासना का त्याग करदे 'मो गनै इन्द्र को रंग'²⁴ मृत्यु से डरने वाले जीव को कबीर ने और सतर्क किया—
कहुत कबोर छोड़ि बिसिआ रस इनु संगति निहचउ मरणा।²⁵

इन्द्रियाँ—

विषयों के उपभोग का साधन हैं, इन्द्रियाँ। जब तक इन पर नियन्त्रण न हो, तब तक जीव सत्कर्म में नहीं लग सकता—

'पच पहुँचा दर महि रहत तिन्ह का नहीं पति आरा।'²⁶

इनका विश्वास हो भी कैसे. जब वासना-लिप्त देह इनका आश्रय स्थल है, अतः ये पांच इन्द्रियाँ शरीर के पहरेदार न होकर माया के पांच दूरों का कार्य करती हैं।²⁷ मृगवत् चंचल ये ही देह की संचालिका शक्ति हैं, अतः इन्हें वश में करना आवश्यक है, अन्यथा विषवत् यह देह में फैल कर उस का ही नाश कर देंगी।²⁸ इन 'पंच चोर' को पकड़ कर जब नाम-जप में लगा दिया जायेगा तभी तो मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी।²⁹ अथवा जीव जब इनसे प्रभावित न होगा, तभी

23. पृ. ४८३, ३२।

24. श्लोक १६६।

25. पृ. ६१, १।

26. पृ. ३३६, ६३।

27 पृ. ३३१, ४०।

28. पृ. ३४५, ५।

29. पृ. ३४४, ३। Ram Krishna. 'Passions can't be eradicated, there can be sublimated or educated.'

उसका आध्यात्मिक जागरण होगा और 'तिन्ह ते नाहि परम पडु दूरे ।'³⁰

मन

'मनु जीते जगु जीतिआ ।'³¹

मध्यकालीन सून्तों में से क्रान्तिद्रष्टा कबीर ने ऐसा अनुभूत सूत्र जन-समाज को दिया, जिसे सम्भवतः जनता तो न अपना सकी, लेकिन जिस किसी भी बिरले ने अपनाया, वही महान् हो गया । बादशाह के मोदीखाने में आटा तोलने वाले ने 'मनि जीते जगु जीति'³² रूप में इसे अपनाया और वह गुरु नानक बन गया । कितना महान है यह सत्य । यह मन है कैसा ? 'इस मन कउ रूप न देखिया जाई, और रूप-रेखा हो भी कैसे सकती है ? जब कि 'इस मन कउ नहीं आवन जाना ।'³³ इसीलिए तो सनक, सनन्दन भी इसे न पहिचान सके ।

यह मन अति चंचल है, दसो दिशाओं में उड़ने वाला पखी भइया³⁴ और बिरख बसेरो वाला पंखी को³⁵ अतः अब चाहे जहाँ चला जाये । इसीलिए तो हाथी की तरह मस्त मन का 'संकुरा मुकति दुआरा' में प्रवेश कैसे हो यह शेर की भाँति सशक्त एव सबल भी है । सशक्त होते हुए भी यह चोरी करता है और 'देह गूह' को लूट ले जाता है ।³⁷ यह मन ही जब ससार में लिप्त रहता है

30. ४७८, ११ ।

31. पृ ११०३, २ ।

32 पृ. ६४०१, २८ ।

33. पृ. ३२०, ३६ ।

34. इब्बोक ८६ ।

35. पृ. ३३७, ६४ ।

36. इब्बोक ५८ ।

37. पृ. ११६३, ८ ।

तो वह दिन दूर नहीं जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा पर 'जमदीआ दमामा आई।'³⁸ इसलिए मन की चक्रता को दूर कर उसमें स्थिरता लानी पड़ेगी। और एक मन को मारने से ही सब दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जायेंगे। 'मारै एक तजि जाइ घनै' अत आडम्बरी संधुओं को सतर्क किया है कि सिर को न मूँड कर कलुषित मन को मूँड़ो (पवित्र करो) और योगियों को भी कहा है 'कृट न सोइ जउ मन कउ कूट,' क्योंकि शारीरिक साधनों से नहीं अपितु मन को नियन्त्रण में कर उसके विकार छुड़ाने से ही जीव यम ते कूट⁴⁰ और विषयों से बचने पर ही तो 'राम नाम लिव लागी'⁴¹ क्योंकि 'मन मारे बिनु भगति न होइ'⁴² और भक्ति बिना मुक्ति कहां ? निमाज्ञ पढ़ने वाले को नहीं, मन से लड़ने वाले को ही असली मुल्ला बताया है⁴³ और इस प्रकार मन से लड़ कर जिसने 'मन साधै सिदि होइ' अर्थात् जिसने मन को नियन्त्रित कर लिया, उसी ने सब सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं और यह सिद्ध मन ही तो 'इहुमनु सकति इहु मनु सीउ,' शिव और शक्ति के समान सशक्त हैं और जिसने ऐसे मन को प्राप्त कर लिया 'तउ तीनि लोक की बात कहै'⁴⁵ यह देख कर हो कबीर ने इस सब का निचोड़ अपनी वाणी में प्रगटाया था 'मनु जीतै जगु जीतिआ।'⁴⁶

38. श्लोक २२७।

39. षृ. ३४१, २१।

40. षृ. ८७२, १०।

41. षृ. ३३२, ४६।

42. षृ. ३२६, २८।

43. षृ. ११५६, ११।

44. षृ. ३४२, ३२।

45. षृ. ३४२, ३३।

46. षृ. ११०३, २।

अहंकार

‘मेरी मेरी करते जनमु गइया’⁴⁷ अहंकार की कहानी बस इतनो ही है लेकिन इतने में भी कुछ बाकी नहीं रह जाता और सारा जीवन समाप्त हो जाता है। जिसे ‘कुल की की आनि’ का घमण्ड है उसे शीघ्र ही यमराज मसानि ले जाता है।⁴⁸ जिसे सुन्दर देह का अभिमान है उसे कबीर ने ‘चाम लपेटे हाड़’ कह कर सतर्क किया है।⁴⁹ और ‘कनक कामिनी महासुन्दरी पेखि पेखि सचु मानि’⁵⁰ उस प्रकार जो अहंकार का शिकार हुआ है उसे सुवर्ण लका के मालिक रावण की दुर्दशा से परिचित करवाया है। यह अहंकार ही है जो विकसित प्रतिभा को भी विकृत प्रतिभा में परिणत कर देता है और शीघ्र ही मानव को विनाश के गर्त में पहुँचा देता है, वस्तुतः इस अहंकार की उत्पादिका माया ही है जिसने यह भ्रम उत्पन्न कर दिया है⁵¹ और उस भ्रम के कारण ही मानव गर्व करता है ‘रावण हु ते अधिक छत्रपति खिन में ही गये बिलात’⁵² इसीलिए कबीर ने कहा है ‘कहा नर गरबसि थोरी बात’।⁵³ इस अहंकार की उत्पादिका माया ही ‘लालच, भूठा विकार महामद’ आदि सम्पूर्ण दुर्गुणों के साथ साथ विवेक एवं ज्ञान भी नष्ट हो जाता है क्योंकि ‘अह बुद्धि मन जारिअओ रे’ इस माया के भ्रम में जिसका मेरी मेरी करते ‘जन्म गइओ वह

47. पृ. ४७६, १५।

48. इष्टोक १६६।

49. इष्टोक ३७।

50. पृ. ११२४, ५।

51. पृ. ८५७, ६।

52. पृ. १२५१, १।

53. पृ. ४७६, १५।

(११३.)

अज्ञानी अहंकारी जीव स्त्रिमहि विनसि ज्याइ ।⁵⁴ अभिमानी को ऊचे, ऊडे, उस बांस की तरह बताया जो पाश्वर्ववर्ती चन्द्रन की सुगन्ध को अदृष्ट नहीं करता ।⁵⁵ इसके लिये उपयुक्त साक्षन भी बताया है । “काम करत वधै अहमेव”⁵⁶ और न केवल ‘तजि मन का अभिमान’ पथ के ऐसे दोडे बनो, जो पथिक को छुमे, अपितु इतने लम्बे भी बनो ‘जिउ भरनि महि खेह’,⁵⁷ और आत्म समर्पण के लिए तो इस अह का नितान्त विसर्जन आवश्यक है क्योंकि—

मैं नाहि कछु आहि न मोरा,
तनु घनु समु रसु गोविन्द तेरा ।⁵⁸

इस अह के नष्ट होने पर ही भगवूं कृपा होगी और तभी जीव ‘खसमु पद्धानि’ सकेगा⁵⁹ और उससे मिलने का प्रयत्न करेगा ।

है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार ही तो मानव को पथ अष्ट कर देते हैं। और इसलिये शीघ्र ही उन्हें काल का ग्रास बनना पड़ता है। ‘पाप करता मरि गइआ’ और सत्कर्मों के बिना दुष्कर्मों से जीवन का भार बढ़ता जाता है और यह पुलन्दा इतना भारी हो जाता है कि मानव भवसागर के पार नहीं पहुँच पाता। इस प्रकार दुष्कर्म एवं दुर्गुण ही मानव के जीवन के लिये ग्राह के समान हैं।

दुस्सगति

‘मूरख सिउ बोले फखभारि ।

क्योंकि— ‘बोलत बोलत बढ़ै विकारा’

इसलिए भलाई इसी मे है, कि—“मिलै असन्तु मसटि करि रहिए” विद्वानों ने सम्भवतः इसीलिए कहा है कि मूर्खों अथवा दुष्ट जनों से न मित्रता रखे और न बैर ही। क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में अनिष्ट की सम्भावना है। ‘बासनु कारो परसिए तउ कच्चु लागै दागु’⁶² और इतना ही नहीं उसके पास रहकर के तो जीव की अवस्था बेर के पास रहने वाले केले जैसी होगी, ‘उह भूलै उह चीरिए’⁶³ ठीक उसी प्रकार दुस्सगति को चाहने वाले सत्संगति से ऐसे ही दूर भागते हैं जैसे ‘माखि चन्दन पर हरै, जह बिगन्ध तह जाइ’।⁶⁴ उस प्रकार दुस्संगति वह सत्त्वातावरण ही नहीं बनने देती जिसमें रह कर जीव ब्रह्मोन्मुख हो सके।

60. इलोक २२१ ।

61. षृ. ८७०, १ ।

62. श्लोक १३१ ।

63. इलोक ८८ ।

64. इलोक ६८ ।

(११५)

ब्राह्मणवर

“माथे तिलकु हथि माला बाना ।
लोगन रामु खिलौना जाना ॥”⁶⁵

कबीर ने तत्कालीन समाज के धार्मिक लोगों में पोथी-धारि पण्डे, पुराण पाठी पंडित, माला पहिने ब्राह्मण, तिलक धारी ब्राह्मण, वेद-पाठी विद्वान, धूल रामाये जोगी, गेरुए पहिने सन्यासी, नगे साधु, धोखेबाज तांत्रिक, कपटी पुजारी, बांग देते मुल्ला, कुरान की आयते पढ़ते मौलवी, मुर्गी मारते काजी। तथा हज से भी लौट कर पाप करते हाजी को देखा था। उसकी प्रदीप्त अन्तः चक्षुओं ने समाज के रूप को ठीक से पहिचाना था, इसी कारण निडर होकर के उन्होंने आत्मा की पुकार को सत्य की ऐसी कसौटी बनाया, जिस पर समाज के इन सब धर्म के ठेकेदारों को परखा जा सके। उसने हाथ में डाक्टर का वह नश्तर लिया जिससे वह देह के गले सड़े भाग को काटता गया और स्वयं ही महरम पट्टी भी करता गया, ताकि समाज की देह नष्ट न होकर स्वस्थ व हृष्ट पुष्ट हो जावे। इसी लिये उसने जिस पण्डे को भटकारा उसे अपनी ओर अनुरक्त भी किया, जिस पंडित को फटकारा उसे नया पाठ भी पढ़ाया, जिस ब्राह्मण के दुर दुराया उसे निर्मल भी कर दिया, जिस वेद पाठी को लांडा उसे ऊपर भी उठाया, जिस पुजारी को धिक्कारा उसे धन्य भी कर दिया, जिस योगी को दुतकारा उसे पुचकारा भी, जिस तीर्थ यात्री को पुचकारा उसे दुलराया भी, जिस मुल्ला को डांटा उसे नया नूर भी दिखाया, जिस

(११६)

मौलवी को डपटा उसे नया सेबक भी सिखाया, जिस काजी को घुड़का 'उसकी अकर्लं दुरस्त कर दी, जिसे हाजी को मिडका उसको सीधा रास्ता दिखाया इसे प्रकार पथ-भ्रष्ट जन-साधारण को सुर्यथ परं चलाया और समाज द्वारा ढुकराये हुरिजनों को नले लगाया। इन कार्यों से ही कबीरा कबीर ('महान) हो गया अतः उसके व्यक्तित्व के निर्माण में जहाँ इन बाह्याचारों के विरोध का विशेष महत्व है वहाँ वेश की तद्कालीन, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं से टक्कर लेकर अदम्य उद्दाहरण एवं साहस से उसका विरोध करते हुए नवीन समाज के निर्माण का क्षेत्र भी उसी को प्राप्त है। उसने बहती हवा के स्फूर्ति रसीना करके न केवल उसके वेग को ही सहा था अपितु उस दिशा में आगे भी बढ़ा था। महापुरुष का यही लक्षण है, कि वह स्वतः परिस्थितियों के अनुकूल न ढ़ल कर परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालता चले, और कबीर ने यही किया। नीचे लिखी पक्षियों में इसी का विवरण मिलेगा।

पूर्णा

‘जो पाथर को कहते देव।
ताकि विरथा होवै सेव ॥’

इसीलिए उसने पर्थर पूजा का विरोध किया है क्योंकि उससे तत्कालीन समाज विछृत हो रहा था; अंधौरिश्वास ही ही ऐसा। अतः उसने कहा है—

‘तोरउ न पाती पूजउ न देवा ॥’

क्योंकि उसने स्वतं भी तो 'तीस बरस कच्छु देव न पूजा'^३ और पूजता मो क्यों ? 'प्राक्षान गढ़ कै मूरति कीन्ही दे कै छाती पाउ'।^४ फिर भी उसके प्रति श्रद्धा कैसे बाँकी रह जाती, और यदि 'जे एह मूरति सार्चा है तौ गढनहारो खाउ'^५ और उस ने कहा था 'न पाथरु बोलै न कच्छु देइ'^६ इसलिये उसकी पूजा बेकार है । पूजा के लिये 'भुलो मालनी' पत्ते तोड़ती हैं, उसे कहा है कि^७ पत्ते तो चेतन पौधे के अग है, पर जिसकी पूजा^८ के लिये तुम इन्हें तोड़ रही हो 'सो पाहन निरजीउ'।^९ वह ब्रह्म जिसकी पूजा के लिये यह सब आड़स्वर है, सबत्र ही विद्यमान और 'स्वप्न रंग रेख' रहित है । लेकिन ससार ने तो 'पाहन परमेश्वर कीअ' और उंसी को 'पूजै सभु ससार'।^{१०} यदि परमेश्वर कही न मिले तो पूजारियों के लिये उसे प्राप्त करना भी बड़ा आसान है और धनवानों के यहां तो भगवानों के ही ढेर लग जावे, क्योंकि वह तो, 'ठाकुर पूजहि मौलि ले,'^{११} कितना सस्ता है भगवान् । लेकिन कबीर का भगवान तो इनसे भी सस्ता है । उसके लिये तो —

'ब्रह्मु पाती विसनु डारी फूल संकर देउ ।

तीनि देव प्रतिथि तोरहि करहि किसकी सेउ ॥'^{१२}

हे जीव ससार के सभी देव तो सर्वत्र विद्यमान है मात्र उनको पहिचानने के लिये प्रज्ञाचक्षु अपेक्षित है । इस प्रकार

३. पृ ४७६, १५ ।

4, 5 पृ ४७६, १४ ।

6 पृ ११६०, १२ ।

7 पृ ४७६, १४ ।

8. श्लोक १३६ ।

9 श्लोक १३५ ।

10. ४७६, १४ ।

पत्थर पूजा, तथा मूर्ति पूजा के साथ २ बहुदेवोपासना का भी विरोध करते हुए जीव को सर्तक किया है कि 'तू क्यो व्यर्थ ही 'देवी देवा पूजाहि डोलहि'।¹¹ लेकिन भ्रमण शील जीव का 'मन बउरा रे', जो, 'पूजन कउ बहु देव'¹² अन्यान्य तीर्थ स्थानों में उसे घुमाये लिये जाता है। जब कबीर पर कोई विश्वास नहीं करता तब वह पूजने वालों को कह देता है 'व्रत पूजि पूजि हिन्दु मूए,'¹³ लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। इसलिये, उसने तो एक मात्र, 'निरंकार निरबानी' ब्रह्म की उपासना का सदेश दिया।¹⁴ क्योंकि—

जो हरि सा हीरा छाड़ि के, करहि आन की आस।
ते नर दोजक जाहिगे सति भाखै रविदास॥¹⁵

स्नान

सधिआ प्रात इस्नानु कराही।

जिउ भए दादुर पानी माही॥¹⁶

सामान्य स्नान की तो बात ही 'छोडे यदि 'अतरि मैलु' है तब तो मेढ़क के समान, चाहे 'तीरथ नावै तिसु बैकुण्ठ न जाना'।¹⁷ न केवल 'बहु तीरथ भ्रमना'¹⁸ व्यर्थ है अपितु जो 'हठ तीरथ जाहि'¹⁹ तथा 'गगा तीरु जो घर करहि' और 'पीवहि निर्मलु नीरु',²⁰ यह सब बाह्याचार भी बैकुण्ठ नहीं

11. पृ. ३३२, ४५।

12. पृ. ३२५, ५७।

13. पृ. ६५४, १।

14. पृ. १३५०, ५।

15. श्लोक २४२।

16. पृ. ३२४, ५।

17. पृ. ४८४, ३७।

18. पृ. ४७६, ५।

19. श्लोक १३५।

20. श्लोक ५४।

(११६)

पहुँचा सकते । तीर्थ यात्रा, तीर्थ निवास, तीर्थ स्नान और तीर्थ मरण यदि बेकार न होते, तो काशी 'निवासी पण्डितों' का विरोध करने के लिये कबीर काशी छोड़ कर मगहर वयो जाते । उन्होंने यह सन्देश ही नहीं दिया अपितु 'सगल जनमु शिवपुरी' गवाने वाला जुलाहा सचमुच ही मरती बार 'मगहरि उठि आइआ' था²¹। यदि अब भी कबीर के धर्म को नकद धर्म न कहा जाये तो क्या कहा जाये, उन्होंने स्वतः कहा है—

बहुत बरस तपु कोआ कासी ।
मरनु भइया मगहर की वासी ।
कासी मगहर सम बीचारी ।
ओछी भगति कैसे उतरसि पारी ॥²²

यह काशी और मगहर नहीं है जो मनुष्य को स्वर्ग अथवा-गर्दभ योनि देते हैं यह तो भक्ति ही है । यदि भगति ओछी होगी, तो वह भव-पार नहीं पहुँचा सकती ।

व्रत

भाग, मछली खाने वाले यदि व्रत रख कर बैकुण्ठ जाना चाहें तो वह बैकुण्ठ न जाकर 'रसातल जाहि' क्योंकि सत्कर्म किये बिना दिखावटी जप, तप के साथ 'किआ वरतु किआ इसनानु'²³ इनका भी कोई मूल्य नहीं । ब्राह्मणों के चौबीस उपवास और काजियों के महीने भर के रोजे क्या उन्हें भव-पार पहुँचा सकते हैं ?²⁴ कभी भी नहीं उन्होंने न केवल व्रत,

21. पृ. ३२६, १५ ।

23 पृ. ३३७, ६३ ।

22. पृ. ३२६, १५ ।

24. पृ. १३४६, २ ।

(१२०)

उपवास व रोजे का विरोध किया है अपितु मृतक पिण्ड और श्राद्ध की तो साविस्तार दुगति दर्शाते हुए कहा है-

‘जीवत पितर न माने कोउ,
मूण् सरध्व करमहि ।’²⁵

तथा कुछ भोजन जिसे उनके लिए अलग से डाल देते हैं, उसे ‘कउआ कूकर खाही’ इतना ही नहीं अपने बिट्ठी के देवी देवता के सम्मुख ‘जाउ हेडँ जीवो की भी बलि चढ़ा देते हैं ।²⁶ इस प्रकार उन्होंने दृढ़ शब्दों में ब्रत, उपवास रोज़, श्राद्ध, मृतक पिण्ड तथा बलि चढ़ाने का विरोध किया है और मानव को आन्तरिक दृष्टि से सदाचारी होने का सन्देश दिया है ।

‘जपनी’ काठ की किंगड़ा दिखावहि लोइ’²⁷ न केवल काठ की माला का अपितु माथे तिलक²⁸ का भी उन्होंने विरोध किया है क्योंकि

‘डण्डा, मुदरा, खिथा आधारी ।

अम के भाइ भवै बैख धारी ।’²⁹

घूल रमाये हुए साधुओं के छापा, तिलक, त्रिपुण्ड, कण्ठमाला, डण्डा, मुद्रा, श्रुगी सभी बाह्य भेषों का उन्होंने विरोध किया है । क्योंकि ‘गृह तजि वन खण्ड जाइए’ ऐसे पापी साधुओं ने ‘अजहु विकार त, छोड़ा, क्योंकि उनका ‘मनु मृदा’ है ।³⁰ इसी लिये तो चाहे उन्होंने जटा भस्म लेपन किया

25. पृ. ३३२, ४५ ।

26. पृ. ३३२, ४५ ।

27. इलोक ७५ ।

28. पृ. ११५८, ६ ।

29. पृ. ८५६, ८ ।

30. ८५५, ३ ।

और 'गुफा महि वासु किया'³¹ लेकिन यह सब बेकार हैं। आडम्बरी होने के कारण उन्होने अपना नाम 'जम के पटै लिखाइआ' ³² क्योंकि जब तक 'भगति नारदी रिदै न आई' तब तक यह सब पहरावा और बाह्यावरण व्यर्थ है। कबीर के तिलमिला देने वाले व्यग, जब लौकिक जीवन से ग्रहण किये गये हैं तब बहुत प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए हैं।

मूँड मुडाएं जो मिद्धि पाइ ।
मुक्ति भेड न गइआ काइ ॥³³

और नगे रहने से ही यदि मोक्ष मिलता है तो सभी पशु उसके अवश्य अधिकारी हैं।

शारीरिक कष्ट साध्य साधनाओं से अथवा तन्त्र-मन्त्र से मन को वश मे करने वालों का भी उन्होने विरोध किया है। सिमरण का महत्व बताते हुए उन्होने कहा, 'तिस के आगे तन्तु न मन्तु'³⁴ इल प्रकार सिर मुँडा कर अथवा जटा रख कर, नगे रह कर या अधिक वस्त्र पहन कर, भस्म लगा कर या धूलि रमाकर, छापा छाप कर या तिलक धारण कर, कण्ठमाला पहिन कर या माला फेर कर, जप-तप से शरीर को जला कर या कठोर कर, कन्द-मूल खाकर अथवा उपवास कर विन्दु रक्षा कर, या आबद्ध कर, गुफा को घर बना कर या आश्रय स्थल समझ कर मृगचरों को साथी जान कर अथवा पशुमात्र समझ कर वन को ही आवास बनाकर या साधना स्थल समझ कर जिन साधुओं और योगियों ने मोक्ष प्राप्ति

31 पृ. ११०३, २।

32. पृ ६५४, ३।

33. पृ. ३२४, ४।

34. पृ ६७१, ६।

(१२२)

का प्रयत्न किया था । उन्हें कबीर ने सतकं किया 'भावे लाभ्वे
केस कर, भावे धररि मुडाइ ।'³⁵ इतना ही नहीं,

कबीर मनु मूडिया नहीं, केस मुँडाए काइ ।

जो किछु किआ सो मन किया, मु डा मु डु अजाय ।³⁶
और ऐसे ही बाह्याङ्गम्बरियों के क्रिया कलापों को देख कर
कबीर की आत्मा को जो ठेस पहुँची थी । उसी का कन्दन इस
पद में देखने को मिलता है,

वासन मांजि चरावहि ऊपरि काठि धोइ जलावहि ।³⁷

इतनी पवित्रता में भोजन बनाने वाले 'सारे मानस
खावहि' मनुष्य को हा खा जाते हैं । यह देख कर ही कबीर
ने उन्हे 'हरि के सन्त न कह कर 'बनारसी के ठग कहा है ।³⁸
इसके अतिरिक्त उसने बनारस में 'मूँड पलोसि कमर बधि
पोथी'³⁹ ऐसे ब्राह्मण भी देखे थे । सक्षेपतः उसने आडम्बर का
ऐसा विरोध किया था जिससे कोई आठम्बरी न बच सका,
जहा 'बुत पूजि पूजि हिन्दू मूए' वहा 'तुरक मुए सिर नाइ'
'जटा धारि धारि जोगी मूए तथा 'वेद पढ़े पढ़ि पण्डित मूए'
लेकिन 'तेरी गति इनहि न पाई'⁴⁰ । मूल बात यही है कि जब
तक 'विखिआ ते होइ उदास,' जीव ने अपना मन निर्मल
नहीं कर लिया तब तक इन आचारों और आडम्बरों का
कोई मूल्य नहीं, उसने अपने युग के पचमकार सेवी शाक्त
को भी सतकं किया था क्योंकि भक्ति के बिना 'साक्त कारी

35. श्लोक २५ ।

36. श्लोक १०१ ।

37. पृ. ४७५, २ ।

38. पृ. ४७५, २ ।

39. पृ. ८७१, ६ ।

40. पृ. ६५४, १

(१२३)

कामरी धोए होइ न संतु'⁴¹ कबीर ने केवल हिन्दुओं के आड़-म्बरों का ही विरोध किया हो ऐसी बात नहीं, निर्भीक उसने, मुसलमानों को आड़े हाथों लिया था। क्योंकि उनका सन्देश किसी मत सम्प्रदाय, धर्म या जाति सीमाओं में बढ़ न था। वह तो मानवमात्र के लिए दिव्य सन्देश था।

कबीर मुला मुनारे किआ चढ़हि साई न बहरा होइ ।
जा कारनि तू वांग देहि दिल ही भीतरि जाइ ॥⁴²

वांग देने वाले मुल्ला को चेताया कि उसका खुदा न तो बहरा है और न दूर ही है। नमाज पढ़ते जाते हुए 'किआ उजु पाकु कीआ मुह धोइआ'⁴³ वांग को सुन कर 'वजु' (नमाज से पहिले हाथ मु ह आदि धोना) करके तुम अपने को पवित्र समझते हो लेकिन जब तरु 'दिल महि कपटु निवाज गुजारै'⁴⁴ तब तक बहिश्त नहीं पहुँच सकते इस बात को न भूलो। तसवीह (माला) तथा इबादत प्रार्थना के चक्कर में पड़े हुए मौलवी को भी विकारा है क्योंकि यहां तो पवित्र भाव-नामों का ही महत्व है और फिर 'काजी महरम जाना'⁴⁵ कह कर रमजान के महीने में 'रोजा रखने का भी विरोध किया है क्योंकि वह 'रोजा घरै मनावै अलहु सुआदति जीव संघारै'⁴⁶ क्योंकि उसके 'दिल महि कपटु है'⁴⁷। इसी लिये तो रोजा रखने वाला वह स्वाद के लिए जीव का संहार कर

41. श्लोक १०० ।

4. श्लोक १८४ ।

43 पृ. १३५०, ४ ।

44 पृ. ११५८, ४

45 पृ. १३४६, २ ।

46 पृ. ४८३, २६ ।

47. पृ. १३५०, ४ ।

(१२४)

लेता है। खुदा को सर्व व्यापक समझने वाले मुला से कबीर ने यह भी पूछा है, 'किउ मुरगी मारै' लेकिन इस 'हलालु' का उसके पास कोई उत्तर नहीं। 'पछिमि अलह मुकामा, समझ कर हज पर जाने वाले काजी को भी उसने बताया है कि, 'दिल महि खोजि—एहि ठउर मुकामा'⁴⁸ और इस लिए उसने घोषणा की है—

मनु करि मका किवला करि देहि ।
बोलन हाह परम गुरु ऐही ॥
कहु रे मुल्ला वाग निवाज ।
एक मसीति दसै दरवाज ॥⁴⁹

मन को मक्का बना कर देह को पश्चिम दिशा बनाओ और तब देह रूपी मस्जिद के दसो द्वारो से वाग देकर नमाज पढो। तब कही उसे दिल मे पा सकोगे। उसने कुरान पढ़ने को भी तब तक बेकार बताया है जब तक उसकी, 'दिल महि खबरि न होइ,⁵⁰। इस प्रकार जहाँ कबीर ने नमाज करवाने वाले मुल्ला को वांग, वजु, नमाज तथा मस्जिद की सच्चाई से परिचित करवाया वहाँ तथाकथित धार्मिक मौलवी को कुरान की आयतों पर विचार करने के लिए प्रेरित भी किया। इतना ही नहीं धर्माधिकारी शेख को तसवीह और इबादत का महत्व समझाते हुए हज के असली रूप के दर्शन भो करवाये। रोजे के बाद कुरबानो से पेट भरने वाले मुर्गी मार न्यायाधिकारी काजी को न्याय का सबक

48. पृ. १३४६, २।

49. पृ. ११५८, ४।

50. पृ. ४८३, २।

सिखाया तथा अन्त मे हज से लौटते हुए निराश हाजी को सच्ची हज को सच्ची हज का राह दिखाया। इस प्रकार हिन्दु और मुसलमान का भेद भाव मिटाते हुए दोनों के खोखले बाह्याचारों आडम्बरों से उन्हे परिचत करवाया। सामाजिक क्षेत्र मे उन्होंने ज्ञातछात का विरोध कर मूलनीय धरातल पर एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था। धर्म. जाति, लिंग और देश के आधार पर मानवीय विभाजन को अनुचित बताया था। क्योंकि—

गरभवास महि कुलु नहीं जाती ।

ब्रह्म बिन्दु से सभु उतपाती ॥⁵¹

न मानने वाले मुल्ला को फटकारते हुए उसने पूछा था कि यदि खुदा ने तुझे तुर्क बनाया है तो तू क्यों बलपूर्वक सुन्नत करता है⁵²। यह कार्य भी वह स्वतः ही करेगा, मुल्ला की भुकी हुई गर्दन देख कर कबीर ने चुटकी ली—

सुनति कीए तुरकु जे होइगा,

अउरत का किआ करी ऐ ।

अरध सरीरी नारि न छोड़ै,

ताते हिन्दु रहीऐ ॥⁵³

मुल्ला तो बचारा आधा हिन्दु बन गया लेकिन इतने मे ब्राह्मण 'ज्ञानलव दुर्विदर्घ' हो गया। कबीर ने भाडते हुये उसे भी ललकारा— तुम कत ब्रह्मन हम कत सूद !' वह मौन था कबीर ने अमोघ प्रहार किया—

51. पृ. ३२४, ७ ।

52. पृ. ४७७, ८ ।

53. पृ. ४७७, ८ ।

(१२६)

जो तू ब्राह्मणु ब्रह्मणी जाइया
तौ आन बाट काहै नहीं अइआ ॥⁵⁴

कबीर का तर्क ज्ञान का तर्क नहीं था । वह तो अनुभूति का सत्य था । दोनों के पास उसका कोई उत्तर न था । अतः दोनों की ही कबीर ने समझाया कि 'मत हरि पूछै कउन है मेरे जाति न नाउ' ⁵⁵ भगवान् ने भक्त की जति तो क्या नाम तक भी कभी नहीं पूछा । इसीलिए तो वह कहता है कि:—

हमरा भगडा रहा न कोउ ।
पण्डित मुल्ला छांडे दोउ ॥⁵⁶

इस प्रकार सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए छूत-छात, जात-पात तथा कर्म व्यवसाय के सभी भेदों को दूर कर भगवान् के दरबार में प्रत्येक मानव की एक ही जाति का सन्देश दिया । एक ही धर्म मानव धर्म का प्रसार किया, एक ही ब्रह्म, एक मात्र पूर्ण सत्य ब्रह्म का बोध कराया । एक ही माग, अनवरत, अनन्य तल्लीनता का भवित मार्ग सुझाया । कौन जानता है गुरु नानक ने कितने तत्व यहीं से संगृहीत किये थे ? कौन जानता है अकबर का दीन इलाही इसी का अस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र था ? कौन जानता है रवीन्द्र के अथाह रहस्यवाद की थाह अबोध कबीर के शब्दों में ही छिपो हुई थी ? कौन जानता है गाधी के हिन्दू-मुस्लिम के ऐक्य की भावना का आदि स्रोत कबीर के ही कुछ पद हैं ।

54 पृ. ३२४, ७ ।

55. श्लोक ६० ।

56. पृ. ११५८, ७ ।

और कौन जानता है अरविन्द के आनन्दमय निष्काम कर्मण्य-जीवन के मूल आध्यात्मिक तन्तु जुलाहे के सूत से ही एकत्र किये गये हैं इसी लिये कबीर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अमर हो गये हैं ।

कबीर की भर्तरी में जितनी प्रचृष्टता है, उसकी डांट में जितनी तीव्रता है, उसके व्यग में जितनी मुस्कराहट है, उसके वर्णन में जितनी सजीवता है, उसके कथन में जितनी सादगी है, उसके सन्देश में जितनी गहराई है, उसके शब्द में जितनी मर्म स्पर्शिता है, उसके काव्य में जितना रस है, उतनी ही उसकी अभिव्यक्ति में अनुभूति है । यही कारण है कि आडम्बर भरे सम्पूर्ण जगत के विरोधी कबीर का विरोध करके भी कुछ न कर सके । राज्य शासक उसे मार कर भी मार न सके, समाज उसका बहिष्कार करके भी उसे छोड न सका, रामानन्द उसे ठोकूर लगा कर भी ढुकरा न सके, लेकिन दुःख की बात यह है कि हिन्दू तथा मुसलमान उसे अपना कह कर भी अपना न सके । सम्भवतः प्रत्येक दिव्यात्मा का ऐसा ही अन्त होता है और कबीर भी उसके अपवाद न थे ।



संतों की मामान्य मान्यता एँ

लौकिक एव पारलौकिक जीवन मे ग्रद्भुत सनुलन और समन्वय स्थापित कर गौरव-मय व्यक्तिक जीवन व्यतात करने वाले सन्तों ने समय समय पर समाज का पथ-प्रदर्शन कर युग-नेता का रूप ग्रहण किया है। वस्तुत सन्त कोई व्यक्ति विशेष न होकर भावना-विशेष है, जिनका प्रसार अन्यान्य युगो में विभिन्न व्यक्तियो के माध्यम से हुया है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जावे, तो पता चलता है, कि इस भावना-विशेष के मूल तत्वो मे प्राय परिवर्तन नही होता। युग की आवश्यकता और व्यक्ति की रुचि तथा न्सामर्थ्य के अनुरूप इन तत्वो के अनुपात और क्रियात्मक प्रसार मे थोड़ा बहुत अन्तर आता रहता है, पर इससे मूल भावना मे कोई विशेष अन्तर नही आता। भारतीय मध्य-युग के इतिहास को सार्थक बनाने के लिए ही मानो इस भावना का यहा विकास हुआ—जो कबीर जैसा सशक्त व्यक्तित्व पाकर अपने प्रौढ रूप मे प्रतिफलित हुई।

पैतृक सम्पदा में प्राप्त आर्थिक दरिद्रता और नैतिक समृद्धि संतों के जीवन का सबसे बड़ा आभूषण रहा है। उनके जीवन की कर्मण्यता इस आर्थिक दरिद्रता का ही वरदान है और आन्तरिक गुणो के विकास के कारण प्रखर व्यक्तित्व इस नैतिक समृद्धि की ही देन है। समाज के तथा-कथित

निम्न-वर्ग से उद्भूत इन सतो को समाज ने ठुकराने का दुस्साहस एकत्रित किया, लेकिन कौन जानता था, कि यह दुस्साहस सतो को ही वह अदम्य शक्ति प्रदान करेगा, कि वे इस आडम्बर-पूर्ण समाज को ही ठुकरा कर अपने पीछे लगा लेंगे। समाज के इस दुस्साहस ने उन्हें द्रन कर खड़े होने की शक्ति प्रदान की। उन्हें अपनी शवित, सामर्थ्य और मान्यताओं पर जो विश्वास था, वह और भी दृढ़ हो गया। इस आत्मनिष्ठा और आत्म-विश्वास के बल पर वे न केवल स्वयं ही खड़े हुए, अपितु समाज के कुछ व्यक्तियों को भी उन्होंने अपने साथ खड़े पाया। यह उनकी सफलता का पहला चिह्न था। धीरे समाज उनकी पुकार मुनने पर विवश हो गया, फक्कड मस्ती में कही गई कई बातों ने समाज को अनायास ही प्रभावित करना आरम्भ किया, क्योंकि उनके यथार्थ-चित्रण में सत्य का बल था, जिसकी बहुत देर तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार सत-भावना, जो अब तक व्यक्ति के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती थी, अब अविच्छिन्न धारा के रूप में सामाजिक परम्परा ही बन गई। मध्य-युगीन भारतीय समाज को इन सतो की यह सबसे बड़ी देन है। यह अविच्छिन्न सामाजिक परम्परा ही सतो की सामान्य मान्यताओं की साधन-भूमि है। एक परम्परा में चली आने वाली मान्यताओं में कोई परिवर्तन न हुआ हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस परिवर्तन का सम्बन्ध उनके मूल-तत्त्वों से न होकर उनकी अभिव्यक्ति या उनके बाह्य आवरण-मात्र से ही अधिक है इस प्रकार कबीर से कुछ पहले से ही सत किचाराधारा के जो तत्त्व विकसित हो रहे थे, वे न केवल कबीर में पूर्णतया विकसित और सम्बद्ध

होकर प्रकट हुए, अपितु देर तक समाज को प्रभावत करने वाली सशक्त विचारधारा के रूप में तब से उसकी ग्रविड्डिन परम्परा भी प्रवाहित हो चली जो आज तक इस देश में उसी तरह जीवित और जागत है। सच पूछा जावे, तो र मकुण्ठ परमहस, विवेकानन्द, महात्मा गांधी, श्री अरविन्द तथा विनोबा भावे उसी परम्परा के आधुनिकतम फल हैं।

ज्ञतो का समष्टिगत व्यक्तित्व इन सामान्य मान्यताओं की आधार-भूमि है। लौकिक तथा पारलौकिक जीवन की साधना उन्होंने एक ही व्यवित्त्व के माध्यम से की है। सासारिक विषमताओं से घबराकर वे जगल में भाग कर ब्रह्म की साधना करने नहीं चले गए, बल्कि कर्मण्य जीवन बिता कर उनसे जूझ पड़े, इस प्रकार लौकिक उलझनों को क्रियात्मक जीवन के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न किया। और इस क्रियात्मक कर्मण्य जीवन के माध्यम से अनायास ही उनकी परलोक की साधना भी होती रही। वे न कभी मदिर गए, न मूर्ति-पूजा की। व्रत, तीर्थ, स्नान, उपवास और माला फेरने से भी वे कोसों दूर रहे, फिर भी इस प्रकार के आचार-प्रधान ब्राह्मणों से वे कहीं अधिक धार्मिक बने रहे। इन ब्राह्मणों ने पार्थिव और पारलौकिक जगत में समाज के लिए जो खाई पाट रख्ते थे, वैयक्तिक विचार और आचार से इन्होंने न केवल उसे भर दिया, अपितु जन-मानस के लिये प्रशस्त राज-पथ का भी निर्माण कर दिया। इस प्रकार वैयक्तिक स्वस्थ आचरणगत जीवन इनको सामान्य मान्यताओं का सबसे सशक्त आधार है।

समाज की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व सास्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं का उन्होंने वैयक्तिक जीवन के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उचित साधन और सत्य साध्य पर विश्वास ने उन्हें जो अन्तरिक शक्ति प्रदान की थी, उसी के बल पर वे इन समस्याओं से घबराए नहीं। यह ठीक है, कि वैयक्तिक सामर्थ्य की सीमाओं के कारण वे इस में से बहुत कम समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके, लेकिन अधिक महत्व-पूर्ण यह है, कि ये विषमताएँ उनके व्यक्तित्व को विश्रृखलित न कर सकी और वे सदा इनसे जूझते ही रहे—भागे कभी नहीं और इसी लिए हारे भी कभी नहीं। धार्मिक आडम्बरों और आवरणों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। (सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया और यथा-सम्भव उन पर भी कुठाराधात किया।) राजनैतिक अत्याचारों से जूझते २ उन्होंने सिर तक रटा दिया, पर उमे भुकने नहीं दिया—यह क्या कम है। और आर्थिक दरिद्रता से अपने को उभारने के लिये कोई जीवन-भर कपड़ा बुनता रहा, तो वोई जूतिया ही गाठता रहा—यह उनके जीवन की महानता नहीं तो और क्या है। कुल मिलाकर समाज की किसी भी शक्ति के प्रहार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विघटित नहीं होने दिया यही उनकी सफलता का रहस्य है। इसीलिए वे सत-व्यक्तित्व की परम्परा में संत-भावना की ज्योति को जीवित और जागृत रख सके। जीवन की सभी समस्याओं के प्रति उनकी यह सतुलित दृष्टि उनके सुरक्षित व्यक्तित्व की परम्परा को बनाए रख सकी।

इसी व्यक्तित्व के कारण उनकी जीवन और जगत् के प्रति विशेष दृष्टि विकसित हुई। विश्व की चतुर्दिक् समृद्धि और उसकी सामग्री उनके जीवन-यापन में साधन से अधिक कोई स्थान न ग्रहण कर सकी। उनका लक्ष्य सदा ही इससे भिन्न रहा। इसीलिए उनमें कभी ईर्ष्या न हुई और उस साध्य की ओर बढ़ते हुए भी वे सब इकट्ठे ही रहे। अलौकिक साध्य को स्वीकार करने के कारण उनके जीवन-दर्शन में एक रूपता के साथ २ स्थायित्व भी बना रहा। वस्तुतः जीवन-दर्शन में इस समता ने ही संत-भावना की नीव को ढूढ़ता और स्थिरता प्रदान की।

वैयक्तिक जीवन में सभी संतो ने अनुभूति का महत्व स्वीकार किया है। और इसी आधार पर उन्होंने क्रियात्मक जीवन बिताया है। यह अनुभूति ही उनके धर्म की आधार भूमि थी। इसीलिए सामाजिक परम्परा में मान्यता प्राप्त आचारों को भी उन्होंने वही तक प्रश्रय दिया, जहां तक वे उनकी अनुभूति की कसौटी पर खरे उतरे थे। उन सामाजिक या धार्मिक आचारों और विश्वासो का उनके जीवन में कोई स्थान न था, जो उनकी अनुभूति की कसौटी पर पूरे न उतरे थे। इस प्रकार उनका जीवन वैयक्तिक पहले था, सामाजिक बाद में।

इनकी जीवन-दृष्टि मूलतः मानवता-वादी थी। इसी लिए छीबा, दर्जी, नाई, जुलाहा, चमार और राजा सभी एक भक्ति के सूत्र में पिरोये जाकर 'सत-माला' के जगमगाते 'माणिक' बन गये। गत छः सात शताब्दियों में भारत में

हजारों सत समुदायों ने जन्म लिया, लेकिन इस मानवतावादी दृष्टि से कोई भी दूर न रह सका। धर्म, अर्थ, कर्म व जाति के आधार पर मानव-समाज का विभाजन किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहो, उत्तराधिकारी के चुनाव में भी इनमें से किसी आधार या पुत्र-परम्परा को भी स्वीकार न किया गया, अपितु जिस शिष्य में मानवीय तत्व सर्वाधिक विकसित हो सके हैं, उसे ही गद्दी का अधिकारी बनाया गया। वैयक्तिक स्वार्थों के कारण सदा हो इसके विरुद्ध विद्रोह हुआ है, लेकिन मानवतावादी दृष्टि इस विद्रोह के सम्मुख कभी भुकी नहीं—इसी से इसका महत्व स्पष्ट है।

सतो ने काव्य-निर्माण का बीड़ा कभी नहीं उठाया था और न ही काव्य-गत विशेषताओं से उनका कोई परिचय ही था। कभी २ वैयक्तिक आल्हाद में वे गाने पर विवश हो गये थे। इस आन्तरिक विवशता में अनुभूति की जो अभिव्यक्ति हुई अथवा जन-सामान्य को जिस बाणी में उन्होंने अपना सन्देश दिया, उसे हम उनका काव्य समझ बैठे। मूलतः काव्यत्व तो उनके संदेश का बहुत गौण तत्व था, इसीलिए साहित्यिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन करने वाले इनके साथ न्याय न कर सके। उनके सम्पूर्ण काव्य का प्रेरणा स्रोत वैयक्तिक आनन्द तथा सामाजिक संदेश रहा है, अतः मूल्यांकन करते हुए हम इसे भुला नहीं सकते।

सत-भावना की यह सामान्य पृष्ठभूमि थी, जिस पर विचारधारा विशेष का प्रासाद निर्मित हुआ। आगामी पंक्तियों

में इसका विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है।

सतों का ब्रह्म अनिर्वचनीय है। दार्शनिक दृष्टि से उसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि कोटियों में नहीं रख सकता। वस्तुत सतों ने उसे बौद्धिक या तार्किक-पद्धति का ग्राधार नहीं प्रदान किया, अत इस दृष्टि से उसकी उचित व्याख्या भी नहीं हो सकती। कबीर के ब्रह्म पर विचार करते हुए हम देख आए हैं, कि वह न केवल इन्द्रियातीत है, अपितु वह तो निर्गुण सगुणातीत भी है। वह तो केवल अनुभूति का विषय है। इसीलिए उसके स्वरूप और गुणों की अन्यान्य व्याख्याओं के बाद भी कभी कोई सत मतुष्ट नहीं आ कि वह समाज के लिये ब्रह्म के रूप का स्पष्टीकरण कर सका है।

उसका गुण-गान करते व 'सुर नर मुनि जन' का तो कहना ही क्या स्वतँ ब्रह्मा तक थक गूए, लेकिन अनन्त का कोई अत न पा सके। उपनिषदों की तरह ब्रह्म की 'नेति'-परक व्याख्या भी यहा मिलती है, उसे सर्वज्ञ, सर्व व्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वकर्त्ता, सर्व-नियता आदि स्वीकार किया गया है। मूलत निर्गुण वह अनिर्वचनीय है, लेकिन गुणों के माध्यम से जब उसके स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह सगुण-निराकार रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन संतों का सगुण-निराकार स्वरूप भी तुलसी जैसा सगुण नहीं, क्योंकि वह तो लौकिक गुणों से अतीत ही है, इसलिये मूलतः हम उसे निर्गुण ही स्वीकार करते हैं।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी का प्रसार है, लेकिन वह स्वतँ.

अविकृत और निर्लिप्त रहता है। सृष्टि का एक मात्र वही उपादान और निमित्त कारण है। सतो की दृष्टि में सृष्टि शक्रवत् मिथ्या नहीं, वह सत्य है, क्योंकि सत्य ब्रह्म का ही प्रसार है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी-जीव भी उसी तरह सत्य है। वस्तुतः आत्मा और और परमात्मा से उन्होंने अशांशि सम्बन्ध को स्वीकार किया है। 'अग्निस्फुर्निगवत्' जीव में ब्रह्म के सब गुण हैं, उन्हें वह विकसित कर ब्रह्म से तादत्तम्य और ऐक्य स्थापित कर अपने व्यक्तित्व का उभी में तिरोहण का सकता है। यह जीव के जीवन का लक्ष्य या साध्य है जो प्राप्त करना दुष्कर है, लेकिन सतो ने मानव को सदा इसके प्रति सतर्क किया है, और इसे प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी और मर्ग भी बताया है। इस भेद के आभास का कारण उन्होंने सर्पणी माया को बताया है। वस्तुतः माया ही जीव को भरमा कर इस ससार के प्रलोभनों में फसा देती है और उसे लक्ष्य से पथ-भ्रष्ट कर देती है। इन्द्रियों के वश में होने के कारण जीव मूलतः कचन और कामिनी का शिकार हो जाता है। लौकिक समृद्धि की चाह उसे सब प्रकार के दुष्कर्मों की प्रेरणा देती है और कामिनी-नारी मानव की वासनाओं को उभार कर उसके चित्त को मलिन कर देती है। सतो ने इनका विरोध नहीं किया, अपितु इनका परिहार किया है। भरमाने वाली माया से जीव को सतर्क करते हुए उन्होंने अनावश्यक धन-सग्रह को जहा बुरा बताया है, वहा पूर्णतः कामिनी से लिप्त हो जाने को भी भरपेट निन्दा की है। लेकिन धन और स्त्री को न कूने वाले साधुओं में भी वे न थे। अपनी आजोविका अर्जित करने के लिए उन्होंने कर्मण्य गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन उसे ही सब

कुछ नहीं समझ बैठे । उन्होने लौकिक और पारलौकिक जीवन में अद्भुत संतुलन स्थापित किया हुआ था । इसीलिए कबीर को अपनी मा के उलाहनों का शिकार बनना पड़ा था, लेकिन भावात्मक आवेश में उसने अपनी विचारधारा का त्याग नहीं किया था, यही उसके व्यक्तित्व की महानता थी । वस्तुतः जहां एक और इन मनों ने माया-लिप्त हो धन-संग्रह का विरोध किया था, वहा अकर्मण्य-जीवन का भी उतनी ही शवित-पूर्वक विरोध किया था । इसी प्रकार गृहस्थ में लिप्त गृहस्थियों और पलायनवादी माधुओ—दोनों का ही उन्होने विरोध किया था । सच पूछा जावे, तो इसी से उनके 'सहज-पथ' का निर्माण हुआ है । प्रकृति के स्वाभाविक नियमों को उन्होने सहज रूप में अपनाया और क्रियात्मक जीवन के माध्यम से जन-समाज को अपनाने का सदेश भी दिया ।

वह युग अन्तविरोधो का युग था । ज्ञानियों के शुष्क-ज्ञान ने उनके अहंकार को अवश्य जाग्रृत किया था, पर उनका बौद्धिक संतोष न कर सका था । सतों ने ज्ञानाधारित सत्यों को वहाँ तक अपनाया, जहा तक वे जीवन बोभिल न बनाने वाले सिद्ध हुए । ज्ञान की अपनाएं बिना उसकी बात करने वालों को उन्होने धिक्कारा है । इसीलिए 'वेदों इत्यादि पुस्तकी-विद्या' की निन्दा नहीं की, अपितु उसे 'समझे बिना अपनाने का रैंग अलापने वालों को आड़े हाथों लिया है । उनकी कृतियों में कहीं कहीं पुस्तकी-विद्या का विरोध भी प्रतीत होता है, उससे भी मूल-भाव 'उसके ज्ञान' को न अपनाने वालों का ही विरोध है । अनुभूत्याधारित ज्ञान 'को इन्होनें सर्वत्र ही प्रश्नय दिया है ।'

जनसमाज में विभिन्न सम्प्रदायों के माध्यम से प्रसरित होने वाली भक्ति में उन्होंने भाव का अभाव पाया। इसी लिए भक्ति के बाह्य आवरण अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गए, परन्तु उसकी आन्तरिक-शक्ति क्षीण होती गई। सन्तों ने भाव-हीन आवरणों और आडम्बरों का जी भर कर विरोध किया। मूर्ति-पूजा करने वालों का अन्तर में बैठी मूर्ति से परिचय कराया, मन्दिर जाने वालों को मन-मन्दिर की याद दिलाई, 'कर का मनका' फेरने वालों को 'मन का मनका' ला पकड़ाया, तीर्थों में भ्रमण करने वालों को सत्गुर रूपी तीर्थ के दर्शन करवाये, गगा-स्नान करने वालों को अन्त स्नान का पाठ पढ़ाया, ब्रत रखने वालों को वास्तविक ब्रत का महत्व बताया, इन आवरणों के माध्यम से भवित अपनाने में प्रयत्नशीलों को भक्ति के मूल तत्त्व भाव-पूर्ण 'नाम' का वरदान दिया। इस प्रकार भक्ति का भी इन्होंने विरोध नहीं किया, अपितु उसे परिष्कृत रूप प्रदान कर महज और स्वाभाविक बना दिया, ताकि ब्रन-सामान्य भाव पूर्ण हृदय से—विना किसी आडम्बर के भी उसे अपना सके।

योगियों की जटिल देहिक क्रियाओं में फस कर योग ने भी विकट रूप धारण कर निया था। सन्तों ने इस जटिलता का विरोध कर उसे सहज बनाया। जहां तक स्वास्थ्य-रक्षा का सम्बन्ध है, उन्होंने सशक्ति, स्वस्थ देह को निर्मित करने का मन्देश दिया है, लेकिन विकृत साधनाम्भों के माध्यम से उसे अनवश्यक रूप से कष्ट-सहिणु बनाने का खुल कर विरोध किया है। केवल देह को कष्ट देकर यौगिक क्रियाओं के मध्यम से ब्रह्म-प्राप्ति या ब्रह्म-दर्शन से उन्होंने असहमति प्रकट की है।

नहीं है। इस 'नाम' में अनन्यता, एकाग्रता और अनवरत तल्लीनता भक्त को सफलता प्रदान करने वाले विशिष्ट तत्त्व हैं। सन्तो ने नाम को इतना महत्व दिया, इसी से इनके मार्ग को कहयो ने 'नाम-मार्ग' तक की सज्जा प्रदान कर दी हैं। नाम कोई भी हो, उसका उतना महत्व नहीं जितना उसमें अन्तर्हित भाव का। और नाम तो उस भाव की ही जागृत रखने का साधन मात्र है। सच पूछा जावे, तो सत्गुरु और नाम को अर्जित नहीं किया जा सकता, यह तो भगवत्कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और यह भगवत्कृपा कब हो, यह कोई नहीं जान सकता। व्यक्ति भाव परायण होकर सत्कर्म करता चले, यदि उसके विश्वास में बल होगा, निश्चय में दृढ़ता होगी, भक्ति में अनन्यता होती, तो भगवत्कृपा भी कभी न कभी हो ही जावेगी। और जब भगवत्कृपा हो गई, तो कोई समस्या शेष नहीं रह जाती। सन्तो ने एक स्वर से भगवत्कृपा को ही सर्वप्रधान साक्ष्यन स्वीकार किया है। सत्कर्म, सत्सगिति सत्गुरु आदि इसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं।

अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने आलंकारिक चमत्कारमयी वाणी का आश्रय नहीं लिया, अपितु भाषा की सरलता, स्पष्टता और शक्तिमत्ता ने ही उनकी शैली को साहित्यिकता प्रदान की है। न उनके मन में, न उनकी विचारधारा में किसी प्रकार का दुराव-छिपाव था, और न ही अभिव्यक्ति में कोई वक्रता। हा उनके सीधे-सादे परन्तु सशक्त व्यंगों में आडम्बरवादियों को तिलमिला देने की अद्भुत सामर्थ्य थी, यही उनकी अभिव्यक्ति की शक्ति है। इसका

यह मतलब नहीं, कि उनकी वाणी में नम्रता न हो । भगवान के सम्मुख उनकी विनयिता की हृद होती है -- उनका अपना तो अस्तित्व ही नहीं रहता । वस्तुत उनकी अभिव्यक्ति को उनकी विचारधारा नहीं, भावधारा ढालती रही है, इसी से वह सहज, स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक बन सकी है । सीधा जन-मन के हृदय को प्रभावित करनी है, इससे बढ़कर उसकी निश्छलता का प्रमाण हो भी वया सकता है ।

सन्त-भावना किसी सम्प्रदाय-विशेष में आबद्ध नहीं हुई, इसीलिए अन्यान्य सम्प्रदायों के माध्यम से इस एक ही भावना का विकास होता रहा और हो रहा है । यह मानवीय धरातल पर विकसित हुई है । किसी भी धर्म, कर्म, अर्थ और जाति के वर्ग का व्यक्ति इसे अनायास हो अपना सकता था और जब चाहे इसका त्याग भी कर सकता था । यहाँ किसी प्रकार का बन्धन न था, जाति या वर्ग बहिष्कृत करने की आवश्यकता न थी । सन्तों की मान्यताओं का धरातल बड़ा व्यापक था । वस्तुत उनकी मान्यताओं की आधार-भूमि एक ही थी, अत उन पर जिस क्रियात्मक जीवन या जीवन-दर्शन का विकास हुआ, उसके मूल-तत्त्वों में कोई अन्तर न आया । इस भावना के स्थायित्व का कारण इसकी सहज स्वाभाविकता है । कृत्रिम क्रियाकलापों को इसमें स्थान न दे कर सन्तों ने इसे विशिष्ट नहीं होने दिया । बाह्य आवरणों, आडम्बरों या कम्बोंकाण्डों वें अभाव ने इसे भाव-प्रधान बना रहने में सहायता दी । इस प्रकार मकीर्णता के आधार-स्तम्भों के अभाव में इसे कम विरोध सहना पड़ा और यह सामान्य धरातल पर विकसित होती गई । वैयक्तिक चारित्रिक दृढ़ता ने इसे और भी

(१४१)

राक्षित प्रदर्शन की। समाज के किसी भी वर्ग से आने वाले चरित्रवान् व्यक्ति ने इसे हँस कर अपनाया, यदि नहीं भी अपनाया तो कम से कम इसका विरोध नहीं किया। इस प्रकार प्रत्येक युग के, सभी वर्गों के चरित्रवान् व्यक्तियों का आश्रय पाकर यह सशक्त हृती गई।

वैज्ञानिक प्रगति और राजनीतिक श्रेष्ठाति के इस युग में ग्राज राजनीतिज्ञों ने 'विश्व-सरकार' की ग्रावश्यकता अनुभव की है। यह समस्या का बहुत ऊपरी समाधान है। यदि और गहराई में जाकर मानव-मानव को निकट लाने का प्रयत्न किया जावे, तो वह 'मानव-धर्म' और कुछ नहीं, इन सन्तों की सामान्य मान्यताओं का ही विकसित एवं परिष्कृत रूप है। सन्तों की मान्यताओं का महत्व इसी से स्पष्ट है। धरा-धाम का उद्घार करने वाले, मानव-मानव को एकता का रान्देश देने वाले, जोवन में अलौकिक-रस का सचार करने वाले, विश्व में शान्ति का प्रसार करने वाले सन्तों और उनकी मान्यताओं का यह सक्षिप्त-सा लेखा-जोखा है।

